

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 23/330**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 2259      | 4.05                 | 62.35              | 13.92        | 0.3515                           |
| 2     | 2235      | 7.3                  | 54.53              | 13.17        | 0.5241                           |
| 3     | 2290      | 4.72                 | 51.18              | 12.23        | 0.2955                           |
| 4     | 2244      | 9.51                 | 64.66              | 13.76        | 0.8464                           |
| 5     | 2243      | 9.05                 | 61.35              | 15.32        | 0.8507                           |
| 6     | 2240      | 4.41                 | 48.19              | 12.95        | 0.2752                           |
| 7     | 2272      | 7.65                 | 56.35              | 13.95        | 0.6013                           |
| 8     | 2249      | 6.86                 | 60.75              | 13.56        | 0.5653                           |
| 9     | 2260      | 7.6                  | 60.32              | 13.30        | 0.6095                           |
| 10    | 2237      | 7.39                 | 50.49              | 12.40        | 0.4626                           |
| 11    | 2276      | 7.51                 | 54.08              | 13.41        | 0.5445                           |
| 12    | 2247      | 4.65                 | 61.62              | 12.89        | 0.3692                           |
| 13    | 2293      | 7.52                 | 58.82              | 12.19        | 0.5392                           |
| 14    | 2257      | 7.58                 | 66.74              | 12.56        | 0.6352                           |
| 15    | 2250      | 6.75                 | 61.11              | 13.65        | 0.5630                           |
| 16    | 2210      | 8.8                  | 43.66              | 13.81        | 0.5306                           |
| 17    | 2226      | 4.04                 | 61.61              | 14.46        | 0.3600                           |
| 18    | 2219      | 4.65                 | 66.08              | 12.88        | 0.3957                           |
| 19    | 2213      | 7.77                 | 50.01              | 11.40        | 0.4429                           |
| 20    | 2207      | 8.47                 | 59.48              | 12.22        | 0.6158                           |
| 21    | 2238      | 7.21                 | 59.13              | 11.82        | 0.5040                           |
| 22    | 2206      | 4.27                 | 71.78              | 13.36        | 0.4095                           |
| 23    | 2261      | 8.43                 | 69.44              | 12.56        | 0.7351                           |
| 24    | 2221      | 7.49                 | 63.05              | 12.42        | 0.5865                           |
| 25    | 2214      | 6.93                 | 51.96              | 12.88        | 0.4636                           |
| 26    | 2224      | 7.62                 | 54.88              | 13.81        | 0.5776                           |
| 27    | 2289      | 7.67                 | 51.20              | 13.54        | 0.5315                           |
| 28    | 2278      | 4.18                 | 51.31              | 13.43        | 0.2880                           |
| 29    | 2236      | 7.65                 | 60.64              | 13.59        | 0.6304                           |
| 30    | 2209      | 8.66                 | 52.60              | 14.37        | 0.6547                           |
| 31    | 2297      | 4.7                  | 60.04              | 11.43        | 0.3224                           |
| 32    | 2288      | 7.64                 | 48.88              | 14.20        | 0.5302                           |
| 33    | 2216      | 9.32                 | 57.16              | 13.68        | 0.7288                           |
| 34    | 2258      | 7.32                 | 61.90              | 12.15        | 0.5505                           |
| 35    | 2295      | 5.6                  | 56.14              | 11.63        | 0.3657                           |
| 36    | 2227      | 10.17                | 62.78              | 10.99        | 0.7017                           |
| 37    | 2253      | 7.26                 | 62.73              | 11.99        | 0.5460                           |
| 38    | 2277      | 4.48                 | 59.03              | 11.32        | 0.2993                           |
| 39    | 2203      | 4.59                 | 60.69              | 13.20        | 0.3677                           |
| 40    | 2282      | 4.26                 | 52.95              | 11.71        | 0.2641                           |
| 41    | 2215      | 8.11                 | 59.50              | 10.66        | 0.5142                           |
| 42    | 2256      | 8.56                 | 67.32              | 12.88        | 0.7422                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 43 | 2254 | 7.92 | 66.06 | 12.52 | 0.6550 |
| 44 | 2241 | 7    | 60.23 | 10.97 | 0.4627 |
| 45 | 2225 | 9.53 | 65.78 | 13.41 | 0.8405 |
| 46 | 2229 | 5.14 | 65.32 | 11.56 | 0.3881 |
| 47 | 2294 | 9.56 | 66.52 | 13.27 | 0.8441 |
| 48 | 2251 | 4.57 | 57.65 | 12.68 | 0.3341 |
| 49 | 2280 | 4.46 | 54.35 | 11.92 | 0.2890 |
| 50 | 2264 | 6.96 | 62.15 | 11.47 | 0.4962 |
| 51 | 2281 | 9.06 | 54.76 | 9.17  | 0.4548 |
| 52 | 2239 | 7.46 | 60.02 | 12.18 | 0.5453 |
| 53 | 2255 | 4.14 | 61.82 | 12.57 | 0.3217 |
| 54 | 2211 | 7.47 | 61.65 | 13.25 | 0.6103 |
| 55 | 2228 | 7.67 | 59.62 | 12.86 | 0.5883 |
| 56 | 2245 | 4.53 | 63.89 | 12.63 | 0.3656 |
| 57 | 2246 | 8.8  | 60.48 | 11.77 | 0.6266 |
| 58 | 2208 | 8.8  | 52.50 | 12.30 | 0.5685 |
| 59 | 2266 | 7.05 | 59.68 | 12.77 | 0.5372 |
| 60 | 2268 | 7.5  | 50.88 | 12.64 | 0.4823 |
| 61 | 2232 | 8.78 | 52.95 | 12.75 | 0.5926 |
| 62 | 2233 | 8.72 | 62.29 | 13.58 | 0.7377 |
| 63 | 2284 | 8.63 | 52.38 | 15.08 | 0.6818 |
| 64 | 2274 | 7.87 | 52.23 | 12.85 | 0.5281 |
| 65 | 2292 | 7.67 | 56.85 | 12.28 | 0.5354 |
| 66 | 2270 | 9.84 | 53.39 | 14.22 | 0.7469 |
| 67 | 2279 | 4.43 | 51.18 | 14.83 | 0.3362 |
| 68 | 2202 | 4.61 | 57.69 | 13.99 | 0.3720 |
| 69 | 2296 | 4.06 | 60.69 | 12.00 | 0.2956 |
| 70 | 2291 | 7.69 | 55.13 | 13.30 | 0.5637 |
| 71 | 2252 | 7.41 | 55.98 | 12.54 | 0.5202 |
| 72 | 2285 | 7.73 | 53.80 | 13.14 | 0.5465 |
| 73 | 2242 | 8.2  | 56.46 | 12.98 | 0.6011 |
| 74 | 2286 | 4.53 | 55.44 | 13.28 | 0.3334 |
| 75 | 2273 | 7.67 | 54.38 | 11.99 | 0.5001 |
| 76 | 2275 | 4.84 | 56.98 | 12.65 | 0.3490 |
| 77 | 2283 | 8.17 | 59.49 | 11.38 | 0.5531 |
| 78 | 2298 | 9.46 | 60.44 | 12.71 | 0.7265 |
| 79 | 2222 | 8.21 | 68.12 | 10.64 | 0.5952 |
| 80 | 2248 | 7.14 | 63.84 | 14.57 | 0.6640 |
| 81 | 2218 | 9.31 | 62.91 | 11.81 | 0.6917 |
| 82 | 2262 | 7.7  | 72.41 | 12.17 | 0.6784 |
| 83 | 2201 | 8.33 | 58.17 | 12.65 | 0.6131 |
| 84 | 2265 | 8.98 | 61.65 | 11.06 | 0.6124 |
| 85 | 2287 | 8.48 | 54.89 | 15.58 | 0.7250 |
| 86 | 2263 | 7.33 | 69.74 | 11.28 | 0.5769 |
| 87 | 2223 | 4.87 | 56.98 | 12.76 | 0.3540 |
| 88 | 2220 | 4.46 | 60.24 | 12.75 | 0.3425 |
| 89 | 2299 | 4.5  | 56.77 | 11.78 | 0.3011 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 90  | 2234 | 4.69 | 65.84 | 11.85 | 0.3658 |
| 91  | 2300 | 7.57 | 53.69 | 14.49 | 0.5889 |
| 92  | 2212 | 7.72 | 49.65 | 14.72 | 0.5643 |
| 93  | 2230 | 5.01 | 51.53 | 12.48 | 0.3221 |
| 94  | 2217 | 4.83 | 51.62 | 12.96 | 0.3231 |
| 95  | 2269 | 4.64 | 57.29 | 13.61 | 0.3619 |
| 96  | 2204 | 4.26 | 59.20 | 14.80 | 0.3732 |
| 97  | 2231 | 8.26 | 56.27 | 13.47 | 0.6261 |
| 98  | 2205 | 7.28 | 54.58 | 15.35 | 0.6101 |
| 99  | 2271 | 4.35 | 53.61 | 14.10 | 0.3289 |
| 100 | 2267 | 4.33 | 37.93 | 16.00 | 0.2628 |

**Name of Division : Pratapgarh-II**

**Challan No. : 26/417**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 2517      | 7.29                 | 53.56              | 14.08        | 0.5497                           |
| 2     | 2599      | 4.36                 | 58.33              | 13.97        | 0.3553                           |
| 3     | 2571      | 4.23                 | 51.64              | 14.47        | 0.3160                           |
| 4     | 2570      | 7.44                 | 51.38              | 14.09        | 0.5387                           |
| 5     | 2574      | 4.62                 | 61.18              | 12.75        | 0.3604                           |
| 6     | 2513      | 4.32                 | 58.95              | 13.18        | 0.3357                           |
| 7     | 2586      | 4.27                 | 61.40              | 14.19        | 0.3719                           |
| 8     | 2508      | 3.9                  | 49.83              | 13.71        | 0.2664                           |
| 9     | 2592      | 7.27                 | 53.10              | 15.73        | 0.6070                           |
| 10    | 2512      | 3.8                  | 58.12              | 14.44        | 0.3188                           |
| 11    | 2551      | 4.73                 | 57.53              | 14.29        | 0.3888                           |
| 12    | 2568      | 7.12                 | 55.67              | 13.36        | 0.5297                           |
| 13    | 2554      | 4.75                 | 52.10              | 14.97        | 0.3705                           |
| 14    | 2545      | 3.48                 | 50.46              | 12.39        | 0.2175                           |
| 15    | 2520      | 7.23                 | 50.81              | 13.52        | 0.4967                           |
| 16    | 2522      | 3.62                 | 61.71              | 12.09        | 0.2701                           |
| 17    | 2593      | 7.39                 | 49.03              | 11.63        | 0.4212                           |
| 18    | 2590      | 4.2                  | 58.37              | 12.44        | 0.3049                           |
| 19    | 2524      | 7.35                 | 63.86              | 10.80        | 0.5072                           |
| 20    | 2515      | 4.76                 | 64.20              | 13.66        | 0.4175                           |
| 21    | 2553      | 9.26                 | 56.75              | 13.71        | 0.7204                           |
| 22    | 2557      | 7.57                 | 59.36              | 11.89        | 0.5344                           |
| 23    | 2564      | 8.39                 | 64.32              | 11.83        | 0.6385                           |
| 24    | 2507      | 4.4                  | 66.09              | 12.76        | 0.3709                           |
| 25    | 2547      | 4.16                 | 54.38              | 12.78        | 0.2891                           |
| 26    | 2521      | 7.47                 | 54.97              | 13.55        | 0.5565                           |
| 27    | 2546      | 7.14                 | 57.32              | 13.21        | 0.5405                           |
| 28    | 2565      | 4.14                 | 61.24              | 14.37        | 0.3643                           |
| 29    | 2588      | 4.56                 | 57.71              | 14.00        | 0.3684                           |
| 30    | 2594      | 4.35                 | 47.20              | 14.49        | 0.2975                           |
| 31    | 2591      | 7.35                 | 53.52              | 15.86        | 0.6240                           |
| 32    | 2581      | 3.22                 | 53.49              | 14.26        | 0.2457                           |
| 33    | 2555      | 3.75                 | 59.50              | 13.08        | 0.2917                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 34 | 2544 | 7.76 | 59.79 | 13.61 | 0.6317 |
| 35 | 2584 | 4.02 | 55.62 | 13.18 | 0.2947 |
| 36 | 2502 | 7.3  | 49.20 | 11.57 | 0.4154 |
| 37 | 2525 | 4    | 51.94 | 11.28 | 0.2344 |
| 38 | 2538 | 7.22 | 62.68 | 12.97 | 0.5870 |
| 39 | 2531 | 7.22 | 57.81 | 12.82 | 0.5350 |
| 40 | 2511 | 3.55 | 64.21 | 12.60 | 0.2872 |
| 41 | 2534 | 7.31 | 54.69 | 12.07 | 0.4825 |
| 42 | 2516 | 4.49 | 53.43 | 13.05 | 0.3130 |
| 43 | 2518 | 4.73 | 63.32 | 13.19 | 0.3950 |
| 44 | 2542 | 7.61 | 58.26 | 11.67 | 0.5175 |
| 45 | 2539 | 7.03 | 58.97 | 11.99 | 0.4970 |
| 46 | 2529 | 4.26 | 59.72 | 12.07 | 0.3071 |
| 47 | 2583 | 7.67 | 62.90 | 12.31 | 0.5937 |
| 48 | 2576 | 3.85 | 61.18 | 11.96 | 0.2818 |
| 49 | 2548 | 7.11 | 57.43 | 11.82 | 0.4828 |
| 50 | 2527 | 4.36 | 55.39 | 11.39 | 0.2751 |
| 51 | 2543 | 7.4  | 61.39 | 12.51 | 0.5683 |
| 52 | 2536 | 7.37 | 57.56 | 13.05 | 0.5535 |
| 53 | 2600 | 7.47 | 55.69 | 14.35 | 0.5969 |
| 54 | 2573 | 7.15 | 55.33 | 12.47 | 0.4934 |
| 55 | 2503 | 3.59 | 54.37 | 12.43 | 0.2427 |
| 56 | 2552 | 7.21 | 62.78 | 12.79 | 0.5790 |
| 57 | 2585 | 3.56 | 63.54 | 12.37 | 0.2798 |
| 58 | 2582 | 4.83 | 62.45 | 11.87 | 0.3579 |
| 59 | 2533 | 4.35 | 50.39 | 12.32 | 0.2701 |
| 60 | 2569 | 4.59 | 53.20 | 12.78 | 0.3121 |
| 61 | 2580 | 8.23 | 51.40 | 13.72 | 0.5802 |
| 62 | 2563 | 9.58 | 62.06 | 12.92 | 0.7683 |
| 63 | 2566 | 7.26 | 45.90 | 15.32 | 0.5104 |
| 64 | 2530 | 4.82 | 51.38 | 15.18 | 0.3760 |
| 65 | 2597 | 6.01 | 49.19 | 15.96 | 0.4718 |
| 66 | 2575 | 7.93 | 50.80 | 13.41 | 0.5400 |
| 67 | 2519 | 4.79 | 49.26 | 14.41 | 0.3401 |
| 68 | 2578 | 3.7  | 54.30 | 13.74 | 0.2760 |
| 69 | 2523 | 9.46 | 58.03 | 13.48 | 0.7398 |
| 70 | 2559 | 9.22 | 60.86 | 13.87 | 0.7782 |
| 71 | 2506 | 4.56 | 49.78 | 12.43 | 0.2823 |
| 72 | 2528 | 3.84 | 56.34 | 13.68 | 0.2961 |
| 73 | 2537 | 3.59 | 55.04 | 14.01 | 0.2768 |
| 74 | 2501 | 7.63 | 56.08 | 13.20 | 0.5646 |
| 75 | 2561 | 8.45 | 61.26 | 12.75 | 0.6599 |
| 76 | 2540 | 7.59 | 58.77 | 11.54 | 0.5146 |
| 77 | 2587 | 4.67 | 50.39 | 13.24 | 0.3115 |
| 78 | 2556 | 5.03 | 62.18 | 11.58 | 0.3622 |
| 79 | 2596 | 4.46 | 49.01 | 13.79 | 0.3015 |
| 80 | 2595 | 4.38 | 53.03 | 14.71 | 0.3416 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 81  | 2572 | 3.89 | 47.32 | 13.46 | 0.2478 |
| 82  | 2577 | 4.28 | 54.61 | 11.94 | 0.2791 |
| 83  | 2535 | 3.82 | 53.60 | 12.26 | 0.2510 |
| 84  | 2567 | 4.53 | 67.28 | 12.59 | 0.3837 |
| 85  | 2560 | 4.72 | 68.00 | 11.38 | 0.3653 |
| 86  | 2589 | 4.1  | 50.81 | 13.60 | 0.2833 |
| 87  | 2504 | 7.35 | 59.38 | 13.30 | 0.5807 |
| 88  | 2532 | 3.68 | 58.65 | 12.50 | 0.2697 |
| 89  | 2509 | 3.89 | 62.09 | 11.82 | 0.2855 |
| 90  | 2526 | 4.82 | 61.19 | 12.18 | 0.3591 |
| 91  | 2562 | 9.66 | 59.37 | 14.42 | 0.8269 |
| 92  | 2598 | 8.2  | 43.51 | 15.47 | 0.5519 |
| 93  | 2549 | 9.25 | 53.29 | 14.39 | 0.7095 |
| 94  | 2514 | 4.23 | 54.78 | 14.38 | 0.3333 |
| 95  | 2550 | 9.24 | 55.90 | 14.72 | 0.7605 |
| 96  | 2510 | 7.94 | 53.41 | 14.85 | 0.6296 |
| 97  | 2541 | 8.02 | 58.76 | 14.72 | 0.6937 |
| 98  | 2558 | 4.59 | 59.35 | 14.46 | 0.3938 |
| 99  | 2505 | 7.57 | 50.78 | 14.20 | 0.5458 |
| 100 | 2579 | 3.32 | 55.46 | 14.91 | 0.2746 |

Date: 17.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 02/55**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 111       | 4.19                 | 42.04              | 15.53        | 0.2736                           |
| 2     | 173       | 7.56                 | 57.73              | 12.85        | 0.5610                           |
| 3     | 171       | 4.56                 | 56.17              | 14.15        | 0.3625                           |
| 4     | 154       | 9.27                 | 51.35              | 12.05        | 0.5738                           |
| 5     | 170       | 9.07                 | 56.26              | 12.71        | 0.6485                           |
| 6     | 107       | 4.54                 | 49.60              | 14.66        | 0.3301                           |
| 7     | 188       | 4.86                 | 56.34              | 13.47        | 0.3689                           |
| 8     | 117       | 7.58                 | 48.01              | 15.31        | 0.5571                           |
| 9     | 110       | 7.1                  | 47.76              | 14.93        | 0.5062                           |
| 10    | 199       | 4.54                 | 57.06              | 13.93        | 0.3609                           |
| 11    | 137       | 7.49                 | 47.61              | 14.98        | 0.5340                           |
| 12    | 104       | 3.99                 | 47.81              | 14.41        | 0.2749                           |
| 13    | 166       | 7.27                 | 52.85              | 13.81        | 0.5307                           |
| 14    | 163       | 7.42                 | 55.99              | 14.34        | 0.5958                           |
| 15    | 122       | 7.1                  | 47.88              | 13.64        | 0.4636                           |
| 16    | 133       | 9.13                 | 50.44              | 13.74        | 0.6327                           |
| 17    | 128       | 8.52                 | 48.40              | 14.32        | 0.5904                           |
| 18    | 130       | 9.11                 | 67.53              | 13.22        | 0.8135                           |
| 19    | 198       | 9.09                 | 55.25              | 13.70        | 0.6881                           |
| 20    | 152       | 8.55                 | 57.34              | 12.63        | 0.6190                           |
| 21    | 121       | 8.45                 | 45.48              | 14.71        | 0.5653                           |
| 22    | 167       | 9.79                 | 53.14              | 13.10        | 0.6814                           |
| 23    | 145       | 8.84                 | 55.50              | 14.40        | 0.7063                           |
| 24    | 126       | 8.77                 | 55.86              | 13.59        | 0.6656                           |
| 25    | 168       | 9.34                 | 62.72              | 13.47        | 0.7892                           |
| 26    | 178       | 9.26                 | 44.65              | 14.13        | 0.5843                           |
| 27    | 123       | 9.05                 | 48.17              | 16.19        | 0.7059                           |
| 28    | 177       | 8.8                  | 55.84              | 13.36        | 0.6565                           |
| 29    | 164       | 9.08                 | 61.02              | 13.34        | 0.7391                           |
| 30    | 180       | 9.55                 | 51.74              | 14.05        | 0.6943                           |
| 31    | 151       | 7.5                  | 56.58              | 13.70        | 0.5813                           |
| 32    | 158       | 7.62                 | 57.36              | 14.09        | 0.6157                           |
| 33    | 181       | 4.65                 | 44.26              | 13.65        | 0.2809                           |
| 34    | 148       | 7.36                 | 59.34              | 14.17        | 0.6190                           |
| 35    | 108       | 7.44                 | 56.50              | 13.93        | 0.5855                           |
| 36    | 131       | 7.5                  | 56.53              | 13.69        | 0.5805                           |
| 37    | 105       | 4.31                 | 38.90              | 15.40        | 0.2582                           |
| 38    | 182       | 7.2                  | 42.61              | 16.31        | 0.5004                           |
| 39    | 114       | 3.67                 | 49.23              | 14.20        | 0.2565                           |
| 40    | 192       | 6.83                 | 56.83              | 13.88        | 0.5389                           |
| 41    | 179       | 7.88                 | 56.24              | 12.36        | 0.5477                           |
| 42    | 189       | 7.8                  | 56.40              | 13.83        | 0.6084                           |

|    |     |      |       |       |        |
|----|-----|------|-------|-------|--------|
| 43 | 124 | 4.46 | 49.43 | 12.30 | 0.2712 |
| 44 | 150 | 7.86 | 55.03 | 12.50 | 0.5408 |
| 45 | 160 | 7.66 | 49.35 | 13.96 | 0.5278 |
| 46 | 197 | 9.42 | 58.73 | 13.03 | 0.7206 |
| 47 | 146 | 9.05 | 55.68 | 13.58 | 0.6842 |
| 48 | 134 | 7.6  | 46.95 | 16.04 | 0.5723 |
| 49 | 106 | 8.74 | 43.51 | 14.30 | 0.5436 |
| 50 | 143 | 9.14 | 50.15 | 14.36 | 0.6581 |
| 51 | 153 | 9.33 | 50.97 | 14.20 | 0.6755 |
| 52 | 112 | 8.3  | 39.57 | 15.77 | 0.5179 |
| 53 | 194 | 8.48 | 50.09 | 15.35 | 0.6521 |
| 54 | 142 | 9.08 | 59.89 | 14.28 | 0.7763 |
| 55 | 174 | 9.21 | 54.11 | 12.27 | 0.6115 |
| 56 | 138 | 6.86 | 47.66 | 12.97 | 0.4239 |
| 57 | 183 | 7.71 | 48.92 | 14.98 | 0.5651 |
| 58 | 195 | 4.33 | 47.97 | 15.80 | 0.3282 |
| 59 | 144 | 7.36 | 48.42 | 16.32 | 0.5814 |
| 60 | 136 | 7.44 | 45.03 | 16.34 | 0.5476 |
| 61 | 103 | 3.81 | 38.75 | 15.25 | 0.2252 |
| 62 | 155 | 7.53 | 46.84 | 15.35 | 0.5414 |
| 63 | 113 | 3.64 | 44.84 | 14.76 | 0.2410 |
| 64 | 115 | 4.21 | 61.86 | 15.16 | 0.3949 |
| 65 | 200 | 4.62 | 53.40 | 14.46 | 0.3567 |
| 66 | 184 | 9.21 | 53.69 | 11.29 | 0.5581 |
| 67 | 140 | 9.07 | 58.68 | 13.51 | 0.7193 |
| 68 | 186 | 9.39 | 60.06 | 12.60 | 0.7108 |
| 69 | 127 | 8.75 | 59.33 | 11.87 | 0.6160 |
| 70 | 175 | 9.03 | 60.67 | 13.42 | 0.7350 |
| 71 | 157 | 8.67 | 61.27 | 13.19 | 0.7005 |
| 72 | 132 | 8.92 | 67.64 | 12.68 | 0.7653 |
| 73 | 118 | 8.69 | 57.23 | 11.24 | 0.5588 |
| 74 | 149 | 8.98 | 61.74 | 12.18 | 0.6753 |
| 75 | 169 | 9.08 | 61.23 | 10.31 | 0.5729 |
| 76 | 139 | 7.64 | 57.35 | 13.11 | 0.5745 |
| 77 | 109 | 3.61 | 49.66 | 10.97 | 0.1967 |
| 78 | 135 | 7.71 | 62.39 | 12.12 | 0.5829 |
| 79 | 125 | 4.24 | 50.51 | 12.97 | 0.2777 |
| 80 | 190 | 7.64 | 55.57 | 11.95 | 0.5073 |
| 81 | 129 | 4.42 | 64.55 | 14.18 | 0.4044 |
| 82 | 159 | 7.73 | 63.89 | 13.02 | 0.6431 |
| 83 | 161 | 4.39 | 62.03 | 12.82 | 0.3490 |
| 84 | 191 | 7.72 | 55.54 | 12.46 | 0.5342 |
| 85 | 162 | 7.37 | 52.86 | 12.64 | 0.4923 |
| 86 | 172 | 4.54 | 51.43 | 14.10 | 0.3291 |
| 87 | 176 | 4.72 | 61.75 | 14.22 | 0.4144 |
| 88 | 187 | 7.24 | 46.47 | 15.19 | 0.5111 |
| 89 | 120 | 7.55 | 50.22 | 13.10 | 0.4968 |

|     |     |      |       |       |        |
|-----|-----|------|-------|-------|--------|
| 90  | 119 | 7.45 | 49.79 | 14.38 | 0.5334 |
| 91  | 116 | 4.27 | 55.95 | 15.75 | 0.3762 |
| 92  | 147 | 7.73 | 49.27 | 14.45 | 0.5504 |
| 93  | 193 | 7.44 | 46.59 | 14.79 | 0.5126 |
| 94  | 102 | 4.35 | 37.52 | 14.10 | 0.2301 |
| 95  | 156 | 7.55 | 54.99 | 13.60 | 0.5647 |
| 96  | 185 | 8.31 | 55.87 | 13.78 | 0.6399 |
| 97  | 196 | 9.54 | 52.83 | 15.12 | 0.7622 |
| 98  | 165 | 8.62 | 56.46 | 13.18 | 0.6413 |
| 99  | 101 | 8.04 | 42.16 | 15.04 | 0.5097 |
| 100 | 141 | 9.38 | 51.66 | 14.07 | 0.6819 |

**Name of Division : Pratapgarh-II**

**Challan No. : 17/308**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 1651      | 3.44                 | 54.49              | 15.45        | 0.2896                           |
| 2     | 1639      | 4.07                 | 58.73              | 13.40        | 0.3203                           |
| 3     | 1604      | 4.46                 | 59.92              | 13.97        | 0.3733                           |
| 4     | 1680      | 7.36                 | 55.34              | 13.77        | 0.5608                           |
| 5     | 1625      | 3.56                 | 59.12              | 14.01        | 0.2948                           |
| 6     | 1699      | 4.3                  | 60.25              | 13.88        | 0.3595                           |
| 7     | 1655      | 4.44                 | 58.11              | 12.84        | 0.3312                           |
| 8     | 1623      | 4.38                 | 56.90              | 14.08        | 0.3508                           |
| 9     | 1627      | 6.9                  | 72.34              | 13.40        | 0.6686                           |
| 10    | 1650      | 7.38                 | 59.00              | 13.78        | 0.6000                           |
| 11    | 1626      | 4.44                 | 60.48              | 12.70        | 0.3410                           |
| 12    | 1629      | 7.3                  | 49.96              | 14.57        | 0.5314                           |
| 13    | 1606      | 4.31                 | 55.13              | 13.33        | 0.3168                           |
| 14    | 1633      | 6.98                 | 50.13              | 11.45        | 0.4007                           |
| 15    | 1603      | 7.2                  | 52.31              | 16.02        | 0.6034                           |
| 16    | 1607      | 4.67                 | 69.12              | 11.88        | 0.3834                           |
| 17    | 1630      | 7.34                 | 48.23              | 14.29        | 0.5057                           |
| 18    | 1608      | 4.35                 | 61.96              | 12.96        | 0.3493                           |
| 19    | 1645      | 4.45                 | 57.95              | 11.89        | 0.3066                           |
| 20    | 1684      | 4.26                 | 53.38              | 14.48        | 0.3293                           |
| 21    | 1621      | 3.63                 | 63.72              | 14.91        | 0.3449                           |
| 22    | 1632      | 7.32                 | 53.20              | 14.57        | 0.5673                           |
| 23    | 1665      | 4.22                 | 64.67              | 13.14        | 0.3587                           |
| 24    | 1697      | 7.04                 | 55.22              | 11.99        | 0.4660                           |
| 25    | 1616      | 4.21                 | 63.16              | 11.86        | 0.3153                           |
| 26    | 1691      | 7.24                 | 56.77              | 14.83        | 0.6096                           |
| 27    | 1687      | 6.92                 | 54.63              | 13.97        | 0.5280                           |
| 28    | 1652      | 6.98                 | 65.68              | 14.31        | 0.6561                           |
| 29    | 1601      | 7.67                 | 66.45              | 12.84        | 0.6543                           |
| 30    | 1612      | 7.29                 | 54.69              | 14.90        | 0.5941                           |
| 31    | 1660      | 9.05                 | 58.38              | 13.46        | 0.7113                           |
| 32    | 1641      | 7.39                 | 63.25              | 13.17        | 0.6156                           |
| 33    | 1657      | 8.6                  | 58.04              | 12.25        | 0.6115                           |
| 34    | 1661      | 7.53                 | 62.84              | 12.95        | 0.6129                           |
| 35    | 1675      | 7.38                 | 54.14              | 13.65        | 0.5454                           |
| 36    | 1667      | 7.55                 | 57.03              | 13.45        | 0.5791                           |



|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 37 | 1620 | 7.48 | 63.48 | 13.64 | 0.6478 |
| 38 | 1628 | 7.56 | 49.05 | 14.45 | 0.5360 |
| 39 | 1688 | 8.14 | 63.33 | 14.16 | 0.7302 |
| 40 | 1642 | 8.79 | 60.27 | 13.36 | 0.7076 |
| 41 | 1658 | 4.36 | 62.22 | 12.50 | 0.3392 |
| 42 | 1682 | 4.29 | 56.93 | 14.46 | 0.3531 |
| 43 | 1618 | 9.06 | 61.77 | 13.34 | 0.7465 |
| 44 | 1663 | 9.07 | 54.12 | 14.21 | 0.6975 |
| 45 | 1611 | 8.56 | 65.52 | 14.65 | 0.8218 |
| 46 | 1692 | 4.36 | 59.63 | 11.94 | 0.3104 |
| 47 | 1666 | 4.2  | 62.12 | 14.04 | 0.3662 |
| 48 | 1644 | 7.54 | 62.28 | 14.88 | 0.6990 |
| 49 | 1669 | 8.05 | 45.74 | 15.09 | 0.5555 |
| 50 | 1700 | 8.06 | 58.70 | 14.92 | 0.7061 |
| 51 | 1602 | 6.98 | 47.64 | 13.83 | 0.4600 |
| 52 | 1605 | 4.19 | 62.82 | 13.72 | 0.3612 |
| 53 | 1668 | 7.17 | 53.93 | 14.30 | 0.5528 |
| 54 | 1685 | 7.19 | 57.50 | 14.68 | 0.6068 |
| 55 | 1640 | 9.07 | 68.71 | 13.05 | 0.8136 |
| 56 | 1622 | 3.82 | 69.63 | 14.84 | 0.3946 |
| 57 | 1631 | 4.35 | 56.27 | 13.22 | 0.3236 |
| 58 | 1613 | 5.98 | 58.22 | 13.38 | 0.4658 |
| 59 | 1676 | 4.55 | 45.39 | 14.92 | 0.3080 |
| 60 | 1670 | 3.91 | 45.49 | 14.38 | 0.2557 |
| 61 | 1689 | 7.66 | 57.14 | 13.00 | 0.5691 |
| 62 | 1635 | 7.06 | 62.30 | 11.96 | 0.5260 |
| 63 | 1690 | 4.23 | 58.61 | 14.31 | 0.3549 |
| 64 | 1695 | 7.01 | 57.19 | 14.48 | 0.5804 |
| 65 | 1619 | 4.84 | 61.03 | 13.03 | 0.3848 |
| 66 | 1614 | 7.56 | 66.00 | 12.92 | 0.6449 |
| 67 | 1634 | 7.02 | 58.33 | 11.98 | 0.4907 |
| 68 | 1636 | 4.25 | 61.74 | 13.18 | 0.3460 |
| 69 | 1674 | 7.8  | 56.43 | 13.93 | 0.6131 |
| 70 | 1694 | 4.21 | 57.26 | 12.00 | 0.2892 |
| 71 | 1615 | 7.59 | 60.59 | 12.21 | 0.5617 |
| 72 | 1637 | 4.34 | 56.79 | 13.10 | 0.3229 |
| 73 | 1609 | 4.27 | 62.28 | 12.44 | 0.3309 |
| 74 | 1698 | 7.28 | 72.14 | 12.41 | 0.6516 |
| 75 | 1647 | 7.24 | 59.31 | 13.37 | 0.5741 |
| 76 | 1677 | 9.16 | 65.37 | 13.89 | 0.8317 |
| 77 | 1610 | 4.38 | 62.71 | 12.45 | 0.3421 |
| 78 | 1654 | 7.19 | 72.55 | 13.74 | 0.7168 |
| 79 | 1648 | 7.37 | 65.49 | 12.66 | 0.6110 |
| 80 | 1624 | 4.32 | 70.76 | 13.54 | 0.4139 |
| 81 | 1696 | 8.59 | 73.32 | 12.51 | 0.7877 |
| 82 | 1672 | 8.66 | 55.58 | 11.84 | 0.5698 |
| 83 | 1678 | 8.71 | 64.46 | 13.28 | 0.7456 |
| 84 | 1671 | 8.47 | 55.15 | 13.47 | 0.6293 |
| 85 | 1681 | 8.15 | 57.55 | 12.81 | 0.6007 |
| 86 | 1638 | 7.41 | 50.18 | 13.61 | 0.5061 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 87  | 1643 | 7.3  | 55.55 | 13.34 | 0.5409 |
| 88  | 1664 | 7.2  | 62.78 | 13.56 | 0.6127 |
| 89  | 1646 | 4.32 | 49.63 | 14.61 | 0.3132 |
| 90  | 1659 | 7.54 | 53.63 | 13.56 | 0.5482 |
| 91  | 1617 | 7.21 | 53.80 | 15.50 | 0.6013 |
| 92  | 1662 | 8.29 | 44.07 | 14.41 | 0.5264 |
| 93  | 1656 | 9.29 | 54.32 | 13.49 | 0.6810 |
| 94  | 1673 | 7.21 | 47.49 | 16.97 | 0.5811 |
| 95  | 1686 | 8.83 | 61.60 | 14.35 | 0.7806 |
| 96  | 1683 | 8.28 | 58.81 | 13.93 | 0.6781 |
| 97  | 1693 | 8.29 | 55.29 | 14.60 | 0.6690 |
| 98  | 1679 | 8.17 | 60.32 | 15.15 | 0.7467 |
| 99  | 1653 | 8.99 | 54.92 | 12.98 | 0.6410 |
| 100 | 1649 | 8.16 | 69.00 | 13.45 | 0.7572 |

**Name of Division : Pratapgarh-II**

**Challan No. : 18/309**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 1776      | 7.62                 | 65.28              | 12.30        | 0.6119                           |
| 2     | 1767      | 4.75                 | 59.42              | 13.83        | 0.3904                           |
| 3     | 1768      | 4.63                 | 61.20              | 12.88        | 0.3648                           |
| 4     | 1722      | 4.21                 | 57.92              | 12.88        | 0.3141                           |
| 5     | 1731      | 4.5                  | 66.25              | 13.65        | 0.4068                           |
| 6     | 1782      | 6.88                 | 54.75              | 14.37        | 0.5415                           |
| 7     | 1719      | 4.31                 | 59.76              | 13.94        | 0.3590                           |
| 8     | 1734      | 4.08                 | 59.50              | 13.38        | 0.3248                           |
| 9     | 1795      | 7.39                 | 62.13              | 13.10        | 0.6015                           |
| 10    | 1797      | 7.61                 | 60.80              | 12.73        | 0.5890                           |
| 11    | 1750      | 4.43                 | 62.07              | 13.58        | 0.3734                           |
| 12    | 1713      | 7.36                 | 52.30              | 11.19        | 0.4306                           |
| 13    | 1749      | 4.65                 | 64.67              | 13.59        | 0.4087                           |
| 14    | 1709      | 7.05                 | 36.35              | 15.02        | 0.3849                           |
| 15    | 1721      | 3.49                 | 52.60              | 13.92        | 0.2555                           |
| 16    | 1720      | 4.42                 | 55.82              | 13.97        | 0.3448                           |
| 17    | 1798      | 4.68                 | 62.00              | 12.24        | 0.3552                           |
| 18    | 1724      | 4.24                 | 64.10              | 13.24        | 0.3600                           |
| 19    | 1736      | 4.29                 | 64.57              | 11.94        | 0.3308                           |
| 20    | 1741      | 7.43                 | 58.91              | 15.11        | 0.6613                           |
| 21    | 1714      | 4.16                 | 57.73              | 12.89        | 0.3095                           |
| 22    | 1718      | 6.72                 | 57.05              | 12.76        | 0.4892                           |
| 23    | 1758      | 4.55                 | 64.71              | 11.76        | 0.3463                           |
| 24    | 1760      | 4                    | 66.16              | 10.88        | 0.2880                           |
| 25    | 1746      | 4.31                 | 58.70              | 11.84        | 0.2995                           |
| 26    | 1723      | 7.6                  | 61.67              | 11.77        | 0.5518                           |
| 27    | 1704      | 7.32                 | 56.68              | 14.61        | 0.6061                           |
| 28    | 1764      | 7.28                 | 65.91              | 12.38        | 0.5940                           |
| 29    | 1715      | 3.76                 | 56.60              | 12.69        | 0.2700                           |
| 30    | 1732      | 7.22                 | 65.03              | 12.69        | 0.5956                           |
| 31    | 1702      | 8.78                 | 64.48              | 13.42        | 0.7595                           |
| 32    | 1729      | 8.58                 | 60.22              | 13.25        | 0.6847                           |
| 33    | 1772      | 9.06                 | 62.49              | 12.47        | 0.7058                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 34 | 1761 | 7.66 | 65.42 | 11.77 | 0.5898 |
| 35 | 1796 | 4.79 | 59.58 | 13.19 | 0.3765 |
| 36 | 1766 | 9.22 | 64.37 | 12.07 | 0.7164 |
| 37 | 1706 | 6.73 | 53.18 | 14.70 | 0.5263 |
| 38 | 1794 | 4.64 | 62.59 | 12.35 | 0.3587 |
| 39 | 1791 | 8.97 | 55.62 | 15.75 | 0.7858 |
| 40 | 1789 | 8.84 | 60.41 | 13.51 | 0.7213 |
| 41 | 1726 | 4.11 | 59.96 | 13.76 | 0.3391 |
| 42 | 1790 | 4.15 | 61.44 | 12.97 | 0.3308 |
| 43 | 1763 | 4.5  | 64.43 | 14.17 | 0.4109 |
| 44 | 1765 | 7.6  | 67.46 | 13.73 | 0.7038 |
| 45 | 1787 | 7.52 | 56.61 | 13.73 | 0.5843 |
| 46 | 1784 | 4.63 | 60.57 | 14.51 | 0.4070 |
| 47 | 1748 | 4.72 | 56.62 | 14.16 | 0.3785 |
| 48 | 1800 | 7.52 | 58.30 | 13.55 | 0.5941 |
| 49 | 1780 | 7.13 | 58.58 | 14.31 | 0.5975 |
| 50 | 1792 | 4.54 | 58.92 | 14.07 | 0.3764 |
| 51 | 1753 | 4.43 | 62.05 | 14.54 | 0.3996 |
| 52 | 1774 | 4.27 | 69.57 | 12.56 | 0.3732 |
| 53 | 1725 | 4.14 | 55.60 | 13.35 | 0.3072 |
| 54 | 1786 | 6.72 | 56.25 | 14.04 | 0.5309 |
| 55 | 1771 | 7.58 | 60.05 | 13.57 | 0.6178 |
| 56 | 1762 | 4.63 | 59.76 | 14.21 | 0.3931 |
| 57 | 1742 | 7.6  | 56.82 | 14.63 | 0.6316 |
| 58 | 1735 | 7.26 | 64.74 | 13.81 | 0.6490 |
| 59 | 1775 | 4.56 | 68.95 | 13.62 | 0.4282 |
| 60 | 1759 | 4.41 | 66.34 | 13.48 | 0.3943 |
| 61 | 1783 | 7.03 | 60.87 | 14.93 | 0.6390 |
| 62 | 1756 | 4.65 | 58.23 | 12.04 | 0.3260 |
| 63 | 1779 | 4.5  | 57.57 | 15.27 | 0.3955 |
| 64 | 1703 | 7.09 | 61.39 | 14.03 | 0.6104 |
| 65 | 1711 | 3.6  | 57.98 | 13.49 | 0.2815 |
| 66 | 1781 | 3.51 | 48.95 | 11.42 | 0.1962 |
| 67 | 1788 | 4.79 | 61.10 | 12.39 | 0.3626 |
| 68 | 1737 | 7.5  | 58.25 | 12.98 | 0.5670 |
| 69 | 1727 | 3.79 | 65.06 | 12.53 | 0.3089 |
| 70 | 1738 | 4.58 | 63.72 | 10.19 | 0.2972 |
| 71 | 1793 | 7.28 | 64.27 | 12.63 | 0.5911 |
| 72 | 1777 | 7.49 | 62.15 | 13.21 | 0.6149 |
| 73 | 1740 | 7.57 | 60.78 | 13.75 | 0.6329 |
| 74 | 1778 | 4.92 | 61.28 | 11.05 | 0.3331 |
| 75 | 1747 | 4.46 | 68.55 | 11.23 | 0.3434 |
| 76 | 1769 | 7.13 | 59.16 | 12.12 | 0.5112 |
| 77 | 1785 | 4.17 | 62.03 | 13.17 | 0.3407 |
| 78 | 1701 | 8.89 | 68.57 | 12.95 | 0.7894 |
| 79 | 1712 | 7.93 | 56.18 | 12.39 | 0.5519 |
| 80 | 1710 | 8.3  | 60.07 | 10.57 | 0.5270 |
| 81 | 1744 | 9.17 | 64.46 | 12.78 | 0.7556 |
| 82 | 1799 | 4.51 | 65.09 | 12.81 | 0.3761 |
| 83 | 1705 | 8.18 | 61.50 | 12.47 | 0.6274 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 84  | 1716 | 6.95 | 61.02 | 12.36 | 0.5240 |
| 85  | 1707 | 8.85 | 70.41 | 12.63 | 0.7868 |
| 86  | 1717 | 4.35 | 50.30 | 13.52 | 0.2958 |
| 87  | 1728 | 6.84 | 55.58 | 13.30 | 0.5055 |
| 88  | 1743 | 4.49 | 50.89 | 12.24 | 0.2797 |
| 89  | 1754 | 8.93 | 53.62 | 15.29 | 0.7323 |
| 90  | 1733 | 8.36 | 54.07 | 13.54 | 0.6120 |
| 91  | 1739 | 2.34 | 56.62 | 14.45 | 0.1914 |
| 92  | 1770 | 8.85 | 57.47 | 14.34 | 0.7292 |
| 93  | 1757 | 4.87 | 63.48 | 14.07 | 0.4349 |
| 94  | 1755 | 9.98 | 57.49 | 14.09 | 0.8084 |
| 95  | 1751 | 8.54 | 70.28 | 13.76 | 0.8258 |
| 96  | 1752 | 7.73 | 59.38 | 12.13 | 0.5566 |
| 97  | 1730 | 3.73 | 65.67 | 12.35 | 0.3025 |
| 98  | 1773 | 8.89 | 66.54 | 15.21 | 0.8997 |
| 99  | 1745 | 8.48 | 57.24 | 15.16 | 0.7361 |
| 100 | 1708 | 8.95 | 58.77 | 12.81 | 0.6739 |

**Name of Division : Pratapgarh-II**

**Challan No. : 05/135**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 489       | 7.65                 | 63.62              | 14.38        | 0.7000                           |
| 2     | 422       | 8.56                 | 60.32              | 13.76        | 0.7105                           |
| 3     | 432       | 8.37                 | 42.62              | 15.42        | 0.5499                           |
| 4     | 428       | 4.38                 | 65.54              | 12.85        | 0.3688                           |
| 5     | 497       | 8.79                 | 62.84              | 13.11        | 0.7243                           |
| 6     | 472       | 7.09                 | 61.21              | 14.25        | 0.6182                           |
| 7     | 421       | 7.24                 | 60.45              | 12.67        | 0.5546                           |
| 8     | 484       | 7.2                  | 52.94              | 12.69        | 0.4838                           |
| 9     | 437       | 7.08                 | 53.39              | 14.16        | 0.5352                           |
| 10    | 473       | 8.61                 | 62.05              | 12.89        | 0.6888                           |
| 11    | 495       | 8.81                 | 61.60              | 13.41        | 0.7277                           |
| 12    | 405       | 4.65                 | 53.81              | 14.03        | 0.3511                           |
| 13    | 420       | 4.34                 | 60.63              | 13.00        | 0.3420                           |
| 14    | 445       | 7.23                 | 59.91              | 15.02        | 0.6507                           |
| 15    | 451       | 8.63                 | 59.51              | 14.59        | 0.7491                           |
| 16    | 450       | 6.95                 | 61.36              | 12.71        | 0.5421                           |
| 17    | 406       | 8.82                 | 62.77              | 13.10        | 0.7250                           |
| 18    | 410       | 7.67                 | 54.52              | 14.86        | 0.6213                           |
| 19    | 402       | 7.61                 | 58.58              | 14.02        | 0.6248                           |
| 20    | 427       | 7.48                 | 63.20              | 11.52        | 0.5445                           |
| 21    | 470       | 8.97                 | 65.97              | 13.05        | 0.7723                           |
| 22    | 413       | 8.66                 | 63.22              | 13.45        | 0.7361                           |
| 23    | 415       | 4.28                 | 67.65              | 12.06        | 0.3492                           |
| 24    | 440       | 7.08                 | 56.92              | 14.67        | 0.5912                           |
| 25    | 407       | 8.61                 | 60.31              | 13.75        | 0.7138                           |
| 26    | 452       | 8.64                 | 65.88              | 13.90        | 0.7914                           |
| 27    | 418       | 8.66                 | 67.38              | 12.96        | 0.7560                           |
| 28    | 423       | 8.83                 | 63.45              | 12.69        | 0.7108                           |
| 29    | 441       | 7.28                 | 62.02              | 13.95        | 0.6297                           |
| 30    | 463       | 7.11                 | 48.63              | 14.11        | 0.4877                           |

|    |     |      |       |       |        |
|----|-----|------|-------|-------|--------|
| 31 | 474 | 9.22 | 62.67 | 14.47 | 0.8363 |
| 32 | 466 | 8.2  | 50.86 | 15.40 | 0.6421 |
| 33 | 500 | 7.43 | 67.03 | 12.98 | 0.6464 |
| 34 | 456 | 6.8  | 64.31 | 15.18 | 0.6637 |
| 35 | 467 | 7.61 | 51.02 | 15.52 | 0.6027 |
| 36 | 412 | 4.47 | 53.44 | 13.59 | 0.3245 |
| 37 | 430 | 8.95 | 60.40 | 13.33 | 0.7205 |
| 38 | 429 | 7.3  | 58.24 | 11.90 | 0.5059 |
| 39 | 426 | 4.35 | 63.90 | 13.00 | 0.3615 |
| 40 | 401 | 8.72 | 56.23 | 14.74 | 0.7229 |
| 41 | 425 | 8.68 | 62.24 | 12.74 | 0.6883 |
| 42 | 443 | 7.25 | 50.41 | 15.16 | 0.5539 |
| 43 | 419 | 8.87 | 63.12 | 13.59 | 0.7610 |
| 44 | 449 | 6.68 | 56.58 | 14.51 | 0.5484 |
| 45 | 475 | 8.47 | 63.79 | 13.22 | 0.7140 |
| 46 | 468 | 7.38 | 51.60 | 14.03 | 0.5343 |
| 47 | 457 | 8.6  | 58.57 | 13.68 | 0.6889 |
| 48 | 416 | 4.52 | 60.00 | 12.92 | 0.3503 |
| 49 | 486 | 7.72 | 58.12 | 12.37 | 0.5551 |
| 50 | 488 | 8.68 | 67.67 | 13.21 | 0.7760 |
| 51 | 409 | 8.69 | 58.55 | 14.72 | 0.7491 |
| 52 | 453 | 7.22 | 62.96 | 13.33 | 0.6058 |
| 53 | 447 | 7.38 | 62.50 | 13.42 | 0.6192 |
| 54 | 487 | 8.63 | 62.47 | 12.82 | 0.6913 |
| 55 | 492 | 8.87 | 71.22 | 13.69 | 0.8648 |
| 56 | 444 | 8.3  | 55.41 | 13.45 | 0.6184 |
| 57 | 459 | 7.3  | 65.57 | 14.09 | 0.6745 |
| 58 | 404 | 8.88 | 55.60 | 12.59 | 0.6216 |
| 59 | 482 | 7.28 | 53.36 | 13.47 | 0.5234 |
| 60 | 460 | 4.34 | 64.32 | 12.61 | 0.3520 |
| 61 | 498 | 7.49 | 61.77 | 14.12 | 0.6531 |
| 62 | 434 | 7.16 | 64.48 | 12.64 | 0.5835 |
| 63 | 490 | 8.76 | 65.99 | 14.26 | 0.8243 |
| 64 | 442 | 4.37 | 62.95 | 12.77 | 0.3513 |
| 65 | 483 | 7.31 | 53.25 | 14.97 | 0.5826 |
| 66 | 439 | 7.34 | 64.09 | 13.00 | 0.6114 |
| 67 | 479 | 9.13 | 64.15 | 13.27 | 0.7770 |
| 68 | 471 | 7.31 | 56.02 | 13.35 | 0.5468 |
| 69 | 436 | 7.61 | 59.59 | 12.85 | 0.5829 |
| 70 | 481 | 8.54 | 57.16 | 13.91 | 0.6789 |
| 71 | 469 | 8.6  | 61.65 | 11.76 | 0.6235 |
| 72 | 464 | 8.53 | 60.00 | 13.92 | 0.7123 |
| 73 | 424 | 8.81 | 66.52 | 12.36 | 0.7242 |
| 74 | 476 | 4.52 | 57.98 | 13.25 | 0.3471 |
| 75 | 403 | 4.6  | 57.81 | 12.61 | 0.3353 |
| 76 | 414 | 7.79 | 71.83 | 11.72 | 0.6559 |
| 77 | 494 | 7.6  | 69.69 | 12.63 | 0.6688 |
| 78 | 478 | 4.38 | 60.48 | 13.67 | 0.3622 |
| 79 | 438 | 8.59 | 68.33 | 12.57 | 0.7379 |
| 80 | 477 | 7.8  | 61.48 | 13.08 | 0.6271 |

|     |     |      |       |       |        |
|-----|-----|------|-------|-------|--------|
| 81  | 417 | 9.09 | 63.48 | 13.14 | 0.7581 |
| 82  | 493 | 9.05 | 73.08 | 11.82 | 0.7819 |
| 83  | 446 | 7.56 | 68.55 | 14.46 | 0.7492 |
| 84  | 462 | 7.11 | 68.91 | 13.37 | 0.6548 |
| 85  | 461 | 8.37 | 75.50 | 12.30 | 0.7776 |
| 86  | 435 | 7.29 | 47.59 | 15.00 | 0.5205 |
| 87  | 454 | 7.55 | 61.25 | 15.59 | 0.7210 |
| 88  | 480 | 8.7  | 58.03 | 13.99 | 0.7064 |
| 89  | 408 | 7.4  | 54.11 | 14.90 | 0.5964 |
| 90  | 496 | 4.58 | 60.90 | 12.56 | 0.3504 |
| 91  | 448 | 7.32 | 60.23 | 13.66 | 0.6024 |
| 92  | 411 | 8.63 | 64.49 | 13.88 | 0.7724 |
| 93  | 433 | 7.19 | 60.63 | 14.23 | 0.6205 |
| 94  | 455 | 6.9  | 61.23 | 14.08 | 0.5948 |
| 95  | 491 | 7.52 | 64.83 | 13.57 | 0.6618 |
| 96  | 499 | 9    | 58.49 | 13.85 | 0.7290 |
| 97  | 458 | 8.7  | 61.57 | 14.76 | 0.7908 |
| 98  | 485 | 4.62 | 53.55 | 12.72 | 0.3146 |
| 99  | 465 | 7.53 | 57.82 | 13.04 | 0.5678 |
| 100 | 431 | 8.77 | 65.12 | 12.64 | 0.7218 |

Date: 16.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 27/418**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 2651      | 7.95                 | 55.67              | 14.28        | 0.6320                           |
| 2     | 2621      | 4.43                 | 52.72              | 13.54        | 0.3163                           |
| 3     | 2700      | 4.5                  | 52.84              | 12.87        | 0.3060                           |
| 4     | 2603      | 7.09                 | 63.45              | 13.66        | 0.6147                           |
| 5     | 2614      | 7.78                 | 43.07              | 15.46        | 0.5181                           |
| 6     | 2694      | 7.68                 | 56.96              | 13.54        | 0.5921                           |
| 7     | 2698      | 5.01                 | 49.31              | 15.13        | 0.3737                           |
| 8     | 2613      | 4.49                 | 57.97              | 13.61        | 0.3543                           |
| 9     | 2678      | 8                    | 51.59              | 14.46        | 0.5968                           |
| 10    | 2646      | 3.64                 | 57.89              | 8.57         | 0.1805                           |
| 11    | 2663      | 8.13                 | 45.53              | 12.56        | 0.4650                           |
| 12    | 2642      | 4.32                 | 52.73              | 14.36        | 0.3270                           |
| 13    | 2634      | 4.59                 | 58.83              | 13.75        | 0.3713                           |
| 14    | 2612      | 7.56                 | 58.99              | 13.05        | 0.5821                           |
| 15    | 2637      | 4.56                 | 50.41              | 14.60        | 0.3356                           |
| 16    | 2649      | 4.77                 | 55.36              | 13.82        | 0.3649                           |
| 17    | 2622      | 4.68                 | 54.14              | 12.67        | 0.3210                           |
| 18    | 2686      | 4.34                 | 54.51              | 14.11        | 0.3337                           |
| 19    | 2625      | 4.08                 | 56.63              | 13.83        | 0.3195                           |
| 20    | 2692      | 5.04                 | 52.08              | 13.21        | 0.3468                           |
| 21    | 2672      | 7.48                 | 55.79              | 13.26        | 0.5535                           |
| 22    | 2605      | 4.35                 | 63.37              | 13.21        | 0.3641                           |
| 23    | 2602      | 4.47                 | 53.23              | 15.07        | 0.3585                           |
| 24    | 2606      | 4.46                 | 55.18              | 11.91        | 0.2930                           |
| 25    | 2627      | 7.29                 | 55.43              | 14.90        | 0.6022                           |
| 26    | 2673      | 4.71                 | 61.01              | 12.80        | 0.3679                           |
| 27    | 2618      | 8                    | 65.08              | 12.23        | 0.6368                           |
| 28    | 2650      | 8.1                  | 60.50              | 12.96        | 0.6350                           |
| 29    | 2641      | 4.3                  | 57.42              | 13.32        | 0.3289                           |
| 30    | 2656      | 4.55                 | 57.32              | 12.63        | 0.3294                           |
| 31    | 2611      | 4.42                 | 57.84              | 13.54        | 0.3461                           |
| 32    | 2639      | 8.24                 | 54.38              | 12.14        | 0.5438                           |
| 33    | 2609      | 4.7                  | 67.90              | 14.59        | 0.4658                           |
| 34    | 2659      | 4.78                 | 59.57              | 13.80        | 0.3929                           |
| 35    | 2635      | 4.2                  | 58.06              | 13.80        | 0.3364                           |
| 36    | 2640      | 7.48                 | 55.48              | 15.14        | 0.6283                           |
| 37    | 2683      | 4.07                 | 56.23              | 12.70        | 0.2906                           |
| 38    | 2630      | 4.29                 | 46.80              | 15.15        | 0.3042                           |
| 39    | 2620      | 7.46                 | 52.02              | 12.53        | 0.4864                           |
| 40    | 2676      | 3.97                 | 70.48              | 12.53        | 0.3506                           |
| 41    | 2666      | 4.55                 | 54.13              | 13.80        | 0.3399                           |
| 42    | 2680      | 7.91                 | 53.86              | 13.20        | 0.5624                           |

|    |      |       |       |       |        |
|----|------|-------|-------|-------|--------|
| 43 | 2608 | 4.32  | 63.69 | 13.75 | 0.3784 |
| 44 | 2664 | 7.95  | 59.28 | 12.31 | 0.5803 |
| 45 | 2631 | 7.99  | 56.47 | 14.24 | 0.6424 |
| 46 | 2693 | 4.54  | 56.70 | 12.29 | 0.3164 |
| 47 | 2661 | 7.95  | 45.79 | 14.46 | 0.5263 |
| 48 | 2668 | 4.65  | 54.96 | 12.74 | 0.3255 |
| 49 | 2671 | 7.63  | 64.30 | 12.18 | 0.5974 |
| 50 | 2657 | 4.82  | 56.59 | 11.65 | 0.3176 |
| 51 | 2636 | 4.99  | 57.33 | 13.48 | 0.3857 |
| 52 | 2628 | 4.6   | 52.05 | 13.72 | 0.3284 |
| 53 | 2617 | 7.55  | 53.25 | 15.14 | 0.6085 |
| 54 | 2681 | 7.53  | 53.29 | 12.57 | 0.5045 |
| 55 | 2626 | 7.44  | 49.51 | 14.32 | 0.5275 |
| 56 | 2652 | 7.65  | 55.54 | 12.64 | 0.5370 |
| 57 | 2655 | 7.57  | 54.37 | 13.33 | 0.5488 |
| 58 | 2610 | 7.2   | 70.28 | 13.23 | 0.6696 |
| 59 | 2619 | 4.66  | 56.18 | 13.37 | 0.3500 |
| 60 | 2624 | 7.21  | 61.30 | 13.69 | 0.6049 |
| 61 | 2662 | 7.8   | 48.59 | 14.16 | 0.5366 |
| 62 | 2647 | 4.38  | 61.39 | 13.08 | 0.3517 |
| 63 | 2696 | 7.69  | 58.54 | 12.20 | 0.5491 |
| 64 | 2667 | 4.91  | 59.43 | 12.99 | 0.3791 |
| 65 | 2665 | 4.68  | 57.22 | 12.39 | 0.3318 |
| 66 | 2616 | 4.51  | 52.97 | 13.46 | 0.3216 |
| 67 | 2689 | 4.47  | 50.79 | 13.94 | 0.3165 |
| 68 | 2615 | 9.43  | 50.82 | 13.28 | 0.6365 |
| 69 | 2633 | 10.16 | 64.96 | 13.96 | 0.9215 |
| 70 | 2654 | 8.95  | 48.47 | 13.64 | 0.5916 |
| 71 | 2658 | 8.02  | 49.02 | 13.71 | 0.5389 |
| 72 | 2674 | 9.23  | 48.04 | 14.01 | 0.6212 |
| 73 | 2644 | 8.78  | 54.00 | 12.28 | 0.5821 |
| 74 | 2699 | 9.2   | 52.65 | 14.78 | 0.7158 |
| 75 | 2660 | 8.96  | 51.37 | 12.38 | 0.5699 |
| 76 | 2648 | 4.7   | 56.31 | 12.93 | 0.3422 |
| 77 | 2607 | 4.72  | 60.78 | 14.13 | 0.4054 |
| 78 | 2687 | 4.62  | 57.91 | 13.00 | 0.3479 |
| 79 | 2691 | 4.36  | 60.33 | 13.08 | 0.3440 |
| 80 | 2645 | 6.53  | 51.14 | 15.10 | 0.5041 |
| 81 | 2632 | 7.72  | 49.18 | 16.59 | 0.6300 |
| 82 | 2670 | 4.79  | 55.33 | 15.27 | 0.4048 |
| 83 | 2690 | 4.93  | 52.94 | 13.03 | 0.3402 |
| 84 | 2682 | 7.63  | 54.50 | 12.90 | 0.5364 |
| 85 | 2684 | 7.93  | 53.42 | 14.02 | 0.5940 |
| 86 | 2653 | 7.4   | 53.32 | 13.00 | 0.5128 |
| 87 | 2604 | 4.17  | 68.17 | 14.96 | 0.4253 |
| 88 | 2601 | 7.63  | 59.32 | 13.18 | 0.5967 |
| 89 | 2677 | 8.05  | 41.75 | 12.34 | 0.4146 |



|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 90  | 2629 | 4.82 | 61.09 | 14.40 | 0.4242 |
| 91  | 2675 | 4.9  | 58.02 | 12.39 | 0.3523 |
| 92  | 2623 | 4.57 | 62.58 | 12.54 | 0.3587 |
| 93  | 2638 | 4.38 | 56.72 | 12.71 | 0.3158 |
| 94  | 2679 | 7.94 | 51.13 | 11.56 | 0.4693 |
| 95  | 2643 | 7.64 | 48.87 | 12.24 | 0.4569 |
| 96  | 2669 | 4.38 | 55.34 | 13.50 | 0.3272 |
| 97  | 2688 | 7.91 | 49.16 | 15.03 | 0.5845 |
| 98  | 2685 | 7.45 | 54.23 | 13.70 | 0.5535 |
| 99  | 2697 | 4.6  | 57.23 | 13.12 | 0.3455 |
| 100 | 2695 | 4.6  | 59.56 | 12.76 | 0.3496 |

Date: 12.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 12/198**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 1125      | 8.71                 | 53.38              | 13.47        | 0.6262                           |
| 2     | 1189      | 9.21                 | 58.29              | 14.45        | 0.7755                           |
| 3     | 1119      | 9.62                 | 54.33              | 13.57        | 0.7090                           |
| 4     | 1181      | 7.56                 | 57.34              | 13.59        | 0.5889                           |
| 5     | 1111      | 8.7                  | 52.03              | 14.24        | 0.6447                           |
| 6     | 1185      | 4.1                  | 53.10              | 13.62        | 0.2964                           |
| 7     | 1107      | 8.78                 | 42.41              | 15.94        | 0.5935                           |
| 8     | 1117      | 8.76                 | 53.91              | 13.15        | 0.6211                           |
| 9     | 1134      | 9.26                 | 60.81              | 12.23        | 0.6889                           |
| 10    | 1180      | 7.33                 | 54.42              | 15.86        | 0.6326                           |
| 11    | 1160      | 4.22                 | 58.53              | 13.05        | 0.3224                           |
| 12    | 1114      | 7.85                 | 51.59              | 12.39        | 0.5016                           |
| 13    | 1135      | 6.81                 | 57.88              | 12.87        | 0.5073                           |
| 14    | 1102      | 4.52                 | 58.97              | 13.33        | 0.3553                           |
| 15    | 1168      | 6.67                 | 40.39              | 17.95        | 0.4836                           |
| 16    | 1179      | 7.01                 | 52.00              | 13.81        | 0.5033                           |
| 17    | 1118      | 7.27                 | 54.42              | 13.07        | 0.5169                           |
| 18    | 1122      | 4.53                 | 61.29              | 14.02        | 0.3891                           |
| 19    | 1115      | 4.25                 | 54.67              | 14.14        | 0.3285                           |
| 20    | 1159      | 4.36                 | 55.44              | 14.83        | 0.3584                           |
| 21    | 1190      | 4.52                 | 59.76              | 13.76        | 0.3715                           |
| 22    | 1182      | 7.36                 | 54.07              | 12.71        | 0.5056                           |
| 23    | 1143      | 7.79                 | 54.79              | 15.79        | 0.6738                           |
| 24    | 1103      | 4.67                 | 57.21              | 13.55        | 0.3619                           |
| 25    | 1116      | 7.51                 | 50.04              | 12.55        | 0.4716                           |
| 26    | 1194      | 7.07                 | 58.20              | 12.89        | 0.5303                           |
| 27    | 1170      | 9.17                 | 55.12              | 13.30        | 0.6722                           |
| 28    | 1171      | 4.62                 | 56.93              | 14.49        | 0.3811                           |
| 29    | 1187      | 4.36                 | 61.37              | 12.37        | 0.3309                           |
| 30    | 1193      | 8.43                 | 64.93              | 13.18        | 0.7216                           |
| 31    | 1157      | 7.49                 | 62.23              | 12.61        | 0.5880                           |
| 32    | 1138      | 4.33                 | 59.83              | 13.24        | 0.3429                           |
| 33    | 1110      | 7.24                 | 36.20              | 15.97        | 0.4185                           |
| 34    | 1148      | 4.29                 | 60.43              | 13.30        | 0.3449                           |
| 35    | 1132      | 8.76                 | 57.26              | 12.73        | 0.6386                           |
| 36    | 1151      | 4.57                 | 58.49              | 11.25        | 0.3007                           |
| 37    | 1112      | 3.56                 | 56.74              | 12.09        | 0.2442                           |
| 38    | 1192      | 4.31                 | 57.47              | 12.22        | 0.3026                           |
| 39    | 1200      | 7.61                 | 56.85              | 11.79        | 0.5099                           |
| 40    | 1165      | 7.28                 | 60.63              | 12.77        | 0.5635                           |
| 41    | 1152      | 4.49                 | 57.93              | 13.40        | 0.3484                           |
| 42    | 1198      | 6.91                 | 56.74              | 13.02        | 0.5106                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 43 | 1175 | 4.15 | 57.90 | 13.64 | 0.3279 |
| 44 | 1150 | 7.8  | 51.90 | 12.10 | 0.4898 |
| 45 | 1129 | 7.06 | 53.69 | 13.24 | 0.5020 |
| 46 | 1101 | 7.07 | 51.18 | 15.83 | 0.5727 |
| 47 | 1188 | 4.59 | 58.06 | 14.69 | 0.3915 |
| 48 | 1163 | 7.12 | 53.05 | 13.72 | 0.5183 |
| 49 | 1128 | 3.99 | 55.41 | 14.96 | 0.3308 |
| 50 | 1155 | 7.81 | 53.32 | 13.43 | 0.5592 |
| 51 | 1176 | 3.56 | 54.84 | 13.15 | 0.2567 |
| 52 | 1183 | 4.64 | 44.49 | 13.46 | 0.2779 |
| 53 | 1195 | 4.28 | 55.46 | 13.87 | 0.3291 |
| 54 | 1124 | 4.53 | 54.73 | 13.63 | 0.3379 |
| 55 | 1197 | 7.05 | 53.61 | 14.61 | 0.5520 |
| 56 | 1146 | 7.35 | 47.93 | 14.29 | 0.5035 |
| 57 | 1191 | 4.05 | 47.37 | 14.78 | 0.2835 |
| 58 | 1104 | 4.56 | 49.99 | 15.30 | 0.3488 |
| 59 | 1130 | 4.5  | 50.89 | 15.27 | 0.3496 |
| 60 | 1156 | 4.56 | 53.37 | 15.40 | 0.3748 |
| 61 | 1147 | 7.27 | 58.76 | 12.29 | 0.5249 |
| 62 | 1196 | 7.88 | 62.11 | 12.96 | 0.6343 |
| 63 | 1145 | 7.37 | 47.88 | 14.58 | 0.5144 |
| 64 | 1161 | 4.88 | 53.30 | 13.56 | 0.3528 |
| 65 | 1154 | 7.11 | 56.90 | 14.20 | 0.5745 |
| 66 | 1162 | 4.2  | 60.57 | 14.20 | 0.3612 |
| 67 | 1169 | 4.1  | 55.16 | 13.51 | 0.3054 |
| 68 | 1177 | 4.22 | 55.04 | 14.10 | 0.3275 |
| 69 | 1186 | 4.53 | 58.79 | 14.87 | 0.3959 |
| 70 | 1126 | 4.45 | 57.36 | 14.63 | 0.3734 |
| 71 | 1166 | 7.15 | 55.66 | 12.00 | 0.4776 |
| 72 | 1113 | 9.2  | 48.53 | 14.34 | 0.6403 |
| 73 | 1133 | 9.36 | 46.42 | 12.45 | 0.5410 |
| 74 | 1139 | 8.88 | 43.17 | 14.04 | 0.5381 |
| 75 | 1136 | 9.09 | 52.13 | 13.01 | 0.6163 |
| 76 | 1173 | 7.55 | 53.45 | 14.01 | 0.5655 |
| 77 | 1131 | 7.51 | 48.82 | 12.70 | 0.4656 |
| 78 | 1174 | 3.84 | 46.04 | 14.31 | 0.2531 |
| 79 | 1178 | 4.39 | 51.19 | 16.02 | 0.3600 |
| 80 | 1127 | 8.68 | 56.57 | 13.77 | 0.6762 |
| 81 | 1120 | 9.28 | 56.37 | 12.90 | 0.6747 |
| 82 | 1141 | 4.64 | 53.97 | 14.77 | 0.3698 |
| 83 | 1121 | 9.33 | 53.37 | 12.95 | 0.6447 |
| 84 | 1142 | 8.69 | 50.60 | 15.30 | 0.6726 |
| 85 | 1184 | 7.8  | 48.32 | 14.96 | 0.5639 |
| 86 | 1149 | 4.58 | 59.60 | 13.96 | 0.3811 |
| 87 | 1109 | 7.71 | 66.62 | 13.70 | 0.7039 |
| 88 | 1158 | 8.62 | 56.46 | 14.06 | 0.6844 |
| 89 | 1140 | 4.07 | 50.26 | 15.72 | 0.3215 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 90  | 1164 | 7.44 | 65.06 | 13.13 | 0.6354 |
| 91  | 1144 | 7.83 | 52.55 | 12.94 | 0.5324 |
| 92  | 1137 | 4.32 | 54.52 | 14.27 | 0.3361 |
| 93  | 1123 | 9.25 | 55.59 | 14.37 | 0.7391 |
| 94  | 1172 | 8.5  | 60.20 | 15.13 | 0.7744 |
| 95  | 1167 | 8.66 | 47.24 | 13.31 | 0.5447 |
| 96  | 1153 | 8.49 | 57.05 | 12.55 | 0.6079 |
| 97  | 1105 | 4.47 | 66.74 | 12.86 | 0.3835 |
| 98  | 1199 | 3.31 | 52.89 | 14.27 | 0.2499 |
| 99  | 1106 | 4.49 | 63.07 | 12.89 | 0.3650 |
| 100 | 1108 | 4.44 | 56.18 | 12.55 | 0.3130 |

Date: 10.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 33/456**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 3215      | 5.21                 | 64.19              | 14.30        | 0.4783                           |
| 2     | 3205      | 3.78                 | 57.59              | 15.68        | 0.3413                           |
| 3     | 3212      | 4.67                 | 59.26              | 14.85        | 0.4110                           |
| 4     | 3204      | 4.81                 | 57.57              | 14.28        | 0.3954                           |
| 5     | 3211      | 4.83                 | 63.00              | 13.56        | 0.4125                           |
| 6     | 3214      | 7.95                 | 55.87              | 13.39        | 0.5947                           |
| 7     | 3206      | 5.12                 | 54.95              | 15.34        | 0.4316                           |
| 8     | 3201      | 4.9                  | 55.37              | 16.43        | 0.4459                           |
| 9     | 3221      | 4.82                 | 61.60              | 14.24        | 0.4227                           |
| 10    | 3213      | 4.86                 | 60.98              | 14.45        | 0.4282                           |
| 11    | 3219      | 9.63                 | 61.06              | 13.31        | 0.7829                           |
| 12    | 3202      | 7.75                 | 51.15              | 13.96        | 0.5534                           |
| 13    | 3222      | 8                    | 58.72              | 15.36        | 0.7216                           |
| 14    | 3216      | 9.46                 | 63.82              | 13.93        | 0.8410                           |
| 15    | 3223      | 9.54                 | 61.61              | 14.40        | 0.8462                           |
| 16    | 3217      | 4.75                 | 56.67              | 15.85        | 0.4265                           |
| 17    | 3220      | 9.45                 | 62.96              | 15.10        | 0.8987                           |
| 18    | 3208      | 4.82                 | 56.53              | 15.04        | 0.4097                           |
| 19    | 3218      | 4.73                 | 61.76              | 13.73        | 0.4011                           |
| 20    | 3210      | 4.86                 | 64.54              | 13.70        | 0.4296                           |
| 21    | 3203      | 7.82                 | 57.18              | 15.15        | 0.6772                           |
| 22    | 3209      | 7.83                 | 61.06              | 13.38        | 0.6397                           |
| 23    | 3207      | 9.75                 | 58.33              | 13.51        | 0.7683                           |

Date: 06.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 25/393**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 2401      | 7.29                 | 57.12              | 14.08        | 0.5861                           |
| 2     | 2402      | 8.26                 | 59.5               | 13.78        | 0.6773                           |
| 3     | 2403      | 3.96                 | 51.3               | 14.8         | 0.3006                           |
| 4     | 2404      | 6.95                 | 48.79              | 13.18        | 0.4469                           |
| 5     | 2405      | 4.63                 | 59.66              | 14.9         | 0.4116                           |
| 6     | 2406      | 6.82                 | 51.17              | 12.33        | 0.4303                           |
| 7     | 2407      | 6.84                 | 66.19              | 13.82        | 0.6259                           |
| 8     | 2408      | 7.28                 | 55.81              | 13.35        | 0.5424                           |
| 9     | 2409      | 3.82                 | 51.59              | 13.88        | 0.2735                           |
| 10    | 2410      | 7.76                 | 59.9               | 12.97        | 0.603                            |
| 11    | 2411      | 4.49                 | 49.24              | 14.91        | 0.3296                           |
| 12    | 2412      | 5.07                 | 47.51              | 12.42        | 0.2991                           |
| 13    | 2413      | 8.29                 | 62.04              | 11.99        | 0.6168                           |
| 14    | 2414      | 4.95                 | 53.15              | 11.76        | 0.3094                           |
| 15    | 2415      | 7.95                 | 57.89              | 10.52        | 0.4842                           |
| 16    | 2416      | 7.84                 | 57.88              | 12.7         | 0.5762                           |
| 17    | 2417      | 7.7                  | 53.23              | 12.74        | 0.5221                           |
| 18    | 2418      | 7.76                 | 61.45              | 12.99        | 0.6192                           |
| 19    | 2419      | 4.91                 | 58.62              | 12.06        | 0.3471                           |
| 20    | 2420      | 4.84                 | 54.87              | 13.21        | 0.3509                           |
| 21    | 2421      | 4.98                 | 57.93              | 11.79        | 0.3401                           |
| 22    | 2422      | 4.83                 | 51.75              | 12.46        | 0.3115                           |
| 23    | 2423      | 10.12                | 52.72              | 13.09        | 0.6983                           |
| 24    | 2424      | 5.08                 | 57.04              | 12.75        | 0.3693                           |
| 25    | 2425      | 8.03                 | 58.08              | 13.26        | 0.6183                           |
| 26    | 2426      | 5.14                 | 55.62              | 11.85        | 0.3387                           |
| 27    | 2427      | 9.68                 | 51.49              | 13.98        | 0.697                            |
| 28    | 2428      | 8.12                 | 56.42              | 13.01        | 0.596                            |
| 29    | 2429      | 8.17                 | 54.97              | 13.59        | 0.6103                           |
| 30    | 2430      | 4.95                 | 50.38              | 11.79        | 0.294                            |
| 31    | 2431      | 4.99                 | 53.29              | 12.37        | 0.3288                           |
| 32    | 2432      | 4.87                 | 60.65              | 13.16        | 0.3886                           |
| 33    | 2433      | 8.03                 | 57.75              | 12.76        | 0.5918                           |
| 34    | 2434      | 8.22                 | 64.1               | 12.15        | 0.6403                           |
| 35    | 2435      | 7.74                 | 61.06              | 12.68        | 0.5991                           |
| 36    | 2436      | 4.85                 | 59.91              | 14.02        | 0.4074                           |
| 37    | 2437      | 5.02                 | 53.96              | 11.55        | 0.3127                           |
| 38    | 2438      | 8.07                 | 58.91              | 11.68        | 0.5552                           |
| 39    | 2439      | 7.75                 | 61.56              | 12.77        | 0.6092                           |
| 40    | 2440      | 4.89                 | 59.36              | 12.79        | 0.3712                           |
| 41    | 2441      | 9.6                  | 59.42              | 11.78        | 0.672                            |
| 42    | 2442      | 9.72                 | 64.83              | 12.12        | 0.764                            |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 43 | 2443 | 9.77 | 55.48 | 13.45 | 0.7288 |
| 44 | 2444 | 4.86 | 58.59 | 12.87 | 0.3664 |
| 45 | 2445 | 8.66 | 55.03 | 12.88 | 0.614  |
| 46 | 2446 | 8.03 | 59.23 | 13.3  | 0.6328 |
| 47 | 2447 | 8.18 | 54.35 | 14.08 | 0.6258 |
| 48 | 2448 | 4.8  | 54.98 | 13.68 | 0.361  |
| 49 | 2449 | 4.47 | 56.81 | 14.72 | 0.3737 |
| 50 | 2450 | 4.73 | 52.8  | 13.39 | 0.3344 |
| 51 | 2451 | 8.11 | 52.28 | 13.6  | 0.5766 |
| 52 | 2452 | 8.91 | 55.83 | 12.66 | 0.6299 |
| 53 | 2453 | 4.95 | 54.1  | 14.21 | 0.3807 |
| 54 | 2454 | 4.66 | 56    | 12.11 | 0.3159 |
| 55 | 2455 | 7.82 | 48.05 | 13.26 | 0.4981 |
| 56 | 2456 | 5    | 60.96 | 13.34 | 0.4065 |
| 57 | 2457 | 8.18 | 66.33 | 12.88 | 0.6986 |
| 58 | 2458 | 5.04 | 57.54 | 11.63 | 0.3372 |
| 59 | 2459 | 7.77 | 49.7  | 14.69 | 0.5672 |
| 60 | 2460 | 4.67 | 52.45 | 14.76 | 0.3615 |
| 61 | 2461 | 7.9  | 51.81 | 12.53 | 0.5127 |
| 62 | 2462 | 7.45 | 50.87 | 13.43 | 0.5088 |
| 63 | 2463 | 4.65 | 48.55 | 12.54 | 0.2832 |
| 64 | 2464 | 8.94 | 56.4  | 13    | 0.6553 |
| 65 | 2465 | 8.15 | 55.33 | 13.25 | 0.5974 |
| 66 | 2466 | 7.83 | 58.55 | 13.87 | 0.6358 |
| 67 | 2467 | 4.82 | 55.91 | 13.06 | 0.3519 |
| 68 | 2468 | 8.1  | 58.04 | 12.99 | 0.6107 |
| 69 | 2469 | 7.86 | 61.21 | 13.79 | 0.6634 |
| 70 | 2470 | 8.05 | 52.59 | 13.69 | 0.5796 |
| 71 | 2471 | 9.84 | 58.21 | 13    | 0.7449 |
| 72 | 2472 | 9.79 | 51.53 | 13.31 | 0.6716 |
| 73 | 2473 | 7.81 | 49.96 | 14.19 | 0.5537 |
| 74 | 2474 | 4.32 | 55.15 | 13.04 | 0.3106 |
| 75 | 2475 | 7.5  | 54.15 | 14.13 | 0.5738 |
| 76 | 2476 | 7.68 | 52.92 | 12.72 | 0.5169 |
| 77 | 2477 | 4.79 | 52.92 | 13.11 | 0.3324 |
| 78 | 2478 | 4.89 | 53.41 | 12.83 | 0.335  |
| 79 | 2479 | 7.87 | 44.1  | 16.55 | 0.5745 |
| 80 | 2480 | 7.6  | 51.77 | 15.4  | 0.6057 |
| 81 | 2481 | 4.79 | 51.1  | 14.58 | 0.3569 |
| 82 | 2482 | 9.06 | 53.1  | 13.86 | 0.6668 |
| 83 | 2483 | 4.52 | 48.34 | 14.19 | 0.3101 |
| 84 | 2484 | 7.68 | 45.56 | 16.11 | 0.5637 |
| 85 | 2485 | 4.54 | 52.29 | 12.87 | 0.3055 |
| 86 | 2486 | 4.94 | 54.38 | 14.01 | 0.3764 |
| 87 | 2487 | 7.46 | 50.9  | 14.34 | 0.5446 |
| 88 | 2488 | 7.96 | 51.55 | 15.44 | 0.6336 |
| 89 | 2489 | 4.72 | 57.38 | 13.56 | 0.3672 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 90  | 2490 | 4.41 | 48.08 | 13.14 | 0.2787 |
| 91  | 2491 | 4.7  | 58.14 | 13.05 | 0.3567 |
| 92  | 2492 | 7.56 | 64.39 | 13.93 | 0.6781 |
| 93  | 2493 | 4.52 | 62.06 | 12.18 | 0.3417 |
| 94  | 2494 | 7.75 | 56.97 | 14.5  | 0.6402 |
| 95  | 2495 | 8.16 | 64.1  | 13.46 | 0.7042 |
| 96  | 2496 | 9.39 | 54.22 | 12.41 | 0.6319 |
| 97  | 2497 | 4.58 | 62.98 | 12.32 | 0.3554 |
| 98  | 2498 | 4.66 | 55.21 | 13.91 | 0.3579 |
| 99  | 2499 | 4.58 | 54.35 | 14.46 | 0.36   |
| 100 | 2500 | 7.81 | 48.43 | 15.05 | 0.5693 |

Date: 05.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 19/310**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 1833      | 9.23                 | 70.98              | 13.55        | 0.8879                           |
| 2     | 1869      | 9.29                 | 69.35              | 12.69        | 0.8175                           |
| 3     | 1881      | 8.54                 | 61.87              | 13.66        | 0.7216                           |
| 4     | 1874      | 8.23                 | 63.91              | 13.82        | 0.7267                           |
| 5     | 1875      | 9.05                 | 69.40              | 13.17        | 0.8272                           |
| 6     | 1811      | 7.16                 | 65.40              | 12.39        | 0.5800                           |
| 7     | 1845      | 4.2                  | 71.77              | 12.82        | 0.3864                           |
| 8     | 1844      | 4.35                 | 61.78              | 11.88        | 0.3193                           |
| 9     | 1885      | 4.13                 | 65.86              | 12.30        | 0.3345                           |
| 10    | 1805      | 4.42                 | 66.99              | 14.00        | 0.4146                           |
| 11    | 1886      | 7.2                  | 65.87              | 11.67        | 0.5537                           |
| 12    | 1873      | 3.47                 | 73.06              | 12.33        | 0.3126                           |
| 13    | 1804      | 4.35                 | 65.92              | 13.14        | 0.3767                           |
| 14    | 1803      | 6.95                 | 69.55              | 13.13        | 0.6345                           |
| 15    | 1815      | 4.39                 | 63.02              | 12.17        | 0.3367                           |
| 16    | 1843      | 7.55                 | 56.46              | 13.73        | 0.5851                           |
| 17    | 1851      | 4.54                 | 63.40              | 13.68        | 0.3936                           |
| 18    | 1855      | 3.65                 | 60.59              | 13.78        | 0.3048                           |
| 19    | 1847      | 7.27                 | 63.99              | 13.91        | 0.6470                           |
| 20    | 1820      | 7.02                 | 59.45              | 13.94        | 0.5820                           |
| 21    | 1850      | 8.38                 | 66.90              | 13.42        | 0.7525                           |
| 22    | 1846      | 9.22                 | 65.29              | 13.65        | 0.8215                           |
| 23    | 1856      | 8.68                 | 65.77              | 14.37        | 0.8203                           |
| 24    | 1848      | 8.64                 | 61.42              | 13.40        | 0.7111                           |
| 25    | 1872      | 9.15                 | 65.56              | 12.03        | 0.7219                           |
| 26    | 1865      | 8.87                 | 65.82              | 13.07        | 0.7628                           |
| 27    | 1880      | 9.08                 | 58.24              | 13.75        | 0.7273                           |
| 28    | 1832      | 8.54                 | 65.46              | 15.05        | 0.8412                           |
| 29    | 1831      | 8.57                 | 59.69              | 13.65        | 0.6985                           |
| 30    | 1853      | 8.41                 | 63.68              | 12.94        | 0.6930                           |
| 31    | 1888      | 3.51                 | 66.09              | 12.92        | 0.2998                           |
| 32    | 1864      | 7.13                 | 62.76              | 15.20        | 0.6802                           |
| 33    | 1894      | 4.39                 | 61.44              | 12.70        | 0.3424                           |
| 34    | 1862      | 4.64                 | 68.62              | 13.09        | 0.4167                           |
| 35    | 1882      | 4.54                 | 70.67              | 6.92         | 0.2220                           |
| 36    | 1897      | 7.55                 | 64.09              | 13.73        | 0.6644                           |
| 37    | 1823      | 7.2                  | 67.06              | 13.26        | 0.6401                           |
| 38    | 1829      | 4.27                 | 55.98              | 13.77        | 0.3292                           |
| 39    | 1893      | 6.92                 | 66.06              | 13.31        | 0.6083                           |
| 40    | 1817      | 7.29                 | 61.80              | 12.48        | 0.5621                           |
| 41    | 1816      | 7.23                 | 62.64              | 14.56        | 0.6594                           |
| 42    | 1867      | 4.54                 | 62.36              | 13.44        | 0.3805                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 43 | 1884 | 3.73 | 53.35 | 13.38 | 0.2663 |
| 44 | 1818 | 4.42 | 56.62 | 13.83 | 0.3461 |
| 45 | 1868 | 4.49 | 66.19 | 13.82 | 0.4108 |
| 46 | 1863 | 4.55 | 64.89 | 14.98 | 0.4423 |
| 47 | 1827 | 7.3  | 51.26 | 12.82 | 0.4796 |
| 48 | 1857 | 4.65 | 56.88 | 11.13 | 0.2943 |
| 49 | 1891 | 4.06 | 55.53 | 12.57 | 0.2834 |
| 50 | 1889 | 4.25 | 60.12 | 13.67 | 0.3494 |
| 51 | 1810 | 7.05 | 62.43 | 13.87 | 0.6105 |
| 52 | 1836 | 7.64 | 61.40 | 13.01 | 0.6104 |
| 53 | 1877 | 4.46 | 67.19 | 14.63 | 0.4384 |
| 54 | 1835 | 7.53 | 55.06 | 13.42 | 0.5565 |
| 55 | 1838 | 7.09 | 59.17 | 13.30 | 0.5580 |
| 56 | 1860 | 4.17 | 61.94 | 12.12 | 0.3132 |
| 57 | 1806 | 4.77 | 56.55 | 13.42 | 0.3620 |
| 58 | 1895 | 7.09 | 62.73 | 12.93 | 0.5750 |
| 59 | 1822 | 7.49 | 58.92 | 13.56 | 0.5985 |
| 60 | 1812 | 7.33 | 63.82 | 12.24 | 0.5725 |
| 61 | 1840 | 4.22 | 53.67 | 12.86 | 0.2912 |
| 62 | 1878 | 9.12 | 69.49 | 12.29 | 0.7788 |
| 63 | 1870 | 8.49 | 64.88 | 13.69 | 0.7539 |
| 64 | 1830 | 8.95 | 65.82 | 12.97 | 0.7643 |
| 65 | 1852 | 8.91 | 55.12 | 13.97 | 0.6861 |
| 66 | 1900 | 7.26 | 62.83 | 14.05 | 0.6411 |
| 67 | 1859 | 4.47 | 64.86 | 12.52 | 0.3630 |
| 68 | 1858 | 4.31 | 63.32 | 15.15 | 0.4133 |
| 69 | 1821 | 4.44 | 63.82 | 12.68 | 0.3592 |
| 70 | 1825 | 4.33 | 48.31 | 13.79 | 0.2884 |
| 71 | 1887 | 4.24 | 55.52 | 12.37 | 0.2913 |
| 72 | 1899 | 7.05 | 65.16 | 14.15 | 0.6500 |
| 73 | 1834 | 4.51 | 52.50 | 14.61 | 0.3459 |
| 74 | 1883 | 7.13 | 55.43 | 10.99 | 0.4342 |
| 75 | 1819 | 7.17 | 59.23 | 13.27 | 0.5636 |
| 76 | 1890 | 7.22 | 55.83 | 12.66 | 0.5105 |
| 77 | 1802 | 4.56 | 56.44 | 13.59 | 0.3498 |
| 78 | 1876 | 4.32 | 59.18 | 13.50 | 0.3452 |
| 79 | 1826 | 4.84 | 62.80 | 3.57  | 0.1084 |
| 80 | 1824 | 3.39 | 58.14 | 13.73 | 0.2705 |
| 81 | 1828 | 4.47 | 64.34 | 13.44 | 0.3867 |
| 82 | 1837 | 4.16 | 56.99 | 12.30 | 0.2916 |
| 83 | 1808 | 4.76 | 57.31 | 13.44 | 0.3665 |
| 84 | 1801 | 4.56 | 61.45 | 12.27 | 0.3438 |
| 85 | 1839 | 6.86 | 66.00 | 11.55 | 0.5227 |
| 86 | 1871 | 8.83 | 62.75 | 12.80 | 0.7090 |
| 87 | 1809 | 8.54 | 64.16 | 13.48 | 0.7387 |
| 88 | 1861 | 9.12 | 65.21 | 10.77 | 0.6402 |
| 89 | 1814 | 8.52 | 65.67 | 12.58 | 0.7038 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 90  | 1866 | 9.58 | 66.54 | 11.21 | 0.7147 |
| 91  | 1841 | 9.42 | 59.47 | 11.40 | 0.6387 |
| 92  | 1842 | 8.94 | 56.69 | 14.11 | 0.7152 |
| 93  | 1813 | 8.55 | 64.88 | 13.69 | 0.7592 |
| 94  | 1807 | 7.14 | 60.69 | 15.44 | 0.6690 |
| 95  | 1892 | 4.21 | 47.57 | 14.90 | 0.2985 |
| 96  | 1879 | 7.63 | 59.59 | 15.61 | 0.7096 |
| 97  | 1898 | 4.53 | 59.94 | 13.28 | 0.3606 |
| 98  | 1849 | 4.7  | 61.53 | 13.85 | 0.4004 |
| 99  | 1854 | 7.35 | 53.48 | 14.47 | 0.5689 |
| 100 | 1896 | 7.65 | 55.85 | 13.00 | 0.5554 |

**Name of Division : Pratapgarh-II**

**Challan No. : 20/311**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 1991      | 7.26                 | 63.77              | 14.85        | 0.6875                           |
| 2     | 1945      | 4.25                 | 64.60              | 12.60        | 0.3459                           |
| 3     | 1964      | 3.58                 | 61.08              | 13.93        | 0.3047                           |
| 4     | 1955      | 4.65                 | 62.42              | 12.96        | 0.3762                           |
| 5     | 1950      | 4.56                 | 60.76              | 14.52        | 0.4022                           |
| 6     | 1916      | 7.17                 | 63.90              | 12.18        | 0.5578                           |
| 7     | 1987      | 7.11                 | 69.23              | 11.51        | 0.5667                           |
| 8     | 1917      | 4.22                 | 66.24              | 12.02        | 0.3359                           |
| 9     | 1982      | 4.39                 | 59.49              | 11.85        | 0.3095                           |
| 10    | 1994      | 7.5                  | 62.73              | 13.18        | 0.6203                           |
| 11    | 1959      | 4.37                 | 59.89              | 14.81        | 0.3876                           |
| 12    | 1929      | 7.55                 | 67.47              | 13.84        | 0.7052                           |
| 13    | 1936      | 7.16                 | 72.46              | 12.26        | 0.6358                           |
| 14    | 1951      | 7.5                  | 65.91              | 12.52        | 0.6188                           |
| 15    | 1953      | 7.69                 | 63.59              | 12.42        | 0.6075                           |
| 16    | 1990      | 4.4                  | 62.49              | 14.79        | 0.4066                           |
| 17    | 1903      | 4.39                 | 55.60              | 10.41        | 0.2542                           |
| 18    | 1911      | 7.33                 | 46.25              | 11.39        | 0.3863                           |
| 19    | 1966      | 3.53                 | 57.05              | 13.88        | 0.2796                           |
| 20    | 1952      | 4.52                 | 65.57              | 12.57        | 0.3724                           |
| 21    | 1967      | 4.45                 | 55.29              | 13.38        | 0.3293                           |
| 22    | 1957      | 7.12                 | 60.34              | 13.66        | 0.5867                           |
| 23    | 1977      | 7.31                 | 68.80              | 12.86        | 0.6469                           |
| 24    | 1992      | 7.5                  | 54.84              | 12.07        | 0.4965                           |
| 25    | 1919      | 7.25                 | 62.35              | 11.31        | 0.5111                           |
| 26    | 1909      | 6.95                 | 71.09              | 12.11        | 0.5984                           |
| 27    | 1983      | 7.52                 | 72.48              | 13.11        | 0.7144                           |
| 28    | 1986      | 7.25                 | 65.06              | 13.56        | 0.6394                           |
| 29    | 1932      | 4.57                 | 68.80              | 13.01        | 0.4090                           |
| 30    | 1924      | 4.29                 | 60.81              | 12.63        | 0.3295                           |
| 31    | 1961      | 4.31                 | 56.48              | 15.14        | 0.3685                           |
| 32    | 1997      | 7.17                 | 62.18              | 14.02        | 0.6252                           |
| 33    | 1910      | 7.12                 | 53.54              | 15.69        | 0.5981                           |
| 34    | 1918      | 7.54                 | 63.03              | 15.29        | 0.7269                           |
| 35    | 1958      | 4.64                 | 65.56              | 14.67        | 0.4464                           |
| 36    | 1937      | 7.26                 | 66.25              | 13.34        | 0.6418                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 37 | 1970 | 4.56 | 61.49 | 13.74 | 0.3853 |
| 38 | 1962 | 4.23 | 65.73 | 14.36 | 0.3993 |
| 39 | 1915 | 4.3  | 63.64 | 14.02 | 0.3836 |
| 40 | 1989 | 7.43 | 60.49 | 12.46 | 0.5602 |
| 41 | 1930 | 7.42 | 67.25 | 15.11 | 0.7539 |
| 42 | 1999 | 4.65 | 53.09 | 12.04 | 0.2971 |
| 43 | 1975 | 8.06 | 59.57 | 15.33 | 0.7359 |
| 44 | 1954 | 4.23 | 56.75 | 14.96 | 0.3591 |
| 45 | 1944 | 7.6  | 65.35 | 13.59 | 0.6749 |
| 46 | 1927 | 4.53 | 55.28 | 14.76 | 0.3696 |
| 47 | 1960 | 7.36 | 54.52 | 14.47 | 0.5807 |
| 48 | 1946 | 4.54 | 63.84 | 12.12 | 0.3514 |
| 49 | 1907 | 6.96 | 61.22 | 14.08 | 0.6000 |
| 50 | 1965 | 4.53 | 63.55 | 13.78 | 0.3968 |
| 51 | 1984 | 8.77 | 61.44 | 14.97 | 0.8068 |
| 52 | 1934 | 9.14 | 66.94 | 14.76 | 0.9030 |
| 53 | 1941 | 9.04 | 66.70 | 14.09 | 0.8498 |
| 54 | 1973 | 8.53 | 61.25 | 14.64 | 0.7651 |
| 55 | 1993 | 9.03 | 58.19 | 12.89 | 0.6772 |
| 56 | 1971 | 8.93 | 64.47 | 12.86 | 0.7403 |
| 57 | 1931 | 8.95 | 69.78 | 13.89 | 0.8673 |
| 58 | 1980 | 8.93 | 65.25 | 12.66 | 0.7376 |
| 59 | 1947 | 9.07 | 68.08 | 13.69 | 0.8453 |
| 60 | 1935 | 9.02 | 67.26 | 10.63 | 0.6449 |
| 61 | 1901 | 5.81 | 55.98 | 12.36 | 0.4021 |
| 62 | 1913 | 7.39 | 59.77 | 12.77 | 0.5639 |
| 63 | 2000 | 7.57 | 64.77 | 11.49 | 0.5632 |
| 64 | 1963 | 7.53 | 59.39 | 13.55 | 0.6062 |
| 65 | 1976 | 4.25 | 67.28 | 11.58 | 0.3311 |
| 66 | 1940 | 9.16 | 68.15 | 14.82 | 0.9252 |
| 67 | 1972 | 8.97 | 64.36 | 13.80 | 0.7965 |
| 68 | 1925 | 8.79 | 70.06 | 12.97 | 0.7990 |
| 69 | 1974 | 8.81 | 61.93 | 12.95 | 0.7066 |
| 70 | 1922 | 8.63 | 66.95 | 13.97 | 0.8069 |
| 71 | 1995 | 7.39 | 60.65 | 13.90 | 0.6230 |
| 72 | 1979 | 7.45 | 64.86 | 15.28 | 0.7383 |
| 73 | 1923 | 7.85 | 67.39 | 14.32 | 0.7575 |
| 74 | 1998 | 4.29 | 53.47 | 14.64 | 0.3359 |
| 75 | 1939 | 3.54 | 62.02 | 13.61 | 0.2988 |
| 76 | 1912 | 7.25 | 61.01 | 13.90 | 0.6148 |
| 77 | 1904 | 4.26 | 65.81 | 13.66 | 0.3830 |
| 78 | 1978 | 7.14 | 62.91 | 13.61 | 0.6112 |
| 79 | 1938 | 7.53 | 69.33 | 13.47 | 0.7033 |
| 80 | 1988 | 4.31 | 66.23 | 14.87 | 0.4245 |
| 81 | 1920 | 8.19 | 59.66 | 13.64 | 0.6667 |
| 82 | 1956 | 8.6  | 58.77 | 12.57 | 0.6355 |
| 83 | 1933 | 9.2  | 68.01 | 13.81 | 0.8639 |
| 84 | 1921 | 8.47 | 64.10 | 13.42 | 0.7284 |
| 85 | 1949 | 9.13 | 58.29 | 13.38 | 0.7121 |
| 86 | 1928 | 9.12 | 69.47 | 14.75 | 0.9348 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 87  | 1948 | 9.04 | 70.79 | 14.06 | 0.8995 |
| 88  | 1942 | 4.53 | 71.80 | 12.24 | 0.3982 |
| 89  | 1943 | 8.63 | 62.96 | 14.34 | 0.7793 |
| 90  | 1926 | 4.43 | 63.68 | 14.09 | 0.3974 |
| 91  | 1969 | 4.35 | 60.07 | 14.90 | 0.3893 |
| 92  | 1905 | 4.56 | 60.37 | 14.15 | 0.3894 |
| 93  | 1906 | 3.59 | 65.48 | 16.13 | 0.3791 |
| 94  | 1981 | 7.53 | 61.44 | 14.42 | 0.6672 |
| 95  | 1996 | 7.46 | 55.12 | 13.82 | 0.5685 |
| 96  | 1914 | 7.53 | 47.89 | 13.76 | 0.4962 |
| 97  | 1908 | 7.3  | 66.86 | 13.83 | 0.6753 |
| 98  | 1902 | 7.12 | 57.84 | 13.35 | 0.5497 |
| 99  | 1985 | 4.6  | 65.83 | 14.96 | 0.4531 |
| 100 | 1968 | 7.46 | 59.09 | 14.42 | 0.6356 |

Date: 04.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 10/196**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 982       | 5.03                 | 51.97              | 14.14        | 0.3697                           |
| 2     | 965       | 8.26                 | 62.26              | 13.97        | 0.7186                           |
| 3     | 971       | 8.14                 | 51.71              | 14.23        | 0.5991                           |
| 4     | 968       | 8.17                 | 53.44              | 12.72        | 0.5556                           |
| 5     | 985       | 8.09                 | 51.35              | 14.92        | 0.6197                           |
| 6     | 948       | 7.99                 | 51.09              | 14.25        | 0.5817                           |
| 7     | 974       | 8.09                 | 50.45              | 13.62        | 0.5558                           |
| 8     | 924       | 3.58                 | 49.22              | 15.75        | 0.2775                           |
| 9     | 954       | 5.04                 | 57.92              | 12.50        | 0.3649                           |
| 10    | 957       | 9.31                 | 54.69              | 14.99        | 0.7634                           |
| 11    | 910       | 7.31                 | 55.31              | 13.04        | 0.5271                           |
| 12    | 951       | 4.8                  | 52.83              | 14.88        | 0.3773                           |
| 13    | 946       | 4.92                 | 51.65              | 14.75        | 0.3749                           |
| 14    | 916       | 4.04                 | 61.87              | 12.83        | 0.3208                           |
| 15    | 944       | 8.04                 | 49.20              | 14.72        | 0.5821                           |
| 16    | 903       | 3.86                 | 52.83              | 13.84        | 0.2822                           |
| 17    | 962       | 4.08                 | 62.99              | 12.45        | 0.3199                           |
| 18    | 933       | 7.3                  | 52.39              | 14.60        | 0.5585                           |
| 19    | 912       | 7.92                 | 58.76              | 12.90        | 0.6003                           |
| 20    | 995       | 8.68                 | 59.73              | 13.66        | 0.7083                           |
| 21    | 998       | 3.93                 | 59.41              | 13.55        | 0.3164                           |
| 22    | 927       | 4.55                 | 52.52              | 11.96        | 0.2857                           |
| 23    | 938       | 7.5                  | 57.82              | 13.32        | 0.5775                           |
| 24    | 937       | 8.54                 | 57.91              | 13.14        | 0.6499                           |
| 25    | 925       | 8.51                 | 53.09              | 13.47        | 0.6085                           |
| 26    | 994       | 8.49                 | 58.26              | 12.84        | 0.6351                           |
| 27    | 931       | 8.07                 | 55.40              | 12.58        | 0.5625                           |
| 28    | 953       | 9.93                 | 53.28              | 11.54        | 0.6107                           |
| 29    | 969       | 9.77                 | 53.03              | 12.46        | 0.6458                           |
| 30    | 972       | 9.22                 | 53.66              | 14.07        | 0.6961                           |
| 31    | 993       | 8.67                 | 55.73              | 14.03        | 0.6780                           |
| 32    | 976       | 8.18                 | 52.66              | 13.65        | 0.5881                           |
| 33    | 992       | 9.03                 | 54.75              | 15.98        | 0.7901                           |
| 34    | 959       | 9.55                 | 57.68              | 12.22        | 0.6733                           |
| 35    | 963       | 9.6                  | 56.05              | 12.81        | 0.6893                           |
| 36    | 902       | 8.99                 | 53.87              | 14.41        | 0.6976                           |
| 37    | 997       | 4.32                 | 53.04              | 14.88        | 0.3408                           |
| 38    | 991       | 6.95                 | 46.49              | 14.13        | 0.4566                           |
| 39    | 929       | 7.78                 | 61.52              | 11.43        | 0.5469                           |
| 40    | 960       | 9.08                 | 55.80              | 13.21        | 0.6692                           |
| 41    | 935       | 7.73                 | 62.25              | 10.92        | 0.5256                           |
| 42    | 984       | 9.9                  | 56.56              | 13.93        | 0.7801                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 43 | 914  | 8.82 | 55.01 | 14.14 | 0.6862 |
| 44 | 905  | 7.22 | 58.79 | 14.19 | 0.6021 |
| 45 | 981  | 8.17 | 57.08 | 12.39 | 0.5776 |
| 46 | 950  | 4.17 | 53.48 | 13.76 | 0.3069 |
| 47 | 961  | 5.06 | 67.83 | 12.12 | 0.4159 |
| 48 | 970  | 9.35 | 49.65 | 12.77 | 0.5928 |
| 49 | 996  | 8.43 | 52.72 | 12.52 | 0.5564 |
| 50 | 980  | 4.92 | 53.70 | 11.92 | 0.3149 |
| 51 | 966  | 7.89 | 48.06 | 13.21 | 0.5010 |
| 52 | 967  | 9.47 | 47.17 | 14.84 | 0.6629 |
| 53 | 939  | 4.39 | 49.03 | 13.58 | 0.2924 |
| 54 | 913  | 7.5  | 54.79 | 12.06 | 0.4958 |
| 55 | 940  | 7.45 | 53.82 | 11.87 | 0.4761 |
| 56 | 947  | 4.74 | 52.37 | 13.63 | 0.3384 |
| 57 | 958  | 4.7  | 57.19 | 12.68 | 0.3407 |
| 58 | 928  | 3.6  | 52.54 | 14.66 | 0.2772 |
| 59 | 906  | 3.69 | 44.54 | 13.81 | 0.2269 |
| 60 | 941  | 8.3  | 40.40 | 14.75 | 0.4947 |
| 61 | 1000 | 4.47 | 64.85 | 14.71 | 0.4264 |
| 62 | 945  | 7.81 | 61.24 | 13.13 | 0.6279 |
| 63 | 930  | 3.8  | 51.63 | 13.65 | 0.2679 |
| 64 | 989  | 9.53 | 60.89 | 14.14 | 0.8205 |
| 65 | 943  | 9.86 | 51.04 | 12.75 | 0.6419 |
| 66 | 932  | 7.69 | 57.13 | 14.06 | 0.6175 |
| 67 | 988  | 7.89 | 57.05 | 12.83 | 0.5775 |
| 68 | 979  | 7.74 | 57.63 | 13.41 | 0.5983 |
| 69 | 907  | 8.99 | 48.65 | 15.05 | 0.6581 |
| 70 | 952  | 9.41 | 48.04 | 13.18 | 0.5957 |
| 71 | 921  | 4.28 | 53.22 | 14.64 | 0.3334 |
| 72 | 923  | 7.27 | 47.12 | 14.56 | 0.4987 |
| 73 | 973  | 8.14 | 51.12 | 12.81 | 0.5332 |
| 74 | 918  | 4.36 | 50.84 | 14.50 | 0.3213 |
| 75 | 909  | 3.97 | 57.64 | 13.71 | 0.3136 |
| 76 | 999  | 7.27 | 46.66 | 15.07 | 0.5111 |
| 77 | 922  | 7.55 | 50.13 | 13.58 | 0.5142 |
| 78 | 964  | 3.96 | 62.61 | 12.60 | 0.3124 |
| 79 | 908  | 7.33 | 53.64 | 14.02 | 0.5512 |
| 80 | 986  | 9.43 | 50.56 | 12.78 | 0.6092 |
| 81 | 926  | 7.94 | 62.59 | 12.78 | 0.6352 |
| 82 | 987  | 4.1  | 65.26 | 13.22 | 0.3538 |
| 83 | 901  | 3.61 | 58.76 | 11.40 | 0.2419 |
| 84 | 990  | 4.25 | 59.06 | 12.48 | 0.3132 |
| 85 | 975  | 8.07 | 56.04 | 12.74 | 0.5762 |
| 86 | 942  | 9.34 | 47.27 | 15.49 | 0.6837 |
| 87 | 920  | 8.54 | 54.75 | 13.32 | 0.6226 |
| 88 | 978  | 8.94 | 54.38 | 13.57 | 0.6598 |
| 89 | 911  | 3.97 | 65.01 | 12.34 | 0.3184 |

|     |     |      |       |       |        |
|-----|-----|------|-------|-------|--------|
| 90  | 983 | 4.85 | 59.92 | 11.92 | 0.3463 |
| 91  | 936 | 4.24 | 58.74 | 12.85 | 0.3201 |
| 92  | 919 | 4.68 | 56.88 | 13.27 | 0.3533 |
| 93  | 917 | 7.29 | 45.63 | 12.49 | 0.4155 |
| 94  | 956 | 9.89 | 58.04 | 11.68 | 0.6705 |
| 95  | 915 | 3.62 | 59.59 | 12.62 | 0.2722 |
| 96  | 977 | 5.04 | 59.72 | 12.49 | 0.3760 |
| 97  | 904 | 4.77 | 64.84 | 12.42 | 0.3840 |
| 98  | 955 | 5.32 | 59.34 | 12.20 | 0.3852 |
| 99  | 949 | 4.57 | 53.88 | 13.94 | 0.3432 |
| 100 | 934 | 4.04 | 61.56 | 13.79 | 0.3430 |

Date: 03.08.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 15/253**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 1422      | 4.64                 | 62.25              | 12.03        | 0.3475                           |
| 2     | 1440      | 7                    | 64.61              | 12.61        | 0.5705                           |
| 3     | 1484      | 7.13                 | 70.17              | 13.37        | 0.6688                           |
| 4     | 1431      | 7.21                 | 54.54              | 12.27        | 0.4823                           |
| 5     | 1460      | 3.61                 | 68.12              | 12.89        | 0.3170                           |
| 6     | 1456      | 4.43                 | 66.85              | 12.85        | 0.3805                           |
| 7     | 1483      | 4.32                 | 66.48              | 13.93        | 0.4000                           |
| 8     | 1401      | 7.3                  | 59.07              | 13.59        | 0.5862                           |
| 9     | 1408      | 7.93                 | 54.59              | 13.32        | 0.5765                           |
| 10    | 1473      | 7.38                 | 58.53              | 11.40        | 0.4922                           |
| 11    | 1477      | 7.21                 | 60.17              | 13.21        | 0.5732                           |
| 12    | 1432      | 4.53                 | 57.99              | 12.86        | 0.3379                           |
| 13    | 1417      | 4.7                  | 59.06              | 12.65        | 0.3511                           |
| 14    | 1445      | 4.19                 | 66.69              | 12.54        | 0.3503                           |
| 15    | 1403      | 7.37                 | 58.17              | 12.77        | 0.5476                           |
| 16    | 1438      | 4.28                 | 59.48              | 13.48        | 0.3433                           |
| 17    | 1404      | 7.11                 | 57.01              | 12.61        | 0.5112                           |
| 18    | 1444      | 6.95                 | 61.31              | 12.98        | 0.5532                           |
| 19    | 1464      | 7.53                 | 64.71              | 13.40        | 0.6529                           |
| 20    | 1492      | 4.26                 | 68.91              | 12.96        | 0.3804                           |
| 21    | 1423      | 8.7                  | 59.62              | 14.94        | 0.7752                           |
| 22    | 1446      | 8.56                 | 61.44              | 14.75        | 0.7755                           |
| 23    | 1462      | 8.49                 | 62.64              | 14.99        | 0.7972                           |
| 24    | 1481      | 8.48                 | 52.97              | 15.39        | 0.6911                           |
| 25    | 1407      | 8.24                 | 48.67              | 14.16        | 0.5677                           |
| 26    | 1419      | 7.33                 | 61.49              | 11.55        | 0.5204                           |
| 27    | 1487      | 8.22                 | 57.78              | 11.70        | 0.5557                           |
| 28    | 1459      | 8.35                 | 56.35              | 15.00        | 0.7056                           |
| 29    | 1429      | 8.45                 | 60.21              | 12.82        | 0.6523                           |
| 30    | 1468      | 8.56                 | 62.66              | 13.10        | 0.7028                           |
| 31    | 1488      | 6.98                 | 63.00              | 12.83        | 0.5640                           |
| 32    | 1475      | 7.54                 | 55.73              | 14.59        | 0.6130                           |
| 33    | 1478      | 6.98                 | 59.69              | 13.55        | 0.5647                           |
| 34    | 1470      | 4.2                  | 53.67              | 13.19        | 0.2974                           |
| 35    | 1467      | 7.3                  | 54.02              | 14.40        | 0.5679                           |
| 36    | 1416      | 4.69                 | 60.24              | 13.43        | 0.3794                           |
| 37    | 1415      | 4.66                 | 58.02              | 12.84        | 0.3472                           |
| 38    | 1489      | 4.34                 | 59.97              | 12.89        | 0.3355                           |
| 39    | 1472      | 7.5                  | 61.01              | 12.00        | 0.5490                           |
| 40    | 1434      | 7.2                  | 62.77              | 13.13        | 0.5933                           |
| 41    | 1491      | 9.1                  | 67.95              | 14.54        | 0.8991                           |
| 42    | 1457      | 4.17                 | 64.71              | 13.24        | 0.3574                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 43 | 1497 | 8.3  | 62.14 | 12.46 | 0.6424 |
| 44 | 1448 | 8.37 | 70.65 | 12.68 | 0.7500 |
| 45 | 1414 | 9.25 | 56.31 | 11.42 | 0.5948 |
| 46 | 1435 | 6.84 | 59.87 | 13.73 | 0.5622 |
| 47 | 1420 | 3.56 | 55.26 | 13.05 | 0.2567 |
| 48 | 1436 | 7.19 | 55.65 | 13.62 | 0.5450 |
| 49 | 1426 | 7.41 | 52.22 | 12.77 | 0.4942 |
| 50 | 1418 | 6.91 | 58.30 | 13.33 | 0.5369 |
| 51 | 1500 | 9.07 | 57.02 | 14.03 | 0.7256 |
| 52 | 1411 | 8.49 | 50.90 | 14.09 | 0.6087 |
| 53 | 1476 | 8.39 | 58.65 | 13.45 | 0.6620 |
| 54 | 1471 | 8.83 | 56.59 | 12.95 | 0.6472 |
| 55 | 1409 | 8.59 | 48.77 | 13.88 | 0.5815 |
| 56 | 1452 | 8.57 | 66.33 | 11.41 | 0.6487 |
| 57 | 1433 | 8.47 | 57.41 | 13.78 | 0.6700 |
| 58 | 1461 | 8.54 | 64.32 | 12.34 | 0.6781 |
| 59 | 1458 | 8.59 | 45.62 | 13.48 | 0.5283 |
| 60 | 1425 | 9.33 | 60.96 | 12.73 | 0.7240 |
| 61 | 1498 | 8.28 | 68.98 | 12.90 | 0.7369 |
| 62 | 1405 | 6.61 | 56.32 | 13.92 | 0.5182 |
| 63 | 1453 | 7.07 | 59.38 | 14.45 | 0.6066 |
| 64 | 1441 | 6.9  | 50.59 | 13.96 | 0.4871 |
| 65 | 1410 | 7.5  | 59.56 | 12.89 | 0.5760 |
| 66 | 1469 | 4.27 | 66.60 | 12.81 | 0.3642 |
| 67 | 1439 | 7.33 | 63.81 | 12.79 | 0.5981 |
| 68 | 1412 | 3.67 | 59.68 | 12.32 | 0.2697 |
| 69 | 1413 | 7.16 | 60.51 | 13.07 | 0.5664 |
| 70 | 1465 | 4.36 | 64.52 | 12.49 | 0.3514 |
| 71 | 1466 | 7.28 | 59.28 | 13.60 | 0.5868 |
| 72 | 1494 | 4.33 | 65.15 | 12.19 | 0.3438 |
| 73 | 1430 | 8.62 | 56.90 | 12.95 | 0.6353 |
| 74 | 1437 | 7.23 | 57.04 | 13.43 | 0.5538 |
| 75 | 1493 | 8.65 | 67.57 | 14.28 | 0.8347 |
| 76 | 1463 | 7.32 | 68.03 | 13.10 | 0.6522 |
| 77 | 1486 | 4.51 | 63.80 | 14.12 | 0.4064 |
| 78 | 1447 | 7.3  | 59.63 | 12.11 | 0.5271 |
| 79 | 1490 | 7.72 | 58.81 | 12.21 | 0.5543 |
| 80 | 1402 | 7.26 | 55.46 | 13.78 | 0.5547 |
| 81 | 1450 | 4.28 | 70.84 | 12.94 | 0.3925 |
| 82 | 1499 | 6.86 | 57.78 | 12.84 | 0.5090 |
| 83 | 1442 | 7.29 | 57.89 | 12.33 | 0.5205 |
| 84 | 1427 | 7.71 | 58.32 | 11.64 | 0.5235 |
| 85 | 1496 | 4.29 | 60.10 | 11.80 | 0.3042 |
| 86 | 1479 | 4.35 | 58.41 | 14.00 | 0.3558 |
| 87 | 1424 | 6.85 | 55.42 | 13.86 | 0.5261 |
| 88 | 1406 | 7.68 | 61.50 | 13.28 | 0.6275 |
| 89 | 1482 | 7.44 | 65.47 | 11.13 | 0.5424 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 90  | 1495 | 7.38 | 65.70 | 13.36 | 0.6480 |
| 91  | 1449 | 4.39 | 58.47 | 12.72 | 0.3266 |
| 92  | 1421 | 4.26 | 50.48 | 14.64 | 0.3148 |
| 93  | 1451 | 4.57 | 59.95 | 13.19 | 0.3615 |
| 94  | 1455 | 7.17 | 60.38 | 13.63 | 0.5901 |
| 95  | 1485 | 4.24 | 59.43 | 13.70 | 0.3451 |
| 96  | 1474 | 7.35 | 54.37 | 13.24 | 0.5292 |
| 97  | 1480 | 4.55 | 59.59 | 12.60 | 0.3417 |
| 98  | 1443 | 3.54 | 50.09 | 14.97 | 0.2655 |
| 99  | 1428 | 7.02 | 54.28 | 14.65 | 0.5581 |
| 100 | 1454 | 4.36 | 66.66 | 13.76 | 0.3998 |

**Name of Division : Pratapgarh-II**

**Challan No. : 16/254**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 1540      | 8.75                 | 61.16              | 13.93        | 0.7455                           |
| 2     | 1524      | 9.03                 | 63.04              | 14.17        | 0.8064                           |
| 3     | 1504      | 7.87                 | 48.55              | 14.95        | 0.5714                           |
| 4     | 1533      | 9.34                 | 63.11              | 11.99        | 0.7070                           |
| 5     | 1590      | 8.89                 | 63.01              | 13.30        | 0.7450                           |
| 6     | 1513      | 7.59                 | 60.81              | 13.21        | 0.6095                           |
| 7     | 1599      | 7.61                 | 62.59              | 13.60        | 0.6476                           |
| 8     | 1517      | 7.36                 | 61.29              | 12.38        | 0.5586                           |
| 9     | 1573      | 7.78                 | 62.92              | 13.73        | 0.6722                           |
| 10    | 1544      | 3.51                 | 54.46              | 14.74        | 0.2819                           |
| 11    | 1505      | 7.81                 | 54.84              | 13.31        | 0.5701                           |
| 12    | 1535      | 7.41                 | 72.97              | 11.99        | 0.6484                           |
| 13    | 1595      | 7.42                 | 62.28              | 13.36        | 0.6173                           |
| 14    | 1508      | 7.36                 | 58.81              | 11.99        | 0.5189                           |
| 15    | 1507      | 7.58                 | 57.37              | 14.00        | 0.6087                           |
| 16    | 1592      | 4.19                 | 62.26              | 15.97        | 0.4165                           |
| 17    | 1554      | 7.36                 | 60.71              | 13.13        | 0.5866                           |
| 18    | 1593      | 4.34                 | 61.65              | 11.21        | 0.2999                           |
| 19    | 1541      | 7.6                  | 64.00              | 12.16        | 0.5913                           |
| 20    | 1550      | 7.09                 | 51.51              | 13.76        | 0.5027                           |
| 21    | 1558      | 7.33                 | 57.48              | 13.62        | 0.5739                           |
| 22    | 1509      | 7.3                  | 55.01              | 13.36        | 0.5365                           |
| 23    | 1579      | 7.43                 | 55.97              | 14.35        | 0.5966                           |
| 24    | 1545      | 4.11                 | 54.05              | 15.71        | 0.3489                           |
| 25    | 1546      | 7.18                 | 56.59              | 14.93        | 0.6067                           |
| 26    | 1591      | 7.19                 | 58.39              | 13.32        | 0.5594                           |
| 27    | 1586      | 7.24                 | 60.33              | 12.95        | 0.5654                           |
| 28    | 1577      | 7.16                 | 59.71              | 11.82        | 0.5055                           |
| 29    | 1532      | 7.45                 | 60.83              | 13.17        | 0.5967                           |
| 30    | 1539      | 7.54                 | 66.76              | 12.49        | 0.6288                           |
| 31    | 1547      | 4.1                  | 56.61              | 14.17        | 0.3288                           |
| 32    | 1534      | 7.68                 | 55.12              | 13.44        | 0.5691                           |
| 33    | 1583      | 7.17                 | 64.98              | 14.94        | 0.6962                           |
| 34    | 1575      | 7.4                  | 63.40              | 14.01        | 0.6571                           |
| 35    | 1567      | 7.24                 | 59.98              | 13.64        | 0.5922                           |
| 36    | 1525      | 6.96                 | 57.89              | 14.63        | 0.5895                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 37 | 1511 | 7.26 | 58.09 | 12.88 | 0.5430 |
| 38 | 1506 | 7.6  | 60.61 | 12.94 | 0.5958 |
| 39 | 1556 | 7.44 | 60.89 | 12.42 | 0.5625 |
| 40 | 1518 | 7.59 | 62.51 | 13.31 | 0.6315 |
| 41 | 1549 | 7.96 | 57.44 | 12.29 | 0.5620 |
| 42 | 1528 | 7.73 | 60.07 | 15.71 | 0.7297 |
| 43 | 1589 | 4.69 | 63.68 | 13.69 | 0.4090 |
| 44 | 1598 | 4.54 | 59.72 | 11.47 | 0.3110 |
| 45 | 1519 | 7.36 | 57.62 | 12.41 | 0.5262 |
| 46 | 1561 | 7.41 | 60.51 | 13.22 | 0.5928 |
| 47 | 1588 | 4.47 | 66.29 | 13.06 | 0.3871 |
| 48 | 1576 | 6.79 | 70.81 | 13.11 | 0.6301 |
| 49 | 1501 | 7.41 | 56.54 | 13.55 | 0.5676 |
| 50 | 1536 | 7.63 | 68.98 | 12.83 | 0.6753 |
| 51 | 1587 | 4.33 | 55.02 | 12.60 | 0.3001 |
| 52 | 1597 | 7.29 | 53.94 | 12.44 | 0.4892 |
| 53 | 1502 | 7.41 | 52.83 | 14.01 | 0.5483 |
| 54 | 1564 | 7.48 | 61.29 | 14.72 | 0.6747 |
| 55 | 1557 | 7.44 | 64.96 | 13.92 | 0.6726 |
| 56 | 1521 | 7.81 | 60.75 | 11.62 | 0.5514 |
| 57 | 1580 | 7.46 | 64.38 | 12.80 | 0.6147 |
| 58 | 1503 | 7.79 | 58.50 | 13.74 | 0.6263 |
| 59 | 1530 | 4.41 | 59.59 | 13.19 | 0.3466 |
| 60 | 1563 | 7.48 | 59.17 | 12.19 | 0.5393 |
| 61 | 1582 | 6.99 | 62.99 | 12.81 | 0.5641 |
| 62 | 1522 | 7.33 | 57.39 | 13.49 | 0.5673 |
| 63 | 1578 | 7.76 | 64.05 | 12.91 | 0.6418 |
| 64 | 1594 | 4.88 | 55.61 | 13.07 | 0.3548 |
| 65 | 1515 | 7.39 | 54.65 | 14.07 | 0.5683 |
| 66 | 1600 | 9.33 | 68.51 | 13.76 | 0.8798 |
| 67 | 1572 | 9.05 | 64.10 | 13.21 | 0.7665 |
| 68 | 1574 | 8.74 | 61.28 | 13.28 | 0.7114 |
| 69 | 1520 | 8.79 | 63.47 | 14.70 | 0.8201 |
| 70 | 1514 | 8.54 | 58.03 | 13.58 | 0.6730 |
| 71 | 1569 | 8.48 | 61.33 | 13.75 | 0.7149 |
| 72 | 1516 | 8.96 | 65.88 | 13.83 | 0.8163 |
| 73 | 1538 | 8.45 | 63.03 | 12.64 | 0.6735 |
| 74 | 1570 | 8.91 | 62.57 | 12.95 | 0.7217 |
| 75 | 1529 | 9.18 | 60.61 | 14.70 | 0.8179 |
| 76 | 1559 | 7.54 | 59.51 | 12.72 | 0.5708 |
| 77 | 1553 | 7.2  | 53.48 | 11.85 | 0.4565 |
| 78 | 1562 | 4.13 | 56.41 | 12.94 | 0.3015 |
| 79 | 1581 | 3.58 | 50.62 | 12.80 | 0.2320 |
| 80 | 1548 | 7.32 | 60.58 | 11.29 | 0.5007 |
| 81 | 1555 | 7.46 | 61.84 | 12.94 | 0.5968 |
| 82 | 1510 | 7.27 | 60.02 | 12.98 | 0.5663 |
| 83 | 1566 | 7.53 | 64.71 | 12.61 | 0.6144 |
| 84 | 1552 | 7.02 | 58.02 | 13.13 | 0.5349 |
| 85 | 1551 | 7.46 | 62.86 | 12.33 | 0.5782 |
| 86 | 1512 | 9.18 | 61.34 | 13.50 | 0.7601 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 87  | 1585 | 8.78 | 59.52 | 14.15 | 0.7393 |
| 88  | 1565 | 9.4  | 66.52 | 13.91 | 0.8695 |
| 89  | 1523 | 9.08 | 58.88 | 14.40 | 0.7700 |
| 90  | 1596 | 7.61 | 53.06 | 13.10 | 0.5289 |
| 91  | 1560 | 7.17 | 51.02 | 16.01 | 0.5858 |
| 92  | 1584 | 7.46 | 60.93 | 14.44 | 0.6565 |
| 93  | 1531 | 7.33 | 53.16 | 13.68 | 0.5329 |
| 94  | 1542 | 4.57 | 65.83 | 14.67 | 0.4415 |
| 95  | 1568 | 4.25 | 64.13 | 14.67 | 0.3999 |
| 96  | 1537 | 8.76 | 54.25 | 14.80 | 0.7034 |
| 97  | 1527 | 8.89 | 65.04 | 14.70 | 0.8499 |
| 98  | 1526 | 8.75 | 54.67 | 14.82 | 0.7087 |
| 99  | 1571 | 8.43 | 67.77 | 13.86 | 0.7916 |
| 100 | 1543 | 9.62 | 59.74 | 15.84 | 0.9101 |

Date: 30.07.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 31/454**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 3016      | 3.7                  | 63.84              | 11.76        | 0.2779                           |
| 2     | 3084      | 4.58                 | 55.86              | 12.21        | 0.3124                           |
| 3     | 3012      | 4.26                 | 58.19              | 14.21        | 0.3523                           |
| 4     | 3060      | 7.7                  | 48.78              | 14.88        | 0.5590                           |
| 5     | 3095      | 4.86                 | 59.85              | 12.50        | 0.3635                           |
| 6     | 3068      | 6.94                 | 55.32              | 12.47        | 0.4789                           |
| 7     | 3074      | 4.57                 | 56.86              | 14.21        | 0.3693                           |
| 8     | 3013      | 4.36                 | 63.43              | 13.13        | 0.3632                           |
| 9     | 3083      | 7.61                 | 56.76              | 13.44        | 0.5806                           |
| 10    | 3010      | 6.62                 | 65.26              | 13.27        | 0.5733                           |
| 11    | 3038      | 4.9                  | 62.68              | 13.98        | 0.4292                           |
| 12    | 3036      | 8.06                 | 61.14              | 12.94        | 0.6375                           |
| 13    | 3093      | 7.68                 | 63.40              | 12.67        | 0.6167                           |
| 14    | 3004      | 7.78                 | 61.46              | 13.36        | 0.6387                           |
| 15    | 3037      | 4.84                 | 64.20              | 14.05        | 0.4366                           |
| 16    | 3048      | 4.74                 | 58.07              | 14.09        | 0.3877                           |
| 17    | 3054      | 4.8                  | 52.70              | 14.95        | 0.3782                           |
| 18    | 3017      | 4.42                 | 64.93              | 14.18        | 0.4071                           |
| 19    | 3011      | 4.48                 | 58.69              | 12.69        | 0.3338                           |
| 20    | 3029      | 4.76                 | 62.99              | 12.65        | 0.3794                           |
| 21    | 3049      | 4.82                 | 57.56              | 11.92        | 0.3307                           |
| 22    | 3022      | 4.83                 | 61.50              | 12.81        | 0.3806                           |
| 23    | 3063      | 4.37                 | 59.13              | 13.83        | 0.3575                           |
| 24    | 3030      | 7.66                 | 60.73              | 12.81        | 0.5959                           |
| 25    | 3078      | 7.59                 | 59.25              | 13.15        | 0.5913                           |
| 26    | 3061      | 7.21                 | 55.17              | 14.05        | 0.5588                           |
| 27    | 3089      | 4.65                 | 55.78              | 14.49        | 0.3757                           |
| 28    | 3005      | 4.63                 | 66.24              | 13.29        | 0.4074                           |
| 29    | 3028      | 4.84                 | 60.51              | 14.49        | 0.4245                           |
| 30    | 3072      | 4.14                 | 59.92              | 12.65        | 0.3138                           |
| 31    | 3027      | 4.71                 | 57.90              | 12.50        | 0.3410                           |
| 32    | 3092      | 4.35                 | 63.72              | 13.18        | 0.3654                           |
| 33    | 3045      | 8.13                 | 55.35              | 10.66        | 0.4797                           |
| 34    | 3024      | 4.82                 | 56.69              | 13.74        | 0.3755                           |
| 35    | 3088      | 4.6                  | 60.80              | 15.25        | 0.4264                           |
| 36    | 3085      | 4.44                 | 60.35              | 13.41        | 0.3592                           |
| 37    | 3067      | 4.42                 | 46.54              | 15.54        | 0.3196                           |
| 38    | 3091      | 7                    | 59.39              | 13.39        | 0.5565                           |
| 39    | 3099      | 7.19                 | 60.81              | 13.47        | 0.5889                           |
| 40    | 3098      | 4.4                  | 65.71              | 12.75        | 0.3687                           |
| 41    | 3096      | 4.28                 | 64.61              | 14.53        | 0.4019                           |
| 42    | 3035      | 5                    | 59.57              | 13.30        | 0.3960                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 43 | 3025 | 4.83 | 55.97 | 13.92 | 0.3763 |
| 44 | 3081 | 7.44 | 59.99 | 13.27 | 0.5922 |
| 45 | 3066 | 4.46 | 57.81 | 11.94 | 0.3077 |
| 46 | 3023 | 8.3  | 52.63 | 13.38 | 0.5843 |
| 47 | 3071 | 7.12 | 47.26 | 13.18 | 0.4436 |
| 48 | 3031 | 4.9  | 61.78 | 13.63 | 0.4126 |
| 49 | 3059 | 7.65 | 60.06 | 14.75 | 0.6778 |
| 50 | 3090 | 3.73 | 59.46 | 14.23 | 0.3156 |
| 51 | 3021 | 4.82 | 56.62 | 13.63 | 0.3721 |
| 52 | 3100 | 8.9  | 56.12 | 14.74 | 0.7360 |
| 53 | 3018 | 8.68 | 60.51 | 13.42 | 0.7048 |
| 54 | 3008 | 8.71 | 54.17 | 14.01 | 0.6611 |
| 55 | 3058 | 4.82 | 54.33 | 13.97 | 0.3658 |
| 56 | 3097 | 4.14 | 63.91 | 14.02 | 0.3709 |
| 57 | 3077 | 4.31 | 58.49 | 14.91 | 0.3758 |
| 58 | 3001 | 8.05 | 57.91 | 13.28 | 0.6190 |
| 59 | 3019 | 4.01 | 59.42 | 11.86 | 0.2827 |
| 60 | 3015 | 4.52 | 65.08 | 12.62 | 0.3711 |
| 61 | 3087 | 4.55 | 63.00 | 11.84 | 0.3394 |
| 62 | 3080 | 4.27 | 61.49 | 13.25 | 0.3480 |
| 63 | 3006 | 7.38 | 61.64 | 12.87 | 0.5852 |
| 64 | 3086 | 4.47 | 61.58 | 12.83 | 0.3531 |
| 65 | 3082 | 7.39 | 61.08 | 13.85 | 0.6252 |
| 66 | 3014 | 4.63 | 61.45 | 13.00 | 0.3699 |
| 67 | 3007 | 3.37 | 55.12 | 12.05 | 0.2238 |
| 68 | 3057 | 4.81 | 60.78 | 12.82 | 0.3747 |
| 69 | 3040 | 6.51 | 45.95 | 14.84 | 0.4440 |
| 70 | 3042 | 4.38 | 50.52 | 14.79 | 0.3272 |
| 71 | 3051 | 4.9  | 56.09 | 13.34 | 0.3665 |
| 72 | 3076 | 7.37 | 59.57 | 13.66 | 0.5999 |
| 73 | 3073 | 4.3  | 59.71 | 13.97 | 0.3586 |
| 74 | 3046 | 4.81 | 56.09 | 13.92 | 0.3757 |
| 75 | 3069 | 4.07 | 58.57 | 13.49 | 0.3215 |
| 76 | 3003 | 4.46 | 58.14 | 14.41 | 0.3737 |
| 77 | 3020 | 8.19 | 61.41 | 12.64 | 0.6355 |
| 78 | 3044 | 4.74 | 53.24 | 15.01 | 0.3787 |
| 79 | 3062 | 3.82 | 42.77 | 16.20 | 0.2647 |
| 80 | 3053 | 4.73 | 50.76 | 14.68 | 0.3524 |
| 81 | 3032 | 4.69 | 63.62 | 13.97 | 0.4169 |
| 82 | 3002 | 8.02 | 50.36 | 14.89 | 0.6015 |
| 83 | 3026 | 4.84 | 57.67 | 13.07 | 0.3649 |
| 84 | 3055 | 8.45 | 55.89 | 14.96 | 0.7064 |
| 85 | 3043 | 4.57 | 51.13 | 14.79 | 0.3455 |
| 86 | 3070 | 4.59 | 60.28 | 13.22 | 0.3658 |
| 87 | 3009 | 4.41 | 58.73 | 12.75 | 0.3303 |
| 88 | 3033 | 8.08 | 60.99 | 13.49 | 0.6650 |
| 89 | 3034 | 4.07 | 57.93 | 13.55 | 0.3195 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 90  | 3075 | 4.41 | 64.52 | 13.41 | 0.3815 |
| 91  | 3094 | 4.31 | 53.59 | 15.41 | 0.3560 |
| 92  | 3039 | 4.01 | 67.65 | 15.12 | 0.4102 |
| 93  | 3050 | 4.82 | 52.29 | 14.04 | 0.3538 |
| 94  | 3052 | 4.65 | 58.26 | 14.28 | 0.3869 |
| 95  | 3065 | 4.25 | 52.27 | 13.91 | 0.3090 |
| 96  | 3056 | 4.6  | 62.43 | 12.53 | 0.3597 |
| 97  | 3064 | 4.39 | 51.47 | 12.14 | 0.2744 |
| 98  | 3041 | 4.59 | 43.81 | 14.95 | 0.3006 |
| 99  | 3079 | 4.28 | 61.77 | 13.24 | 0.3501 |
| 100 | 3047 | 4.45 | 59.22 | 13.85 | 0.3649 |

Date: 27.07.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 11/197**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 1075      | 4.78                 | 53.42              | 14.00        | 0.3575                           |
| 2     | 1005      | 7.19                 | 66.56              | 14.63        | 0.7003                           |
| 3     | 1097      | 7.8                  | 52.87              | 12.67        | 0.5226                           |
| 4     | 1058      | 4.03                 | 58.25              | 13.60        | 0.3192                           |
| 5     | 1083      | 4.47                 | 60.01              | 14.06        | 0.3773                           |
| 6     | 1088      | 4.63                 | 57.76              | 12.88        | 0.3445                           |
| 7     | 1004      | 7.23                 | 62.21              | 12.20        | 0.5488                           |
| 8     | 1015      | 7.26                 | 61.37              | 12.82        | 0.5714                           |
| 9     | 1042      | 6.97                 | 58.21              | 12.23        | 0.4963                           |
| 10    | 1079      | 7.26                 | 58.69              | 12.81        | 0.5460                           |
| 11    | 1060      | 9.03                 | 63.61              | 13.21        | 0.7585                           |
| 12    | 1069      | 8.71                 | 62.61              | 11.24        | 0.6132                           |
| 13    | 1080      | 8.6                  | 59.50              | 13.46        | 0.6889                           |
| 14    | 1027      | 8.71                 | 65.20              | 12.24        | 0.6951                           |
| 15    | 1034      | 9.57                 | 53.74              | 13.44        | 0.6910                           |
| 16    | 1050      | 9.62                 | 59.08              | 13.17        | 0.7484                           |
| 17    | 1051      | 9.14                 | 64.75              | 12.02        | 0.7111                           |
| 18    | 1009      | 8.41                 | 67.64              | 12.39        | 0.7048                           |
| 19    | 1056      | 8.13                 | 53.83              | 11.95        | 0.5228                           |
| 20    | 1038      | 4.76                 | 63.69              | 11.84        | 0.3589                           |
| 21    | 1049      | 7.19                 | 58.69              | 13.32        | 0.5623                           |
| 22    | 1093      | 4.4                  | 57.85              | 14.09        | 0.3586                           |
| 23    | 1098      | 7.42                 | 61.80              | 13.16        | 0.6032                           |
| 24    | 1096      | 7.88                 | 59.34              | 13.14        | 0.6146                           |
| 25    | 1014      | 3.76                 | 63.81              | 13.59        | 0.3260                           |
| 26    | 1074      | 8.2                  | 53.24              | 15.76        | 0.6880                           |
| 27    | 1099      | 7.82                 | 57.04              | 12.89        | 0.5748                           |
| 28    | 1073      | 4.48                 | 60.91              | 13.86        | 0.3781                           |
| 29    | 1018      | 4.63                 | 57.58              | 12.52        | 0.3338                           |
| 30    | 1063      | 7.93                 | 63.58              | 13.01        | 0.6558                           |
| 31    | 1064      | 8.99                 | 64.33              | 13.77        | 0.7965                           |
| 32    | 1076      | 9.37                 | 48.13              | 13.48        | 0.6081                           |
| 33    | 1006      | 8.87                 | 62.31              | 14.19        | 0.7841                           |
| 34    | 1024      | 8.5                  | 70.53              | 12.96        | 0.7769                           |
| 35    | 1026      | 9.3                  | 53.34              | 14.72        | 0.7301                           |
| 36    | 1010      | 7.32                 | 60.19              | 14.17        | 0.6244                           |
| 37    | 1019      | 4.32                 | 58.78              | 13.01        | 0.3305                           |
| 38    | 1032      | 7.86                 | 47.83              | 12.65        | 0.4755                           |
| 39    | 1029      | 7.54                 | 50.12              | 14.55        | 0.5497                           |
| 40    | 1008      | 7.51                 | 59.91              | 14.72        | 0.6624                           |
| 41    | 1068      | 9.13                 | 51.53              | 14.30        | 0.6729                           |
| 42    | 1094      | 8.73                 | 60.33              | 13.38        | 0.7045                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 43 | 1061 | 8.79 | 56.15 | 12.57 | 0.6206 |
| 44 | 1091 | 9.64 | 57.66 | 13.08 | 0.7269 |
| 45 | 1090 | 9.25 | 58.58 | 11.35 | 0.6151 |
| 46 | 1017 | 7.53 | 60.60 | 13.88 | 0.6333 |
| 47 | 1057 | 7.56 | 64.08 | 13.05 | 0.6320 |
| 48 | 1022 | 7.07 | 71.28 | 13.34 | 0.6724 |
| 49 | 1046 | 7.42 | 58.91 | 13.19 | 0.5765 |
| 50 | 1030 | 4.54 | 55.40 | 13.61 | 0.3423 |
| 51 | 1081 | 4.77 | 58.55 | 12.72 | 0.3554 |
| 52 | 1044 | 7.51 | 59.99 | 12.52 | 0.5640 |
| 53 | 1052 | 7.3  | 51.78 | 14.54 | 0.5497 |
| 54 | 1002 | 7.53 | 62.66 | 13.26 | 0.6257 |
| 55 | 1031 | 7.46 | 53.46 | 13.19 | 0.5259 |
| 56 | 1003 | 9.06 | 62.42 | 14.00 | 0.7918 |
| 57 | 1028 | 8.92 | 52.89 | 14.20 | 0.6699 |
| 58 | 1007 | 8.59 | 64.68 | 13.17 | 0.7319 |
| 59 | 1054 | 9.36 | 51.93 | 13.94 | 0.6777 |
| 60 | 1086 | 8.9  | 57.01 | 13.80 | 0.7004 |
| 61 | 1041 | 4.73 | 64.20 | 14.56 | 0.4423 |
| 62 | 1013 | 3.72 | 58.79 | 13.78 | 0.3013 |
| 63 | 1077 | 4.46 | 52.58 | 13.67 | 0.3207 |
| 64 | 1039 | 4.6  | 58.81 | 14.61 | 0.3951 |
| 65 | 1040 | 4.32 | 57.02 | 14.84 | 0.3655 |
| 66 | 1035 | 7.6  | 57.29 | 14.02 | 0.6103 |
| 67 | 1025 | 7.16 | 63.59 | 12.34 | 0.5621 |
| 68 | 1084 | 8.12 | 53.35 | 13.53 | 0.5863 |
| 69 | 1059 | 7.37 | 56.87 | 15.14 | 0.6346 |
| 70 | 1067 | 3.59 | 56.49 | 14.02 | 0.2843 |
| 71 | 1055 | 7.82 | 59.18 | 12.08 | 0.5591 |
| 72 | 1045 | 7.31 | 54.66 | 15.13 | 0.6045 |
| 73 | 1037 | 7.83 | 58.02 | 12.70 | 0.5771 |
| 74 | 1071 | 4.93 | 56.26 | 12.82 | 0.3555 |
| 75 | 1048 | 4.7  | 57.63 | 13.79 | 0.3736 |
| 76 | 1043 | 4.23 | 63.45 | 13.05 | 0.3502 |
| 77 | 1082 | 7.43 | 51.19 | 12.82 | 0.4874 |
| 78 | 1085 | 7.37 | 54.61 | 13.20 | 0.5314 |
| 79 | 1092 | 4.86 | 55.85 | 14.66 | 0.3980 |
| 80 | 1066 | 4.66 | 60.62 | 12.47 | 0.3523 |
| 81 | 1089 | 3.94 | 61.02 | 14.19 | 0.3412 |
| 82 | 1023 | 3.62 | 67.32 | 13.50 | 0.3291 |
| 83 | 1011 | 4.42 | 61.46 | 13.90 | 0.3775 |
| 84 | 1087 | 7.65 | 60.42 | 12.45 | 0.5753 |
| 85 | 1036 | 7.21 | 57.96 | 12.91 | 0.5393 |
| 86 | 1095 | 7.5  | 59.74 | 13.64 | 0.6113 |
| 87 | 1100 | 7.69 | 62.46 | 12.02 | 0.5775 |
| 88 | 1072 | 4.45 | 53.17 | 14.59 | 0.3453 |
| 89 | 1047 | 7.78 | 55.30 | 14.23 | 0.6123 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 90  | 1033 | 7.14 | 52.05 | 14.08 | 0.5234 |
| 91  | 1078 | 7.81 | 54.98 | 12.90 | 0.5537 |
| 92  | 1020 | 3.48 | 60.40 | 13.36 | 0.2808 |
| 93  | 1070 | 4.51 | 55.40 | 14.10 | 0.3522 |
| 94  | 1062 | 5.01 | 57.80 | 13.82 | 0.4003 |
| 95  | 1016 | 4.54 | 53.62 | 14.47 | 0.3523 |
| 96  | 1001 | 7.7  | 65.41 | 13.82 | 0.6961 |
| 97  | 1053 | 7.39 | 58.19 | 14.52 | 0.6245 |
| 98  | 1012 | 4.5  | 50.63 | 14.58 | 0.3321 |
| 99  | 1021 | 3.43 | 65.61 | 12.41 | 0.2792 |
| 100 | 1065 | 2.36 | 50.53 | 13.93 | 0.1661 |

**Name of Division : Pratapgarh-II**

**Challan No. : 14/252**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 1327      | 4.31                 | 66.46              | 13.21        | 0.3784                           |
| 2     | 1324      | 4.42                 | 57.86              | 13.05        | 0.3337                           |
| 3     | 1367      | 7.21                 | 59.99              | 13.05        | 0.5645                           |
| 4     | 1398      | 4.32                 | 58.31              | 13.14        | 0.3309                           |
| 5     | 1395      | 4.3                  | 54.83              | 15.03        | 0.3543                           |
| 6     | 1335      | 7.69                 | 70.81              | 13.12        | 0.7144                           |
| 7     | 1326      | 4.19                 | 63.81              | 12.98        | 0.3469                           |
| 8     | 1345      | 4.38                 | 58.28              | 12.08        | 0.3084                           |
| 9     | 1350      | 7.82                 | 65.43              | 11.49        | 0.5881                           |
| 10    | 1372      | 7.36                 | 66.01              | 13.91        | 0.6756                           |
| 11    | 1383      | 7.34                 | 62.89              | 12.88        | 0.5945                           |
| 12    | 1336      | 4.42                 | 67.86              | 13.34        | 0.4000                           |
| 13    | 1394      | 7.11                 | 64.28              | 12.34        | 0.5638                           |
| 14    | 1320      | 7.2                  | 61.98              | 12.97        | 0.5789                           |
| 15    | 1308      | 4.32                 | 61.08              | 13.93        | 0.3676                           |
| 16    | 1351      | 7.26                 | 55.25              | 12.89        | 0.5169                           |
| 17    | 1318      | 4.35                 | 68.51              | 12.96        | 0.3863                           |
| 18    | 1387      | 7.36                 | 68.22              | 12.24        | 0.6146                           |
| 19    | 1370      | 4.42                 | 56.54              | 13.48        | 0.3368                           |
| 20    | 1314      | 4.36                 | 54.23              | 12.69        | 0.3000                           |
| 21    | 1355      | 7.64                 | 66.22              | 12.68        | 0.6418                           |
| 22    | 1338      | 4.34                 | 65.55              | 11.55        | 0.3285                           |
| 23    | 1334      | 4.67                 | 50.08              | 11.40        | 0.2667                           |
| 24    | 1348      | 4.37                 | 58.37              | 14.22        | 0.3627                           |
| 25    | 1341      | 4.82                 | 68.41              | 13.70        | 0.4516                           |
| 26    | 1331      | 7.41                 | 56.63              | 15.26        | 0.6402                           |
| 27    | 1362      | 4.6                  | 59.19              | 12.10        | 0.3294                           |
| 28    | 1384      | 4.57                 | 70.12              | 12.19        | 0.3907                           |
| 29    | 1306      | 4.6                  | 68.81              | 13.24        | 0.4191                           |
| 30    | 1305      | 7.73                 | 61.55              | 14.65        | 0.6972                           |
| 31    | 1381      | 7.28                 | 64.27              | 13.44        | 0.6290                           |
| 32    | 1319      | 4.52                 | 64.36              | 14.15        | 0.4118                           |
| 33    | 1368      | 7.29                 | 57.55              | 13.01        | 0.5460                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 34 | 1382 | 3.89 | 61.11 | 13.40 | 0.3186 |
| 35 | 1366 | 7.54 | 63.17 | 11.24 | 0.5353 |
| 36 | 1397 | 7.17 | 55.44 | 13.56 | 0.5392 |
| 37 | 1349 | 4.59 | 52.21 | 13.98 | 0.3351 |
| 38 | 1317 | 4.71 | 49.18 | 15.01 | 0.3476 |
| 39 | 1310 | 7.43 | 58.63 | 14.55 | 0.6338 |
| 40 | 1342 | 4.45 | 49.99 | 15.10 | 0.3360 |
| 41 | 1379 | 7.18 | 62.55 | 12.04 | 0.5407 |
| 42 | 1374 | 7.4  | 68.12 | 12.13 | 0.6112 |
| 43 | 1321 | 4.42 | 63.65 | 12.80 | 0.3602 |
| 44 | 1325 | 4.46 | 65.67 | 12.84 | 0.3760 |
| 45 | 1343 | 3.38 | 55.16 | 13.58 | 0.2532 |
| 46 | 1375 | 7.5  | 62.02 | 11.79 | 0.5482 |
| 47 | 1376 | 7.76 | 65.61 | 12.76 | 0.6495 |
| 48 | 1309 | 4.4  | 64.77 | 12.14 | 0.3458 |
| 49 | 1389 | 4.53 | 68.42 | 11.30 | 0.3502 |
| 50 | 1364 | 6.94 | 61.42 | 12.42 | 0.5295 |
| 51 | 1337 | 4.69 | 54.32 | 12.76 | 0.3250 |
| 52 | 1352 | 4.58 | 59.00 | 14.20 | 0.3838 |
| 53 | 1399 | 7.29 | 59.26 | 13.84 | 0.5978 |
| 54 | 1357 | 7.55 | 62.44 | 14.57 | 0.6870 |
| 55 | 1369 | 4.3  | 63.27 | 14.29 | 0.3887 |
| 56 | 1303 | 7.43 | 64.25 | 12.42 | 0.5929 |
| 57 | 1301 | 4.3  | 61.60 | 14.04 | 0.3720 |
| 58 | 1344 | 6.64 | 51.80 | 13.28 | 0.4568 |
| 59 | 1396 | 3.67 | 52.76 | 13.00 | 0.2518 |
| 60 | 1386 | 7.08 | 63.90 | 12.85 | 0.5813 |
| 61 | 1304 | 7.48 | 61.10 | 13.00 | 0.5939 |
| 62 | 1316 | 7.44 | 61.44 | 15.61 | 0.7135 |
| 63 | 1311 | 4.3  | 63.09 | 14.90 | 0.4042 |
| 64 | 1329 | 4.46 | 60.05 | 14.04 | 0.3760 |
| 65 | 1323 | 4.65 | 52.97 | 14.74 | 0.3632 |
| 66 | 1332 | 9.49 | 54.37 | 13.85 | 0.7146 |
| 67 | 1393 | 8.37 | 67.36 | 14.42 | 0.8127 |
| 68 | 1388 | 8.99 | 63.56 | 13.18 | 0.7534 |
| 69 | 1356 | 8.99 | 59.33 | 12.78 | 0.6814 |
| 70 | 1380 | 8.63 | 61.29 | 14.34 | 0.7586 |
| 71 | 1371 | 8.58 | 57.32 | 14.32 | 0.7044 |
| 72 | 1392 | 8.92 | 67.79 | 13.22 | 0.7992 |
| 73 | 1361 | 8.93 | 58.16 | 14.19 | 0.7367 |
| 74 | 1328 | 8.95 | 71.32 | 14.74 | 0.9406 |
| 75 | 1302 | 7.27 | 61.23 | 13.41 | 0.5969 |
| 76 | 1373 | 7.21 | 59.43 | 12.79 | 0.5480 |
| 77 | 1330 | 4.68 | 53.94 | 14.37 | 0.3627 |
| 78 | 1333 | 4.4  | 59.41 | 15.32 | 0.4004 |
| 79 | 1400 | 7.01 | 53.62 | 14.34 | 0.5391 |
| 80 | 1315 | 4.65 | 51.94 | 15.15 | 0.3660 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 81  | 1363 | 7.17 | 56.00 | 13.30 | 0.5342 |
| 82  | 1340 | 4.58 | 53.84 | 13.39 | 0.3302 |
| 83  | 1322 | 8.33 | 65.43 | 14.93 | 0.8138 |
| 84  | 1360 | 9.15 | 57.08 | 15.26 | 0.7970 |
| 85  | 1377 | 9.36 | 59.74 | 13.48 | 0.7535 |
| 86  | 1307 | 4.22 | 60.91 | 13.59 | 0.3494 |
| 87  | 1347 | 7.49 | 60.80 | 13.42 | 0.6112 |
| 88  | 1385 | 4.46 | 52.70 | 14.16 | 0.3327 |
| 89  | 1339 | 4.58 | 63.23 | 13.16 | 0.3811 |
| 90  | 1313 | 7.53 | 58.02 | 14.36 | 0.6272 |
| 91  | 1312 | 7.34 | 59.01 | 13.00 | 0.5630 |
| 92  | 1378 | 7.29 | 60.66 | 14.42 | 0.6379 |
| 93  | 1359 | 7.3  | 59.77 | 12.70 | 0.5541 |
| 94  | 1365 | 7.76 | 51.55 | 15.58 | 0.6231 |
| 95  | 1353 | 8.82 | 55.13 | 12.97 | 0.6306 |
| 96  | 1358 | 9.45 | 67.06 | 12.88 | 0.8165 |
| 97  | 1391 | 8.12 | 59.17 | 14.48 | 0.6959 |
| 98  | 1354 | 9.02 | 55.97 | 13.06 | 0.6594 |
| 99  | 1390 | 8.65 | 65.12 | 13.51 | 0.7612 |
| 100 | 1346 | 8.74 | 39.69 | 11.24 | 0.3898 |

**Name of Division : Pratapgarh-II**

**Challan No. : 24/392**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 2352      | 5.26                 | 61.79              | 12.51        | 0.4066                           |
| 2     | 2319      | 7.82                 | 59.16              | 14.57        | 0.6741                           |
| 3     | 2371      | 4.87                 | 59.73              | 13.29        | 0.3867                           |
| 4     | 2377      | 8.49                 | 60.20              | 13.37        | 0.6834                           |
| 5     | 2373      | 4.68                 | 61.78              | 12.48        | 0.3608                           |
| 6     | 2334      | 4.91                 | 50.70              | 13.67        | 0.3403                           |
| 7     | 2338      | 4.76                 | 59.77              | 14.10        | 0.4013                           |
| 8     | 2303      | 5.63                 | 58.43              | 11.50        | 0.3783                           |
| 9     | 2323      | 7.74                 | 58.98              | 13.53        | 0.6177                           |
| 10    | 2301      | 9.6                  | 61.14              | 12.99        | 0.7622                           |
| 11    | 2398      | 4.28                 | 55.66              | 14.55        | 0.3467                           |
| 12    | 2381      | 7.76                 | 63.75              | 13.19        | 0.6526                           |
| 13    | 2372      | 4.72                 | 61.82              | 12.73        | 0.3715                           |
| 14    | 2324      | 7.91                 | 56.62              | 11.85        | 0.5308                           |
| 15    | 2394      | 4.06                 | 46.41              | 13.94        | 0.2627                           |
| 16    | 2382      | 9.69                 | 58.60              | 12.35        | 0.7016                           |
| 17    | 2390      | 9.92                 | 67.78              | 13.54        | 0.9107                           |
| 18    | 2362      | 9.6                  | 67.40              | 14.93        | 0.9658                           |
| 19    | 2378      | 9.66                 | 62.98              | 11.91        | 0.7245                           |
| 20    | 2346      | 9.46                 | 64.16              | 12.44        | 0.7549                           |
| 21    | 2309      | 7.63                 | 58.20              | 12.06        | 0.5356                           |
| 22    | 2386      | 8.18                 | 68.67              | 14.80        | 0.8311                           |
| 23    | 2364      | 4.8                  | 61.41              | 12.93        | 0.3811                           |
| 24    | 2349      | 4.89                 | 59.90              | 12.90        | 0.3780                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 25 | 2389 | 4.92 | 70.74 | 12.41 | 0.4320 |
| 26 | 2327 | 4.76 | 54.58 | 12.50 | 0.3246 |
| 27 | 2332 | 3.79 | 50.01 | 14.92 | 0.2827 |
| 28 | 2317 | 7.63 | 58.94 | 12.23 | 0.5501 |
| 29 | 2367 | 8.18 | 66.41 | 13.13 | 0.7133 |
| 30 | 2376 | 5.17 | 60.12 | 12.67 | 0.3940 |
| 31 | 2333 | 4.77 | 53.22 | 13.23 | 0.3358 |
| 32 | 2383 | 4.79 | 61.30 | 11.86 | 0.3482 |
| 33 | 2321 | 4.91 | 59.12 | 10.62 | 0.3083 |
| 34 | 2359 | 4.77 | 58.51 | 12.46 | 0.3477 |
| 35 | 2302 | 4.8  | 63.04 | 13.96 | 0.4224 |
| 36 | 2363 | 9.67 | 61.85 | 12.34 | 0.7378 |
| 37 | 2347 | 9.2  | 54.91 | 13.48 | 0.6808 |
| 38 | 2366 | 9.68 | 59.79 | 13.68 | 0.7918 |
| 39 | 2305 | 9.19 | 51.98 | 12.91 | 0.6166 |
| 40 | 2368 | 9.9  | 64.39 | 14.29 | 0.9108 |
| 41 | 2361 | 9.05 | 62.62 | 12.04 | 0.6824 |
| 42 | 2343 | 9.34 | 57.23 | 12.93 | 0.6912 |
| 43 | 2328 | 9.64 | 60.20 | 12.31 | 0.7143 |
| 44 | 2330 | 10.1 | 57.42 | 12.57 | 0.7292 |
| 45 | 2325 | 9.87 | 60.90 | 13.99 | 0.8409 |
| 46 | 2387 | 8.04 | 66.48 | 12.92 | 0.6906 |
| 47 | 2351 | 8.05 | 63.26 | 12.76 | 0.6496 |
| 48 | 2337 | 4.85 | 54.54 | 10.91 | 0.2886 |
| 49 | 2355 | 7.97 | 61.68 | 12.21 | 0.6001 |
| 50 | 2354 | 7.91 | 64.16 | 13.19 | 0.6692 |
| 51 | 2336 | 7.87 | 57.25 | 13.90 | 0.6265 |
| 52 | 2370 | 4.9  | 57.27 | 11.40 | 0.3200 |
| 53 | 2320 | 4.91 | 60.86 | 12.29 | 0.3673 |
| 54 | 2339 | 4.83 | 57.47 | 13.73 | 0.3811 |
| 55 | 2306 | 4.27 | 57.72 | 12.99 | 0.3203 |
| 56 | 2310 | 7.64 | 44.79 | 14.38 | 0.4920 |
| 57 | 2348 | 7.92 | 63.40 | 14.15 | 0.7104 |
| 58 | 2357 | 4.7  | 57.67 | 13.65 | 0.3699 |
| 59 | 2341 | 3.86 | 57.09 | 15.71 | 0.3462 |
| 60 | 2365 | 5.08 | 64.07 | 14.25 | 0.4638 |
| 61 | 2304 | 5.06 | 69.05 | 12.96 | 0.4529 |
| 62 | 2316 | 7.95 | 52.48 | 14.39 | 0.6002 |
| 63 | 2384 | 8.25 | 63.74 | 14.95 | 0.7862 |
| 64 | 2379 | 4.05 | 55.52 | 15.36 | 0.3455 |
| 65 | 2393 | 4.85 | 69.40 | 13.13 | 0.4418 |
| 66 | 2314 | 4.66 | 51.80 | 15.54 | 0.3751 |
| 67 | 2385 | 5.08 | 62.03 | 13.86 | 0.4369 |
| 68 | 2350 | 8.46 | 56.30 | 12.79 | 0.6091 |
| 69 | 2313 | 7.94 | 57.24 | 13.23 | 0.6011 |
| 70 | 2322 | 9.29 | 56.04 | 15.13 | 0.7878 |
| 71 | 2400 | 7    | 56.39 | 14.59 | 0.5761 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 72  | 2311 | 4.75 | 55.65 | 13.53 | 0.3577 |
| 73  | 2307 | 4.44 | 47.10 | 14.12 | 0.2953 |
| 74  | 2396 | 6.96 | 59.94 | 13.05 | 0.5443 |
| 75  | 2312 | 7.78 | 55.54 | 12.77 | 0.5516 |
| 76  | 2335 | 7.83 | 58.39 | 14.35 | 0.6562 |
| 77  | 2345 | 8.3  | 55.38 | 12.31 | 0.5661 |
| 78  | 2395 | 6.93 | 48.08 | 12.94 | 0.4310 |
| 79  | 2358 | 8.04 | 58.83 | 14.13 | 0.6681 |
| 80  | 2391 | 4.81 | 63.94 | 12.89 | 0.3963 |
| 81  | 2369 | 8.34 | 57.86 | 11.80 | 0.5696 |
| 82  | 2329 | 7.83 | 54.53 | 15.07 | 0.6436 |
| 83  | 2326 | 4.68 | 54.22 | 15.92 | 0.4039 |
| 84  | 2318 | 7.85 | 57.31 | 12.55 | 0.5644 |
| 85  | 2340 | 7.91 | 54.51 | 12.58 | 0.5426 |
| 86  | 2356 | 8.01 | 57.34 | 11.39 | 0.5231 |
| 87  | 2315 | 7.8  | 54.82 | 13.97 | 0.5975 |
| 88  | 2399 | 4.19 | 62.67 | 14.28 | 0.3750 |
| 89  | 2308 | 7.99 | 52.81 | 13.12 | 0.5537 |
| 90  | 2375 | 7.77 | 51.10 | 15.09 | 0.5991 |
| 91  | 2380 | 4.81 | 50.50 | 14.63 | 0.3555 |
| 92  | 2388 | 8.19 | 62.00 | 13.35 | 0.6781 |
| 93  | 2342 | 5    | 59.38 | 12.88 | 0.3825 |
| 94  | 2374 | 4.17 | 49.77 | 14.51 | 0.3011 |
| 95  | 2397 | 4.28 | 55.69 | 14.51 | 0.3458 |
| 96  | 2360 | 4.84 | 54.33 | 13.88 | 0.3649 |
| 97  | 2331 | 5.1  | 49.13 | 13.35 | 0.3346 |
| 98  | 2392 | 3.9  | 65.83 | 13.50 | 0.3467 |
| 99  | 2353 | 8.3  | 60.16 | 12.58 | 0.6283 |
| 100 | 2344 | 4.83 | 58.86 | 13.18 | 0.3748 |

Date: 26.07.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 01/54**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 19        | 4.53                 | 56.52              | 13.02        | 0.3334                           |
| 2     | 24        | 4.55                 | 62.09              | 13.05        | 0.3686                           |
| 3     | 3         | 8.07                 | 58.55              | 13.37        | 0.6319                           |
| 4     | 11        | 4.57                 | 59.33              | 13.16        | 0.3569                           |
| 5     | 45        | 8.11                 | 61.23              | 14.08        | 0.6991                           |
| 6     | 38        | 4.77                 | 60.72              | 14.10        | 0.4083                           |
| 7     | 7         | 7.53                 | 52.13              | 14.62        | 0.5738                           |
| 8     | 68        | 7.93                 | 55.17              | 14.61        | 0.6392                           |
| 9     | 49        | 7.44                 | 61.16              | 13.15        | 0.5982                           |
| 10    | 48        | 7.9                  | 51.88              | 15.79        | 0.6470                           |
| 11    | 26        | 4.62                 | 62.23              | 12.13        | 0.3488                           |
| 12    | 82        | 7.92                 | 61.38              | 13.96        | 0.6787                           |
| 13    | 70        | 7.7                  | 60.28              | 13.97        | 0.6483                           |
| 14    | 21        | 4.5                  | 58.71              | 14.24        | 0.3762                           |
| 15    | 80        | 7.91                 | 55.80              | 13.42        | 0.5925                           |
| 16    | 99        | 7.79                 | 58.73              | 14.44        | 0.6606                           |
| 17    | 23        | 7.77                 | 62.02              | 14.04        | 0.6768                           |
| 18    | 5         | 8.08                 | 58.46              | 13.99        | 0.6609                           |
| 19    | 84        | 7.64                 | 66.45              | 13.91        | 0.7059                           |
| 20    | 100       | 7.38                 | 59.73              | 13.49        | 0.5948                           |
| 21    | 95        | 7.58                 | 59.56              | 14.19        | 0.6405                           |
| 22    | 39        | 7.58                 | 55.16              | 14.67        | 0.6132                           |
| 23    | 22        | 7.39                 | 57.13              | 14.34        | 0.6052                           |
| 24    | 8         | 7.63                 | 66.18              | 13.04        | 0.6585                           |
| 25    | 14        | 7.84                 | 58.70              | 13.70        | 0.6303                           |
| 26    | 97        | 4.45                 | 61.80              | 12.62        | 0.3471                           |
| 27    | 53        | 7.68                 | 52.65              | 14.80        | 0.5983                           |
| 28    | 9         | 8.05                 | 55.22              | 13.73        | 0.6102                           |
| 29    | 55        | 7.64                 | 51.98              | 13.49        | 0.5356                           |
| 30    | 62        | 7.94                 | 58.82              | 13.58        | 0.6344                           |
| 31    | 88        | 9.29                 | 60.78              | 14.56        | 0.8222                           |
| 32    | 93        | 9.12                 | 63.21              | 12.70        | 0.7323                           |
| 33    | 73        | 8.75                 | 59.85              | 12.88        | 0.6746                           |
| 34    | 87        | 9.44                 | 58.50              | 13.81        | 0.7628                           |
| 35    | 25        | 9.43                 | 65.97              | 12.52        | 0.7789                           |
| 36    | 69        | 8.95                 | 55.80              | 13.21        | 0.6596                           |
| 37    | 94        | 9.27                 | 60.30              | 12.55        | 0.7017                           |
| 38    | 29        | 9.38                 | 63.56              | 12.29        | 0.7326                           |
| 39    | 4         | 9.31                 | 64.31              | 13.59        | 0.8137                           |
| 40    | 96        | 9.2                  | 58.93              | 12.91        | 0.7001                           |
| 41    | 75        | 4.8                  | 55.01              | 13.25        | 0.3499                           |
| 42    | 31        | 7.72                 | 60.43              | 14.03        | 0.6547                           |



|    |    |      |       |       |        |
|----|----|------|-------|-------|--------|
| 43 | 13 | 7.56 | 59.27 | 14.83 | 0.6645 |
| 44 | 63 | 7.6  | 62.08 | 10.84 | 0.5115 |
| 45 | 79 | 7.6  | 59.12 | 13.60 | 0.6110 |
| 46 | 12 | 4.87 | 56.78 | 14.88 | 0.4115 |
| 47 | 43 | 7.52 | 65.71 | 14.12 | 0.6979 |
| 48 | 56 | 7.67 | 54.65 | 10.34 | 0.4334 |
| 49 | 33 | 4.56 | 61.56 | 13.53 | 0.3798 |
| 50 | 74 | 4.27 | 55.56 | 14.52 | 0.3446 |
| 51 | 61 | 7.6  | 59.63 | 13.52 | 0.6126 |
| 52 | 59 | 8.01 | 60.56 | 14.48 | 0.7025 |
| 53 | 72 | 7.86 | 45.99 | 14.42 | 0.5211 |
| 54 | 51 | 7.8  | 63.65 | 10.68 | 0.5304 |
| 55 | 16 | 4.77 | 59.80 | 15.67 | 0.4469 |
| 56 | 41 | 9.01 | 47.51 | 14.65 | 0.6271 |
| 57 | 37 | 9.16 | 46.32 | 15.13 | 0.6421 |
| 58 | 27 | 9.32 | 56.48 | 12.61 | 0.6636 |
| 59 | 10 | 9.43 | 60.64 | 12.02 | 0.6874 |
| 60 | 67 | 6.42 | 61.64 | 12.51 | 0.4950 |
| 61 | 81 | 9.22 | 62.60 | 12.60 | 0.7275 |
| 62 | 52 | 9.09 | 56.86 | 14.02 | 0.7245 |
| 63 | 28 | 8.79 | 63.96 | 14.46 | 0.8131 |
| 64 | 44 | 9.27 | 60.03 | 14.53 | 0.8083 |
| 65 | 30 | 9.37 | 62.19 | 13.22 | 0.7702 |
| 66 | 76 | 8.99 | 53.12 | 12.80 | 0.6113 |
| 67 | 32 | 9.31 | 62.49 | 12.82 | 0.7457 |
| 68 | 64 | 9.2  | 63.59 | 11.62 | 0.6799 |
| 69 | 85 | 9.27 | 59.41 | 13.30 | 0.7323 |
| 70 | 36 | 9.47 | 51.01 | 14.33 | 0.6923 |
| 71 | 42 | 9.4  | 59.72 | 13.21 | 0.7417 |
| 72 | 86 | 9.52 | 63.78 | 13.45 | 0.8168 |
| 73 | 18 | 9.02 | 64.18 | 12.96 | 0.7505 |
| 74 | 50 | 9.2  | 52.60 | 14.30 | 0.6918 |
| 75 | 35 | 9.16 | 48.04 | 14.74 | 0.6485 |
| 76 | 47 | 9.12 | 51.41 | 15.23 | 0.7141 |
| 77 | 77 | 9.17 | 55.32 | 13.56 | 0.6877 |
| 78 | 92 | 9.31 | 60.72 | 11.94 | 0.6750 |
| 79 | 17 | 4.87 | 60.61 | 15.20 | 0.4485 |
| 80 | 46 | 7.84 | 56.76 | 11.66 | 0.5190 |
| 81 | 71 | 9.11 | 52.10 | 15.28 | 0.7252 |
| 82 | 54 | 9.17 | 50.98 | 14.81 | 0.6923 |
| 83 | 40 | 9.58 | 48.90 | 14.68 | 0.6878 |
| 84 | 20 | 9.01 | 55.80 | 15.20 | 0.7640 |
| 85 | 58 | 9.11 | 56.40 | 14.63 | 0.7516 |
| 86 | 57 | 8.84 | 60.92 | 13.49 | 0.7266 |
| 87 | 65 | 8.41 | 49.52 | 15.19 | 0.6324 |
| 88 | 34 | 9.35 | 47.05 | 14.79 | 0.6508 |
| 89 | 89 | 9.34 | 61.65 | 12.65 | 0.7285 |

|     |    |      |       |       |        |
|-----|----|------|-------|-------|--------|
| 90  | 2  | 9.17 | 57.47 | 13.21 | 0.6960 |
| 91  | 1  | 9.48 | 63.90 | 11.08 | 0.6712 |
| 92  | 6  | 9.36 | 61.23 | 13.80 | 0.7909 |
| 93  | 60 | 9.61 | 61.98 | 13.79 | 0.8217 |
| 94  | 78 | 9.04 | 63.25 | 12.08 | 0.6907 |
| 95  | 15 | 8.83 | 65.26 | 12.76 | 0.7355 |
| 96  | 98 | 4.78 | 68.34 | 13.26 | 0.4331 |
| 97  | 66 | 4.36 | 51.60 | 11.20 | 0.2520 |
| 98  | 90 | 4.6  | 59.00 | 14.44 | 0.3919 |
| 99  | 83 | 7.65 | 57.53 | 14.18 | 0.6242 |
| 100 | 91 | 7.52 | 63.66 | 13.01 | 0.6227 |

Date: 25.07.2022

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 21/328**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 2034      | 4.61                 | 58.99              | 13.95        | 0.3794                           |
| 2     | 2100      | 7.32                 | 64.69              | 13.74        | 0.6507                           |
| 3     | 2089      | 4.47                 | 60.65              | 14.23        | 0.3858                           |
| 4     | 2041      | 7.31                 | 65.55              | 13.09        | 0.6272                           |
| 5     | 2061      | 4.32                 | 70.69              | 13.13        | 0.4009                           |
| 6     | 2081      | 6.82                 | 50.50              | 14.30        | 0.4924                           |
| 7     | 2033      | 7.26                 | 64.08              | 13.20        | 0.6142                           |
| 8     | 2075      | 4.56                 | 61.85              | 12.84        | 0.3621                           |
| 9     | 2002      | 4.63                 | 52.53              | 14.91        | 0.3625                           |
| 10    | 2051      | 4.41                 | 58.92              | 13.07        | 0.3396                           |
| 11    | 2021      | 4.66                 | 64.16              | 12.84        | 0.3840                           |
| 12    | 2052      | 7.51                 | 68.82              | 12.58        | 0.6504                           |
| 13    | 2095      | 4.21                 | 60.59              | 13.40        | 0.3419                           |
| 14    | 2054      | 7.35                 | 68.80              | 13.17        | 0.6659                           |
| 15    | 2099      | 7.12                 | 57.24              | 14.26        | 0.5810                           |
| 16    | 2012      | 7.44                 | 65.31              | 13.06        | 0.6346                           |
| 17    | 2097      | 4.36                 | 58.68              | 13.68        | 0.3501                           |
| 18    | 2026      | 7.59                 | 63.08              | 11.54        | 0.5526                           |
| 19    | 2038      | 7.16                 | 63.26              | 12.47        | 0.5649                           |
| 20    | 2074      | 9.33                 | 69.09              | 14.00        | 0.9022                           |
| 21    | 2035      | 8.93                 | 58.33              | 14.04        | 0.7314                           |
| 22    | 2025      | 7.52                 | 69.97              | 13.41        | 0.7054                           |
| 23    | 2028      | 4.63                 | 64.40              | 13.32        | 0.3973                           |
| 24    | 2030      | 4.44                 | 63.70              | 13.11        | 0.3707                           |
| 25    | 2064      | 7.53                 | 69.83              | 12.80        | 0.6732                           |
| 26    | 2062      | 4.36                 | 65.57              | 12.87        | 0.3680                           |
| 27    | 2065      | 7.29                 | 63.71              | 12.24        | 0.5686                           |
| 28    | 2045      | 7.43                 | 65.79              | 13.63        | 0.6665                           |
| 29    | 2096      | 7.03                 | 61.60              | 13.18        | 0.5708                           |
| 30    | 2029      | 7.42                 | 66.04              | 13.52        | 0.6626                           |
| 31    | 2057      | 7.52                 | 66.86              | 12.65        | 0.6362                           |
| 32    | 2077      | 7.61                 | 68.33              | 13.61        | 0.7077                           |
| 33    | 2091      | 7.1                  | 64.93              | 12.95        | 0.5971                           |
| 34    | 2079      | 4.21                 | 56.02              | 12.30        | 0.2901                           |
| 35    | 2098      | 3.95                 | 57.64              | 12.96        | 0.2951                           |
| 36    | 2006      | 4.02                 | 65.99              | 12.17        | 0.3228                           |
| 37    | 2068      | 9.14                 | 65.96              | 14.02        | 0.8455                           |
| 38    | 2053      | 8.64                 | 60.29              | 13.42        | 0.6990                           |
| 39    | 2032      | 7.76                 | 67.00              | 14.48        | 0.7527                           |
| 40    | 2088      | 7.04                 | 56.59              | 14.21        | 0.5660                           |
| 41    | 2036      | 8.68                 | 62.37              | 12.03        | 0.6510                           |
| 42    | 2005      | 8.52                 | 67.40              | 11.99        | 0.6884                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 43 | 2007 | 8.54 | 67.60 | 14.50 | 0.8369 |
| 44 | 2040 | 8.78 | 61.83 | 12.84 | 0.6971 |
| 45 | 2011 | 9.51 | 66.53 | 13.29 | 0.8407 |
| 46 | 2020 | 8.49 | 69.32 | 13.39 | 0.7879 |
| 47 | 2093 | 8.54 | 53.40 | 14.10 | 0.6431 |
| 48 | 2086 | 8.53 | 62.96 | 13.75 | 0.7387 |
| 49 | 2009 | 8.46 | 65.06 | 14.29 | 0.7868 |
| 50 | 2067 | 9.08 | 68.86 | 12.87 | 0.8045 |
| 51 | 2094 | 8.93 | 57.56 | 7.84  | 0.4027 |
| 52 | 2013 | 4.44 | 66.30 | 11.04 | 0.3250 |
| 53 | 2084 | 4.36 | 60.13 | 12.46 | 0.3266 |
| 54 | 2076 | 4.41 | 71.65 | 12.84 | 0.4057 |
| 55 | 2083 | 4.23 | 56.08 | 12.86 | 0.3050 |
| 56 | 2085 | 6.68 | 61.83 | 12.45 | 0.5144 |
| 57 | 2049 | 4.74 | 59.07 | 13.37 | 0.3745 |
| 58 | 2090 | 4.34 | 64.68 | 6.96  | 0.1953 |
| 59 | 2023 | 4.46 | 58.09 | 14.46 | 0.3746 |
| 60 | 2060 | 8.87 | 58.57 | 12.33 | 0.6404 |
| 61 | 2092 | 8.49 | 62.89 | 13.02 | 0.6953 |
| 62 | 2047 | 8.77 | 62.19 | 13.44 | 0.7332 |
| 63 | 2022 | 8.67 | 68.81 | 12.27 | 0.7317 |
| 64 | 2055 | 8.76 | 70.09 | 12.03 | 0.7385 |
| 65 | 2050 | 9.21 | 64.85 | 14.05 | 0.8390 |
| 66 | 2018 | 4.38 | 62.37 | 13.02 | 0.3557 |
| 67 | 2004 | 7.45 | 62.15 | 13.64 | 0.6318 |
| 68 | 2024 | 7.44 | 68.09 | 11.60 | 0.5878 |
| 69 | 2001 | 6.1  | 63.66 | 14.15 | 0.5496 |
| 70 | 2044 | 7.39 | 61.26 | 13.92 | 0.6304 |
| 71 | 2037 | 8.88 | 59.89 | 13.54 | 0.7202 |
| 72 | 2069 | 8.88 | 68.50 | 11.65 | 0.7086 |
| 73 | 2031 | 9.04 | 68.50 | 13.26 | 0.8208 |
| 74 | 2070 | 9.09 | 68.54 | 11.28 | 0.7027 |
| 75 | 2039 | 4.58 | 59.80 | 13.33 | 0.3650 |
| 76 | 2003 | 7.39 | 63.21 | 14.14 | 0.6607 |
| 77 | 2072 | 7.64 | 58.75 | 14.50 | 0.6509 |
| 78 | 2015 | 4.57 | 59.71 | 13.77 | 0.3757 |
| 79 | 2059 | 7.51 | 63.66 | 13.10 | 0.6263 |
| 80 | 2080 | 7.01 | 53.67 | 13.81 | 0.5194 |
| 81 | 2066 | 7.26 | 64.74 | 13.64 | 0.6411 |
| 82 | 2046 | 7.42 | 64.50 | 14.26 | 0.6826 |
| 83 | 2010 | 7.48 | 59.15 | 14.88 | 0.6582 |
| 84 | 2056 | 7.53 | 66.94 | 13.37 | 0.6739 |
| 85 | 2087 | 4.39 | 58.43 | 14.19 | 0.3639 |
| 86 | 2014 | 7.47 | 64.04 | 12.60 | 0.6028 |
| 87 | 2071 | 7.8  | 58.33 | 13.96 | 0.6349 |
| 88 | 2063 | 6.76 | 62.62 | 13.45 | 0.5692 |
| 89 | 2082 | 7.09 | 56.29 | 13.66 | 0.5452 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 90  | 2042 | 4.59 | 67.88 | 11.00 | 0.3429 |
| 91  | 2017 | 7.37 | 61.72 | 13.08 | 0.5948 |
| 92  | 2078 | 6.91 | 61.10 | 11.72 | 0.4948 |
| 93  | 2027 | 7.36 | 68.75 | 12.13 | 0.6138 |
| 94  | 2008 | 7.23 | 64.51 | 12.54 | 0.5849 |
| 95  | 2043 | 4.43 | 65.23 | 12.89 | 0.3726 |
| 96  | 2058 | 9.06 | 57.93 | 14.50 | 0.7610 |
| 97  | 2019 | 8.24 | 64.51 | 14.94 | 0.7943 |
| 98  | 2073 | 8.77 | 55.18 | 14.86 | 0.7191 |
| 99  | 2048 | 8.46 | 59.31 | 15.21 | 0.7631 |
| 100 | 2016 | 8.97 | 66.25 | 13.81 | 0.8208 |

Date: 23.07.2022

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 04/57**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 385       | 8.92                 | 58.82              | 13.41        | 0.7038                           |
| 2     | 318       | 9.45                 | 46.22              | 14.32        | 0.6256                           |
| 3     | 352       | 8.85                 | 67.31              | 13.52        | 0.8053                           |
| 4     | 308       | 9.19                 | 50.12              | 13.73        | 0.6323                           |
| 5     | 349       | 8.38                 | 61.09              | 14.06        | 0.7198                           |
| 6     | 355       | 9.23                 | 63.14              | 13.43        | 0.7827                           |
| 7     | 321       | 9.12                 | 54.10              | 14.03        | 0.6922                           |
| 8     | 362       | 9.69                 | 57.10              | 13.13        | 0.7267                           |
| 9     | 343       | 9.09                 | 59.76              | 14.59        | 0.7926                           |
| 10    | 302       | 9.39                 | 55.59              | 14.10        | 0.7362                           |
| 11    | 337       | 8.82                 | 60.70              | 13.56        | 0.7259                           |
| 12    | 366       | 9.31                 | 57.02              | 14.42        | 0.7653                           |
| 13    | 388       | 8.8                  | 58.20              | 12.63        | 0.6468                           |
| 14    | 393       | 8.93                 | 58.74              | 12.21        | 0.6403                           |
| 15    | 378       | 9.78                 | 64.14              | 12.11        | 0.7599                           |
| 16    | 317       | 9.12                 | 50.20              | 13.39        | 0.6129                           |
| 17    | 377       | 9.01                 | 59.28              | 14.74        | 0.7875                           |
| 18    | 322       | 9.21                 | 52.63              | 14.23        | 0.6898                           |
| 19    | 364       | 9.31                 | 55.26              | 13.88        | 0.7141                           |
| 20    | 333       | 8.37                 | 61.80              | 14.29        | 0.7391                           |
| 21    | 346       | 8.9                  | 59.04              | 12.47        | 0.6550                           |
| 22    | 353       | 8.95                 | 67.96              | 10.64        | 0.6471                           |
| 23    | 325       | 7.95                 | 59.91              | 12.70        | 0.6050                           |
| 24    | 324       | 8.92                 | 53.05              | 14.78        | 0.6993                           |
| 25    | 347       | 8.3                  | 64.59              | 13.86        | 0.7428                           |
| 26    | 313       | 9.07                 | 54.53              | 13.46        | 0.6657                           |
| 27    | 359       | 9.03                 | 54.98              | 14.22        | 0.7061                           |
| 28    | 371       | 9.7                  | 65.66              | 15.46        | 0.9846                           |
| 29    | 374       | 4.79                 | 50.44              | 15.13        | 0.3655                           |
| 30    | 341       | 4.56                 | 55.18              | 15.11        | 0.3803                           |
| 31    | 306       | 7.98                 | 57.81              | 14.56        | 0.6719                           |
| 32    | 370       | 9.16                 | 60.66              | 13.80        | 0.7667                           |
| 33    | 369       | 9.5                  | 59.79              | 12.88        | 0.7315                           |
| 34    | 323       | 8.39                 | 54.91              | 12.93        | 0.5957                           |
| 35    | 397       | 9.05                 | 60.91              | 13.28        | 0.7321                           |
| 36    | 304       | 5.03                 | 58.43              | 12.65        | 0.3717                           |
| 37    | 384       | 8.15                 | 62.29              | 13.15        | 0.6675                           |
| 38    | 328       | 4.26                 | 64.81              | 13.19        | 0.3642                           |
| 39    | 360       | 8.35                 | 54.10              | 14.45        | 0.6530                           |
| 40    | 335       | 7.21                 | 63.80              | 15.11        | 0.6950                           |
| 41    | 342       | 4.48                 | 66.18              | 11.67        | 0.3459                           |
| 42    | 345       | 7.1                  | 59.66              | 12.00        | 0.5084                           |

|    |     |      |       |       |        |
|----|-----|------|-------|-------|--------|
| 43 | 350 | 7.65 | 66.60 | 12.97 | 0.6610 |
| 44 | 309 | 5.05 | 56.23 | 14.10 | 0.4005 |
| 45 | 301 | 7.46 | 52.23 | 14.21 | 0.5535 |
| 46 | 327 | 7.31 | 61.91 | 14.39 | 0.6513 |
| 47 | 307 | 7.62 | 56.17 | 12.75 | 0.5456 |
| 48 | 315 | 7.57 | 48.45 | 15.75 | 0.5776 |
| 49 | 379 | 8.14 | 66.94 | 11.68 | 0.6365 |
| 50 | 396 | 7.71 | 62.43 | 11.28 | 0.5428 |
| 51 | 373 | 8    | 51.04 | 13.38 | 0.5464 |
| 52 | 357 | 4.52 | 62.97 | 13.39 | 0.3810 |
| 53 | 398 | 6.98 | 57.04 | 12.22 | 0.4865 |
| 54 | 330 | 4.29 | 59.62 | 14.59 | 0.3732 |
| 55 | 391 | 7.21 | 53.89 | 15.03 | 0.5840 |
| 56 | 316 | 8.22 | 54.39 | 12.28 | 0.5491 |
| 57 | 367 | 3.97 | 62.33 | 11.92 | 0.2950 |
| 58 | 305 | 7.53 | 50.74 | 12.51 | 0.4782 |
| 59 | 326 | 7.44 | 46.27 | 14.09 | 0.4851 |
| 60 | 303 | 7.65 | 50.36 | 12.49 | 0.4812 |
| 61 | 381 | 9.38 | 59.38 | 15.22 | 0.8480 |
| 62 | 380 | 9.17 | 56.23 | 13.75 | 0.7088 |
| 63 | 395 | 8.86 | 66.31 | 13.96 | 0.8204 |
| 64 | 394 | 9.14 | 59.21 | 14.15 | 0.7659 |
| 65 | 348 | 8.81 | 64.64 | 14.28 | 0.8132 |
| 66 | 312 | 7.95 | 48.94 | 14.24 | 0.5541 |
| 67 | 363 | 7.59 | 56.46 | 13.94 | 0.5973 |
| 68 | 375 | 8    | 62.91 | 12.05 | 0.6064 |
| 69 | 340 | 7.12 | 66.99 | 15.14 | 0.7220 |
| 70 | 331 | 7.65 | 67.46 | 14.10 | 0.7275 |
| 71 | 361 | 4.07 | 50.00 | 15.68 | 0.3191 |
| 72 | 376 | 8.32 | 62.15 | 12.92 | 0.6681 |
| 73 | 338 | 6.37 | 60.65 | 12.65 | 0.4886 |
| 74 | 389 | 4.36 | 59.23 | 13.20 | 0.3410 |
| 75 | 320 | 7.45 | 55.44 | 12.28 | 0.5073 |
| 76 | 339 | 7.16 | 71.77 | 13.40 | 0.6888 |
| 77 | 399 | 7.43 | 58.88 | 13.79 | 0.6033 |
| 78 | 311 | 8.14 | 60.09 | 12.45 | 0.6089 |
| 79 | 392 | 7.55 | 59.42 | 12.86 | 0.5768 |
| 80 | 336 | 7.5  | 65.48 | 13.82 | 0.6788 |
| 81 | 351 | 7.24 | 68.29 | 12.97 | 0.6415 |
| 82 | 334 | 4.52 | 62.93 | 13.32 | 0.3788 |
| 83 | 344 | 7.46 | 62.10 | 12.98 | 0.6013 |
| 84 | 368 | 4.5  | 64.21 | 13.66 | 0.3947 |
| 85 | 329 | 7.12 | 62.40 | 13.40 | 0.5952 |
| 86 | 390 | 9.11 | 62.05 | 7.11  | 0.4018 |
| 87 | 382 | 9.27 | 55.64 | 13.59 | 0.7008 |
| 88 | 314 | 8.81 | 45.29 | 14.31 | 0.5709 |
| 89 | 354 | 8.55 | 69.42 | 15.44 | 0.9166 |

|     |     |      |       |       |        |
|-----|-----|------|-------|-------|--------|
| 90  | 372 | 9.51 | 52.45 | 13.21 | 0.6590 |
| 91  | 332 | 8.53 | 57.09 | 13.65 | 0.6645 |
| 92  | 310 | 9.06 | 45.28 | 12.77 | 0.5237 |
| 93  | 400 | 8.05 | 53.36 | 13.92 | 0.5981 |
| 94  | 358 | 8.67 | 48.67 | 14.63 | 0.6173 |
| 95  | 365 | 9.24 | 58.75 | 12.29 | 0.6671 |
| 96  | 356 | 8.94 | 62.76 | 14.31 | 0.8028 |
| 97  | 383 | 9.74 | 64.59 | 13.83 | 0.8698 |
| 98  | 386 | 8.67 | 53.60 | 13.62 | 0.6329 |
| 99  | 319 | 8.75 | 51.11 | 14.28 | 0.6387 |
| 100 | 387 | 8.76 | 60.66 | 12.71 | 0.6754 |

**Name of Division : Pratapgarh-II**

**Challan No. : 06/136**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 554       | 7.23                 | 70.09              | 13.98        | 0.7085                           |
| 2     | 505       | 7.49                 | 61.43              | 13.53        | 0.6224                           |
| 3     | 514       | 2.94                 | 53.00              | 13.91        | 0.2167                           |
| 4     | 575       | 3.75                 | 64.87              | 12.22        | 0.2974                           |
| 5     | 545       | 4.6                  | 55.92              | 13.63        | 0.3505                           |
| 6     | 563       | 3.58                 | 51.12              | 14.08        | 0.2578                           |
| 7     | 551       | 7.72                 | 68.34              | 12.63        | 0.6662                           |
| 8     | 521       | 4.54                 | 61.60              | 13.08        | 0.3659                           |
| 9     | 596       | 6.82                 | 56.59              | 13.61        | 0.5251                           |
| 10    | 515       | 3.76                 | 46.60              | 11.52        | 0.2019                           |
| 11    | 568       | 7.3                  | 47.72              | 15.32        | 0.5336                           |
| 12    | 507       | 8.9                  | 68.79              | 13.23        | 0.8099                           |
| 13    | 555       | 8.59                 | 71.03              | 14.05        | 0.8573                           |
| 14    | 508       | 7.28                 | 63.46              | 11.91        | 0.5504                           |
| 15    | 530       | 7.03                 | 55.71              | 12.58        | 0.4928                           |
| 16    | 516       | 8.92                 | 53.28              | 14.10        | 0.6699                           |
| 17    | 593       | 7.25                 | 57.19              | 13.29        | 0.5510                           |
| 18    | 512       | 7.67                 | 46.88              | 14.29        | 0.5139                           |
| 19    | 559       | 8.21                 | 65.59              | 13.42        | 0.7225                           |
| 20    | 582       | 3.63                 | 61.71              | 13.55        | 0.3035                           |
| 21    | 561       | 7.36                 | 66.62              | 12.38        | 0.6072                           |
| 22    | 549       | 7.33                 | 72.28              | 12.70        | 0.6729                           |
| 23    | 510       | 8.85                 | 65.71              | 12.91        | 0.7505                           |
| 24    | 598       | 4.34                 | 54.86              | 13.54        | 0.3225                           |
| 25    | 566       | 8.48                 | 58.04              | 13.68        | 0.6733                           |
| 26    | 537       | 4.44                 | 62.80              | 11.64        | 0.3246                           |
| 27    | 550       | 7.29                 | 68.16              | 13.86        | 0.6889                           |
| 28    | 586       | 7.49                 | 64.20              | 10.65        | 0.5123                           |
| 29    | 591       | 7.07                 | 55.71              | 13.32        | 0.5246                           |
| 30    | 571       | 7.37                 | 56.24              | 12.75        | 0.5284                           |
| 31    | 577       | 7.46                 | 62.47              | 13.09        | 0.6102                           |
| 32    | 536       | 4.62                 | 62.28              | 11.83        | 0.3405                           |
| 33    | 543       | 7.34                 | 64.40              | 13.20        | 0.6239                           |



|    |     |      |       |       |        |
|----|-----|------|-------|-------|--------|
| 34 | 574 | 7.77 | 56.27 | 13.52 | 0.5913 |
| 35 | 526 | 7.97 | 52.36 | 13.75 | 0.5738 |
| 36 | 504 | 7.59 | 63.69 | 12.61 | 0.6095 |
| 37 | 567 | 7.37 | 53.49 | 14.62 | 0.5763 |
| 38 | 578 | 7.54 | 54.18 | 14.34 | 0.5859 |
| 39 | 576 | 7.72 | 57.01 | 14.89 | 0.6554 |
| 40 | 587 | 8.63 | 59.86 | 13.25 | 0.6844 |
| 41 | 595 | 3.81 | 56.56 | 15.22 | 0.3280 |
| 42 | 517 | 3.62 | 54.14 | 15.05 | 0.2950 |
| 43 | 534 | 4.7  | 67.12 | 13.39 | 0.4225 |
| 44 | 584 | 3.77 | 62.14 | 14.64 | 0.3431 |
| 45 | 594 | 4.34 | 56.14 | 13.77 | 0.3355 |
| 46 | 592 | 7.62 | 45.04 | 14.43 | 0.4953 |
| 47 | 525 | 8    | 54.99 | 12.31 | 0.5416 |
| 48 | 562 | 4.59 | 66.12 | 13.93 | 0.4227 |
| 49 | 573 | 7.14 | 50.82 | 14.86 | 0.5391 |
| 50 | 600 | 3.76 | 59.00 | 15.69 | 0.3482 |
| 51 | 558 | 8.76 | 63.10 | 13.36 | 0.7385 |
| 52 | 522 | 8.04 | 55.80 | 13.30 | 0.5966 |
| 53 | 529 | 7.19 | 63.26 | 13.17 | 0.5989 |
| 54 | 548 | 7.25 | 62.32 | 13.33 | 0.6025 |
| 55 | 579 | 3.41 | 58.22 | 13.78 | 0.2735 |
| 56 | 553 | 8.65 | 58.15 | 15.06 | 0.7577 |
| 57 | 518 | 7.36 | 55.01 | 13.54 | 0.5483 |
| 58 | 572 | 4.26 | 55.61 | 13.15 | 0.3114 |
| 59 | 552 | 8.48 | 66.58 | 14.30 | 0.8073 |
| 60 | 557 | 7.38 | 69.26 | 12.42 | 0.6347 |
| 61 | 547 | 4.21 | 59.24 | 14.97 | 0.3734 |
| 62 | 506 | 7.39 | 59.92 | 13.07 | 0.5786 |
| 63 | 538 | 7.05 | 58.94 | 14.27 | 0.5929 |
| 64 | 546 | 7.28 | 66.29 | 14.95 | 0.7214 |
| 65 | 503 | 9    | 68.01 | 13.13 | 0.8037 |
| 66 | 524 | 4.37 | 51.43 | 15.15 | 0.3404 |
| 67 | 519 | 4.01 | 56.50 | 12.92 | 0.2927 |
| 68 | 581 | 7.32 | 64.56 | 13.07 | 0.6178 |
| 69 | 501 | 4.61 | 62.47 | 11.24 | 0.3236 |
| 70 | 523 | 7.25 | 47.29 | 14.95 | 0.5126 |
| 71 | 509 | 7.18 | 62.79 | 13.95 | 0.6290 |
| 72 | 544 | 4.51 | 55.40 | 13.61 | 0.3401 |
| 73 | 540 | 4.24 | 61.80 | 12.57 | 0.3294 |
| 74 | 560 | 7.04 | 64.70 | 15.19 | 0.6920 |
| 75 | 539 | 7.22 | 65.20 | 13.54 | 0.6375 |
| 76 | 541 | 8.6  | 64.29 | 14.34 | 0.7929 |
| 77 | 528 | 8.76 | 56.98 | 14.16 | 0.7069 |
| 78 | 535 | 7.03 | 58.11 | 11.72 | 0.4787 |
| 79 | 599 | 8.62 | 57.10 | 14.50 | 0.7137 |
| 80 | 531 | 8.94 | 65.65 | 13.89 | 0.8153 |

|     |     |      |       |       |        |
|-----|-----|------|-------|-------|--------|
| 81  | 589 | 9.16 | 49.54 | 14.53 | 0.6595 |
| 82  | 580 | 7.59 | 63.72 | 13.28 | 0.6421 |
| 83  | 502 | 9.03 | 60.47 | 13.69 | 0.7477 |
| 84  | 565 | 8.46 | 54.89 | 15.32 | 0.7115 |
| 85  | 527 | 4.7  | 55.84 | 12.79 | 0.3356 |
| 86  | 520 | 7.54 | 53.72 | 13.59 | 0.5504 |
| 87  | 511 | 7.67 | 42.74 | 15.58 | 0.5108 |
| 88  | 590 | 7.2  | 56.18 | 12.76 | 0.5162 |
| 89  | 597 | 7.42 | 54.16 | 13.24 | 0.5320 |
| 90  | 542 | 8.43 | 62.07 | 14.64 | 0.7663 |
| 91  | 533 | 8.86 | 61.62 | 15.00 | 0.8187 |
| 92  | 583 | 8.49 | 55.71 | 13.86 | 0.6554 |
| 93  | 564 | 7.44 | 49.84 | 14.77 | 0.5476 |
| 94  | 585 | 7.27 | 62.71 | 14.67 | 0.6688 |
| 95  | 570 | 7.04 | 51.50 | 14.04 | 0.5090 |
| 96  | 513 | 9.45 | 45.20 | 14.60 | 0.6237 |
| 97  | 532 | 7.44 | 58.52 | 14.41 | 0.6272 |
| 98  | 556 | 8.61 | 62.50 | 14.18 | 0.7628 |
| 99  | 569 | 8.44 | 53.04 | 14.35 | 0.6423 |
| 100 | 588 | 8.26 | 44.13 | 15.11 | 0.5509 |

**Name of Division : Pratapgarh-II**

**Challan No. : 22/329**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 2121      | 8.22                 | 63.61              | 14.67        | 0.7669                           |
| 2     | 2108      | 7.73                 | 59.86              | 13.68        | 0.6331                           |
| 3     | 2197      | 7.84                 | 56.31              | 13.71        | 0.6052                           |
| 4     | 2111      | 7.94                 | 61.80              | 14.82        | 0.7273                           |
| 5     | 2185      | 8.64                 | 59.52              | 13.21        | 0.6791                           |
| 6     | 2124      | 8.53                 | 65.04              | 12.15        | 0.6739                           |
| 7     | 2137      | 8.65                 | 58.37              | 13.40        | 0.6764                           |
| 8     | 2199      | 9.06                 | 63.37              | 13.00        | 0.7465                           |
| 9     | 2189      | 8.69                 | 55.81              | 13.55        | 0.6570                           |
| 10    | 2127      | 8.22                 | 58.40              | 13.27        | 0.6371                           |
| 11    | 2193      | 7.37                 | 61.12              | 12.88        | 0.5800                           |
| 12    | 2142      | 4.27                 | 57.19              | 13.50        | 0.3296                           |
| 13    | 2155      | 7.43                 | 67.66              | 14.51        | 0.7296                           |
| 14    | 2177      | 7.31                 | 64.75              | 12.94        | 0.6126                           |
| 15    | 2115      | 6.7                  | 62.87              | 13.06        | 0.5501                           |
| 16    | 2119      | 7.47                 | 63.00              | 12.71        | 0.5983                           |
| 17    | 2152      | 4.4                  | 56.58              | 13.18        | 0.3282                           |
| 18    | 2162      | 7.54                 | 61.09              | 11.83        | 0.5451                           |
| 19    | 2122      | 4.21                 | 54.11              | 14.99        | 0.3414                           |
| 20    | 2109      | 8.33                 | 56.70              | 14.60        | 0.6897                           |
| 21    | 2169      | 7.39                 | 64.33              | 12.92        | 0.6141                           |
| 22    | 2133      | 4.58                 | 61.88              | 11.54        | 0.3270                           |
| 23    | 2195      | 7.3                  | 53.99              | 14.02        | 0.5526                           |
| 24    | 2150      | 7.33                 | 62.19              | 13.36        | 0.6091                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 25 | 2148 | 7.35 | 62.01 | 13.47 | 0.6137 |
| 26 | 2191 | 8.43 | 61.68 | 12.32 | 0.6407 |
| 27 | 2112 | 8.4  | 65.73 | 13.13 | 0.7249 |
| 28 | 2157 | 7.17 | 62.71 | 12.21 | 0.5492 |
| 29 | 2181 | 7    | 58.61 | 13.39 | 0.5495 |
| 30 | 2178 | 4.79 | 60.37 | 12.85 | 0.3717 |
| 31 | 2163 | 7.53 | 65.19 | 15.00 | 0.7364 |
| 32 | 2171 | 4.34 | 64.29 | 12.83 | 0.3581 |
| 33 | 2173 | 7.39 | 66.56 | 13.97 | 0.6873 |
| 34 | 2128 | 4.76 | 74.33 | 13.13 | 0.4646 |
| 35 | 2132 | 4.3  | 59.54 | 14.12 | 0.3616 |
| 36 | 2149 | 4.22 | 59.89 | 13.52 | 0.3418 |
| 37 | 2187 | 4.61 | 47.80 | 14.21 | 0.3130 |
| 38 | 2156 | 7.06 | 60.87 | 13.88 | 0.5966 |
| 39 | 2182 | 7.17 | 52.90 | 13.42 | 0.5091 |
| 40 | 2120 | 6.92 | 62.87 | 13.54 | 0.5889 |
| 41 | 2164 | 4.57 | 64.90 | 10.92 | 0.3240 |
| 42 | 2190 | 4.42 | 62.21 | 12.14 | 0.3337 |
| 43 | 2140 | 4.11 | 60.55 | 12.78 | 0.3181 |
| 44 | 2170 | 4.25 | 68.49 | 12.24 | 0.3561 |
| 45 | 2151 | 7.27 | 62.36 | 12.01 | 0.5445 |
| 46 | 2154 | 4.34 | 61.88 | 13.99 | 0.3758 |
| 47 | 2147 | 4.11 | 57.40 | 14.58 | 0.3440 |
| 48 | 2153 | 6.73 | 54.64 | 13.93 | 0.5122 |
| 49 | 2158 | 4.11 | 60.59 | 13.95 | 0.3473 |
| 50 | 2129 | 7.53 | 57.73 | 13.16 | 0.5723 |
| 51 | 2145 | 4.34 | 58.49 | 11.81 | 0.2999 |
| 52 | 2184 | 4.41 | 59.80 | 12.19 | 0.3215 |
| 53 | 2168 | 4.27 | 61.11 | 13.27 | 0.3463 |
| 54 | 2141 | 4.23 | 60.06 | 12.47 | 0.3168 |
| 55 | 2174 | 3.91 | 71.58 | 13.75 | 0.3847 |
| 56 | 2101 | 4.18 | 55.12 | 13.15 | 0.3030 |
| 57 | 2179 | 4.35 | 58.97 | 14.33 | 0.3676 |
| 58 | 2200 | 7.44 | 56.65 | 13.27 | 0.5595 |
| 59 | 2136 | 3.92 | 56.95 | 13.87 | 0.3097 |
| 60 | 2118 | 4.48 | 62.85 | 13.65 | 0.3844 |
| 61 | 2130 | 7.56 | 51.88 | 13.63 | 0.5345 |
| 62 | 2102 | 3.46 | 54.33 | 14.47 | 0.2720 |
| 63 | 2175 | 7.38 | 66.90 | 12.53 | 0.6184 |
| 64 | 2116 | 6.19 | 63.33 | 15.54 | 0.6091 |
| 65 | 2134 | 3.45 | 59.04 | 13.63 | 0.2777 |
| 66 | 2139 | 7.12 | 60.88 | 13.57 | 0.5881 |
| 67 | 2166 | 6.97 | 64.63 | 13.17 | 0.5931 |
| 68 | 2106 | 6.99 | 60.16 | 14.28 | 0.6004 |
| 69 | 2161 | 3.95 | 65.95 | 14.31 | 0.3729 |
| 70 | 2125 | 3.63 | 62.45 | 14.19 | 0.3216 |
| 71 | 2172 | 4.22 | 62.87 | 13.79 | 0.3659 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 72  | 2146 | 4.23 | 56.72 | 13.49 | 0.3236 |
| 73  | 2113 | 7.01 | 62.15 | 13.13 | 0.5720 |
| 74  | 2192 | 4.18 | 62.48 | 12.77 | 0.3336 |
| 75  | 2110 | 3.66 | 62.60 | 13.45 | 0.3082 |
| 76  | 2165 | 4.33 | 61.45 | 12.29 | 0.3269 |
| 77  | 2186 | 7.02 | 54.72 | 13.54 | 0.5202 |
| 78  | 2143 | 4.3  | 54.87 | 14.25 | 0.3363 |
| 79  | 2114 | 6.82 | 61.95 | 12.96 | 0.5476 |
| 80  | 2107 | 6.91 | 55.96 | 14.76 | 0.5708 |
| 81  | 2194 | 4.4  | 63.43 | 11.11 | 0.3102 |
| 82  | 2160 | 4.31 | 59.58 | 13.63 | 0.3500 |
| 83  | 2144 | 4.01 | 57.60 | 15.42 | 0.3561 |
| 84  | 2183 | 7.32 | 58.51 | 14.20 | 0.6083 |
| 85  | 2131 | 4.46 | 59.86 | 14.35 | 0.3831 |
| 86  | 2135 | 4.45 | 65.80 | 12.28 | 0.3596 |
| 87  | 2138 | 6.99 | 55.62 | 14.08 | 0.5473 |
| 88  | 2180 | 8.03 | 54.86 | 13.05 | 0.5749 |
| 89  | 2159 | 4.15 | 60.34 | 13.23 | 0.3312 |
| 90  | 2167 | 7.22 | 63.14 | 15.70 | 0.7155 |
| 91  | 2188 | 4.07 | 61.59 | 12.78 | 0.3203 |
| 92  | 2198 | 7.45 | 58.13 | 13.76 | 0.5960 |
| 93  | 2117 | 8.57 | 59.36 | 14.47 | 0.7362 |
| 94  | 2104 | 8.33 | 53.83 | 14.81 | 0.6639 |
| 95  | 2196 | 8.57 | 60.21 | 13.29 | 0.6856 |
| 96  | 2176 | 8.97 | 60.47 | 14.52 | 0.7876 |
| 97  | 2123 | 8.57 | 65.34 | 12.96 | 0.7259 |
| 98  | 2126 | 8.82 | 58.84 | 14.04 | 0.7285 |
| 99  | 2105 | 8.24 | 51.93 | 12.36 | 0.5290 |
| 100 | 2103 | 8.35 | 56.94 | 12.47 | 0.5929 |

Date: 22.07.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 29/420**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 2856      | 8.57                 | 56.89              | 13.83        | 0.6745                           |
| 2     | 2877      | 8.59                 | 61.77              | 14.08        | 0.7473                           |
| 3     | 2803      | 8.44                 | 66.15              | 16.05        | 0.8963                           |
| 4     | 2878      | 8.56                 | 65.06              | 13.97        | 0.7781                           |
| 5     | 2815      | 8.45                 | 63.28              | 13.50        | 0.7216                           |
| 6     | 2844      | 8.61                 | 64.11              | 14.19        | 0.7835                           |
| 7     | 2832      | 7.89                 | 61.33              | 13.94        | 0.6746                           |
| 8     | 2859      | 4.5                  | 61.58              | 12.88        | 0.3569                           |
| 9     | 2842      | 4.47                 | 63.82              | 12.69        | 0.3621                           |
| 10    | 2831      | 7.46                 | 61.36              | 12.26        | 0.5610                           |
| 11    | 2841      | 4.67                 | 63.24              | 13.65        | 0.4030                           |
| 12    | 2867      | 4.42                 | 64.40              | 13.40        | 0.3814                           |
| 13    | 2847      | 7.47                 | 66.96              | 12.54        | 0.6275                           |
| 14    | 2858      | 4.48                 | 57.43              | 13.43        | 0.3454                           |
| 15    | 2820      | 8.82                 | 55.56              | 14.43        | 0.7074                           |
| 16    | 2824      | 8.83                 | 59.95              | 13.33        | 0.7055                           |
| 17    | 2874      | 8.95                 | 57.45              | 13.51        | 0.6945                           |
| 18    | 2836      | 8.46                 | 60.29              | 12.52        | 0.6387                           |
| 19    | 2821      | 8.48                 | 63.65              | 12.99        | 0.7013                           |
| 20    | 2846      | 8.86                 | 64.46              | 14.02        | 0.8009                           |
| 21    | 2806      | 7.4                  | 65.24              | 14.82        | 0.7156                           |
| 22    | 2855      | 4.4                  | 48.59              | 15.04        | 0.3216                           |
| 23    | 2876      | 4.11                 | 48.31              | 15.03        | 0.2984                           |
| 24    | 2865      | 4.82                 | 55.28              | 13.49        | 0.3596                           |
| 25    | 2900      | 4.79                 | 62.38              | 15.53        | 0.4642                           |
| 26    | 2835      | 4.36                 | 46.53              | 14.87        | 0.3017                           |
| 27    | 2880      | 4.21                 | 66.97              | 12.18        | 0.3435                           |
| 28    | 2894      | 4.42                 | 57.51              | 12.99        | 0.3302                           |
| 29    | 2819      | 4.24                 | 67.53              | 12.10        | 0.3464                           |
| 30    | 2862      | 8.55                 | 60.47              | 13.86        | 0.7165                           |
| 31    | 2897      | 9.11                 | 63.95              | 13.18        | 0.7680                           |
| 32    | 2861      | 8.64                 | 59.16              | 13.35        | 0.6826                           |
| 33    | 2884      | 8.87                 | 65.35              | 13.11        | 0.7602                           |
| 34    | 2853      | 8.61                 | 63.30              | 12.40        | 0.6759                           |
| 35    | 2813      | 4.43                 | 63.47              | 12.54        | 0.3526                           |
| 36    | 2826      | 7.4                  | 60.11              | 12.64        | 0.5624                           |
| 37    | 2882      | 4.43                 | 68.99              | 12.86        | 0.3929                           |
| 38    | 2857      | 4.35                 | 61.83              | 12.87        | 0.3463                           |
| 39    | 2822      | 7.13                 | 61.37              | 12.22        | 0.5348                           |
| 40    | 2863      | 4.25                 | 63.91              | 12.78        | 0.3472                           |
| 41    | 2840      | 4.44                 | 69.43              | 14.06        | 0.4333                           |
| 42    | 2838      | 4.64                 | 67.29              | 13.27        | 0.4144                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 43 | 2893 | 7.26 | 65.57 | 13.94 | 0.6636 |
| 44 | 2833 | 4.56 | 57.53 | 13.65 | 0.3580 |
| 45 | 2807 | 7.26 | 61.23 | 13.29 | 0.5910 |
| 46 | 2864 | 4.36 | 59.31 | 12.71 | 0.3287 |
| 47 | 2823 | 7.33 | 64.66 | 13.95 | 0.6612 |
| 48 | 2891 | 4.2  | 66.73 | 13.05 | 0.3658 |
| 49 | 2809 | 7.44 | 64.23 | 14.14 | 0.6756 |
| 50 | 2850 | 4.35 | 54.71 | 13.47 | 0.3206 |
| 51 | 2830 | 7.36 | 62.71 | 13.25 | 0.6116 |
| 52 | 2811 | 7.44 | 68.90 | 12.77 | 0.6547 |
| 53 | 2801 | 7.42 | 59.70 | 14.64 | 0.6485 |
| 54 | 2812 | 7.55 | 66.15 | 13.29 | 0.6636 |
| 55 | 2896 | 3.84 | 55.18 | 14.72 | 0.3118 |
| 56 | 2814 | 7.52 | 61.27 | 13.82 | 0.6369 |
| 57 | 2834 | 4.47 | 65.00 | 12.48 | 0.3625 |
| 58 | 2808 | 4.77 | 66.46 | 12.99 | 0.4117 |
| 59 | 2898 | 4.74 | 65.52 | 14.85 | 0.4612 |
| 60 | 2881 | 4.26 | 69.84 | 12.76 | 0.3796 |
| 61 | 2869 | 7.16 | 56.81 | 14.49 | 0.5893 |
| 62 | 2883 | 7.17 | 66.02 | 14.59 | 0.6905 |
| 63 | 2804 | 7.43 | 60.63 | 13.92 | 0.6271 |
| 64 | 2887 | 7.56 | 64.92 | 13.97 | 0.6857 |
| 65 | 2845 | 7.12 | 66.04 | 13.49 | 0.6344 |
| 66 | 2868 | 7.43 | 64.48 | 12.31 | 0.5899 |
| 67 | 2885 | 4.6  | 69.04 | 12.75 | 0.4048 |
| 68 | 2849 | 7.71 | 55.54 | 12.71 | 0.5443 |
| 69 | 2810 | 7.18 | 60.62 | 14.43 | 0.6282 |
| 70 | 2892 | 4.12 | 67.72 | 13.44 | 0.3749 |
| 71 | 2802 | 4.52 | 58.26 | 14.26 | 0.3756 |
| 72 | 2866 | 7.31 | 66.21 | 14.03 | 0.6791 |
| 73 | 2829 | 4.46 | 60.32 | 12.91 | 0.3474 |
| 74 | 2872 | 4.37 | 64.07 | 12.50 | 0.3500 |
| 75 | 2805 | 4.55 | 64.37 | 12.61 | 0.3695 |
| 76 | 2818 | 4.39 | 48.56 | 15.16 | 0.3231 |
| 77 | 2816 | 7.37 | 65.52 | 14.26 | 0.6884 |
| 78 | 2888 | 4.59 | 65.58 | 13.30 | 0.4002 |
| 79 | 2873 | 4.68 | 63.43 | 13.37 | 0.3969 |
| 80 | 2837 | 4.69 | 65.83 | 14.25 | 0.4399 |
| 81 | 2871 | 7.74 | 59.83 | 12.27 | 0.5681 |
| 82 | 2889 | 4.34 | 57.79 | 12.11 | 0.3038 |
| 83 | 2870 | 7.44 | 61.10 | 13.86 | 0.6302 |
| 84 | 2886 | 7.46 | 55.28 | 14.27 | 0.5886 |
| 85 | 2825 | 7.14 | 66.38 | 12.34 | 0.5848 |
| 86 | 2875 | 7.44 | 60.65 | 12.15 | 0.5483 |
| 87 | 2817 | 6.86 | 48.63 | 12.67 | 0.4226 |
| 88 | 2854 | 4.54 | 63.85 | 11.26 | 0.3264 |
| 89 | 2895 | 4.74 | 64.31 | 12.69 | 0.3868 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 90  | 2879 | 7.23 | 70.68 | 10.88 | 0.5560 |
| 91  | 2860 | 4.46 | 62.22 | 12.60 | 0.3497 |
| 92  | 2899 | 4.81 | 63.92 | 12.94 | 0.3978 |
| 93  | 2851 | 7.54 | 65.46 | 12.74 | 0.6288 |
| 94  | 2890 | 7.35 | 68.82 | 12.95 | 0.6549 |
| 95  | 2839 | 7.42 | 67.57 | 12.61 | 0.6322 |
| 96  | 2828 | 4.43 | 66.24 | 13.96 | 0.4098 |
| 97  | 2848 | 7.43 | 61.29 | 12.89 | 0.5870 |
| 98  | 2827 | 4.22 | 65.81 | 12.07 | 0.3351 |
| 99  | 2852 | 4.31 | 59.28 | 11.81 | 0.3017 |
| 100 | 2843 | 8.61 | 62.02 | 12.72 | 0.6793 |

Date: 19.07.2022

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 09/195**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 852       | 8.78                 | 59.98              | 14.55        | 0.7665                           |
| 2     | 897       | 3.72                 | 55.79              | 14.18        | 0.2943                           |
| 3     | 840       | 9.14                 | 66.02              | 13.66        | 0.8244                           |
| 4     | 887       | 7.64                 | 68.73              | 12.53        | 0.6578                           |
| 5     | 816       | 4.52                 | 58.60              | 13.94        | 0.3693                           |
| 6     | 836       | 8.85                 | 63.31              | 14.01        | 0.7850                           |
| 7     | 861       | 8.69                 | 65.24              | 12.03        | 0.6822                           |
| 8     | 854       | 4.35                 | 57.87              | 13.56        | 0.3415                           |
| 9     | 886       | 4.54                 | 64.80              | 13.60        | 0.4000                           |
| 10    | 896       | 7.62                 | 59.51              | 12.60        | 0.5715                           |
| 11    | 820       | 9.34                 | 62.49              | 13.79        | 0.8051                           |
| 12    | 855       | 4.75                 | 62.14              | 13.66        | 0.4033                           |
| 13    | 882       | 7.4                  | 62.20              | 14.00        | 0.6445                           |
| 14    | 863       | 8.93                 | 63.86              | 14.03        | 0.8001                           |
| 15    | 876       | 7.59                 | 71.86              | 12.51        | 0.6823                           |
| 16    | 831       | 9.1                  | 68.18              | 14.54        | 0.9018                           |
| 17    | 889       | 9.03                 | 55.73              | 14.19        | 0.7143                           |
| 18    | 839       | 7.39                 | 65.47              | 13.38        | 0.6474                           |
| 19    | 801       | 4.77                 | 61.79              | 13.84        | 0.4078                           |
| 20    | 846       | 7.44                 | 65.42              | 12.82        | 0.6242                           |
| 21    | 818       | 4.66                 | 63.56              | 15.10        | 0.4474                           |
| 22    | 873       | 7.61                 | 61.00              | 15.13        | 0.7024                           |
| 23    | 826       | 9.35                 | 62.36              | 16.08        | 0.9378                           |
| 24    | 862       | 9.04                 | 60.73              | 14.72        | 0.8082                           |
| 25    | 874       | 7.42                 | 67.55              | 13.96        | 0.6997                           |
| 26    | 892       | 7.2                  | 50.88              | 14.98        | 0.5486                           |
| 27    | 810       | 4.36                 | 53.87              | 16.19        | 0.3802                           |
| 28    | 833       | 4.42                 | 65.03              | 14.62        | 0.4203                           |
| 29    | 866       | 9.03                 | 61.87              | 15.10        | 0.8434                           |
| 30    | 827       | 4.48                 | 61.97              | 14.89        | 0.4135                           |
| 31    | 898       | 7.82                 | 55.37              | 14.39        | 0.6233                           |
| 32    | 884       | 9.02                 | 63.43              | 15.23        | 0.8713                           |
| 33    | 879       | 4.63                 | 70.98              | 14.81        | 0.4866                           |
| 34    | 880       | 4.28                 | 63.74              | 14.40        | 0.3929                           |
| 35    | 843       | 9.06                 | 69.52              | 15.51        | 0.9767                           |
| 36    | 895       | 8.7                  | 52.44              | 16.06        | 0.7325                           |
| 37    | 837       | 4.2                  | 55.66              | 15.77        | 0.3688                           |
| 38    | 809       | 8.87                 | 59.29              | 16.75        | 0.8808                           |
| 39    | 899       | 4.58                 | 58.51              | 14.65        | 0.3925                           |
| 40    | 804       | 7.55                 | 61.76              | 14.46        | 0.6742                           |
| 41    | 864       | 7.51                 | 62.24              | 13.69        | 0.6399                           |
| 42    | 807       | 9.44                 | 59.00              | 15.66        | 0.8723                           |



|    |     |      |       |       |        |
|----|-----|------|-------|-------|--------|
| 43 | 845 | 8.66 | 59.80 | 14.98 | 0.7759 |
| 44 | 868 | 7.48 | 61.40 | 15.47 | 0.7106 |
| 45 | 825 | 4.43 | 65.32 | 15.37 | 0.4448 |
| 46 | 851 | 9.26 | 66.27 | 14.40 | 0.8834 |
| 47 | 842 | 4.54 | 64.72 | 15.70 | 0.4613 |
| 48 | 815 | 7.62 | 53.83 | 15.99 | 0.6561 |
| 49 | 824 | 9    | 60.72 | 14.06 | 0.7686 |
| 50 | 865 | 4.51 | 55.69 | 15.35 | 0.3856 |
| 51 | 869 | 4.44 | 61.05 | 13.66 | 0.3703 |
| 52 | 829 | 8.87 | 62.23 | 14.37 | 0.7930 |
| 53 | 808 | 4.79 | 62.51 | 12.24 | 0.3664 |
| 54 | 872 | 7.8  | 63.60 | 14.01 | 0.6950 |
| 55 | 858 | 8.99 | 63.69 | 13.79 | 0.7893 |
| 56 | 849 | 7.77 | 62.77 | 12.74 | 0.6216 |
| 57 | 802 | 7.56 | 63.61 | 13.14 | 0.6320 |
| 58 | 877 | 7.72 | 64.07 | 13.59 | 0.6724 |
| 59 | 822 | 4.54 | 63.81 | 12.77 | 0.3700 |
| 60 | 859 | 9.42 | 63.95 | 13.62 | 0.8205 |
| 61 | 823 | 9.21 | 66.27 | 13.69 | 0.8353 |
| 62 | 844 | 9.01 | 65.78 | 12.60 | 0.7469 |
| 63 | 891 | 7.28 | 58.17 | 13.56 | 0.5744 |
| 64 | 811 | 4.21 | 53.69 | 14.34 | 0.3242 |
| 65 | 881 | 7.63 | 65.36 | 13.46 | 0.6714 |
| 66 | 830 | 8.8  | 64.63 | 15.91 | 0.9046 |
| 67 | 814 | 8.92 | 62.45 | 13.85 | 0.7716 |
| 68 | 875 | 4.36 | 61.13 | 14.98 | 0.3994 |
| 69 | 893 | 7.58 | 65.08 | 11.23 | 0.5541 |
| 70 | 812 | 7.31 | 54.62 | 14.90 | 0.5950 |
| 71 | 806 | 7.54 | 62.07 | 13.44 | 0.6288 |
| 72 | 838 | 7.34 | 62.92 | 13.92 | 0.6430 |
| 73 | 841 | 7.59 | 62.75 | 14.49 | 0.6899 |
| 74 | 894 | 8.65 | 55.46 | 13.56 | 0.6505 |
| 75 | 821 | 8.83 | 62.84 | 12.91 | 0.7161 |
| 76 | 888 | 8.93 | 66.71 | 13.88 | 0.8269 |
| 77 | 850 | 8.76 | 60.97 | 14.53 | 0.7761 |
| 78 | 900 | 7.06 | 53.51 | 14.74 | 0.5570 |
| 79 | 867 | 7.47 | 63.65 | 13.56 | 0.6447 |
| 80 | 860 | 8.84 | 64.00 | 14.03 | 0.7938 |
| 81 | 805 | 8.72 | 65.22 | 14.26 | 0.8110 |
| 82 | 856 | 7.5  | 56.58 | 13.52 | 0.5738 |
| 83 | 847 | 4.53 | 68.61 | 12.04 | 0.3742 |
| 84 | 803 | 7.71 | 68.07 | 13.12 | 0.6885 |
| 85 | 853 | 4.47 | 55.68 | 14.33 | 0.3567 |
| 86 | 883 | 9.03 | 64.45 | 13.25 | 0.7712 |
| 87 | 885 | 9.08 | 65.66 | 15.26 | 0.9098 |
| 88 | 878 | 9.21 | 65.45 | 13.19 | 0.7948 |
| 89 | 870 | 4.48 | 57.29 | 13.21 | 0.3391 |

|     |     |      |       |       |        |
|-----|-----|------|-------|-------|--------|
| 90  | 813 | 7.17 | 59.42 | 14.37 | 0.6123 |
| 91  | 834 | 8.73 | 65.64 | 13.42 | 0.7691 |
| 92  | 835 | 9.2  | 63.58 | 14.03 | 0.8206 |
| 93  | 817 | 8.9  | 56.28 | 13.59 | 0.6808 |
| 94  | 857 | 4.26 | 59.13 | 14.21 | 0.3578 |
| 95  | 871 | 7.7  | 64.64 | 14.16 | 0.7045 |
| 96  | 890 | 7.23 | 55.99 | 13.07 | 0.5292 |
| 97  | 819 | 4.6  | 62.63 | 13.17 | 0.3795 |
| 98  | 848 | 8.71 | 65.31 | 13.90 | 0.7909 |
| 99  | 832 | 7.55 | 58.97 | 14.02 | 0.6244 |
| 100 | 828 | 7.17 | 53.07 | 14.41 | 0.5485 |

Date: 15.07.2022

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 13/251**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 1201      | 7.29                 | 67.31              | 13.28        | 0.6517                           |
| 2     | 1255      | 9.71                 | 59.46              | 13.44        | 0.7758                           |
| 3     | 1228      | 7.51                 | 57.68              | 14.34        | 0.6211                           |
| 4     | 1238      | 4.53                 | 63.75              | 13.54        | 0.3909                           |
| 5     | 1271      | 9.4                  | 56.68              | 14.17        | 0.7548                           |
| 6     | 1239      | 7.1                  | 54.06              | 13.58        | 0.5211                           |
| 7     | 1227      | 4.07                 | 53.92              | 15.08        | 0.3309                           |
| 8     | 1205      | 8                    | 56.84              | 15.02        | 0.6832                           |
| 9     | 1254      | 9.48                 | 59.37              | 13.27        | 0.7470                           |
| 10    | 1232      | 7.67                 | 61.82              | 14.15        | 0.6711                           |
| 11    | 1246      | 7.17                 | 58.19              | 14.26        | 0.5951                           |
| 12    | 1281      | 4.65                 | 68.32              | 12.73        | 0.4046                           |
| 13    | 1279      | 4.47                 | 59.51              | 14.22        | 0.3782                           |
| 14    | 1236      | 3.48                 | 59.75              | 13.94        | 0.2899                           |
| 15    | 1203      | 8.64                 | 65.14              | 14.38        | 0.8096                           |
| 16    | 1215      | 3.76                 | 54.38              | 14.07        | 0.2876                           |
| 17    | 1216      | 9.16                 | 58.56              | 13.10        | 0.7026                           |
| 18    | 1257      | 9.83                 | 58.59              | 13.06        | 0.7520                           |
| 19    | 1202      | 7.39                 | 63.66              | 13.35        | 0.6281                           |
| 20    | 1290      | 7.03                 | 55.15              | 14.40        | 0.5582                           |
| 21    | 1269      | 7.98                 | 58.04              | 13.13        | 0.6081                           |
| 22    | 1207      | 4.53                 | 63.83              | 12.47        | 0.3606                           |
| 23    | 1287      | 9.64                 | 60.76              | 12.64        | 0.7404                           |
| 24    | 1259      | 9.42                 | 59.14              | 12.53        | 0.6980                           |
| 25    | 1245      | 7.52                 | 59.98              | 12.94        | 0.5836                           |
| 26    | 1276      | 7.87                 | 60.09              | 13.33        | 0.6304                           |
| 27    | 1280      | 9.02                 | 63.89              | 13.59        | 0.7829                           |
| 28    | 1214      | 3.45                 | 53.36              | 15.03        | 0.2767                           |
| 29    | 1213      | 8.9                  | 54.62              | 12.93        | 0.6283                           |
| 30    | 1273      | 6.89                 | 56.49              | 13.22        | 0.5147                           |
| 31    | 1224      | 8.76                 | 54.68              | 15.42        | 0.7385                           |
| 32    | 1234      | 8.22                 | 56.48              | 14.93        | 0.6929                           |
| 33    | 1210      | 8.77                 | 54.62              | 15.03        | 0.7200                           |
| 34    | 1204      | 4.69                 | 63.92              | 15.35        | 0.4601                           |
| 35    | 1235      | 4.4                  | 57.82              | 13.66        | 0.3476                           |
| 36    | 1289      | 7.69                 | 55.53              | 14.06        | 0.6006                           |
| 37    | 1253      | 4.49                 | 58.44              | 13.93        | 0.3655                           |
| 38    | 1284      | 4.85                 | 51.74              | 14.63        | 0.3671                           |
| 39    | 1226      | 8.09                 | 54.26              | 15.70        | 0.6893                           |
| 40    | 1294      | 3.73                 | 57.41              | 14.47        | 0.3100                           |
| 41    | 1264      | 7.28                 | 48.20              | 16.83        | 0.5904                           |
| 42    | 1225      | 9.08                 | 57.43              | 13.56        | 0.7073                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 43 | 1258 | 5.09 | 58.72 | 13.79 | 0.4123 |
| 44 | 1218 | 7.3  | 51.90 | 16.09 | 0.6096 |
| 45 | 1297 | 4.38 | 54.54 | 14.61 | 0.3491 |
| 46 | 1242 | 8.94 | 64.35 | 13.95 | 0.8028 |
| 47 | 1206 | 4.27 | 70.60 | 13.80 | 0.4159 |
| 48 | 1262 | 7.68 | 57.13 | 14.58 | 0.6397 |
| 49 | 1291 | 4.13 | 51.40 | 16.56 | 0.3515 |
| 50 | 1295 | 4.48 | 53.26 | 15.53 | 0.3705 |
| 51 | 1299 | 7.65 | 57.31 | 14.26 | 0.6250 |
| 52 | 1250 | 3.6  | 41.38 | 15.73 | 0.2344 |
| 53 | 1237 | 8.59 | 58.85 | 14.12 | 0.7138 |
| 54 | 1212 | 7.18 | 52.11 | 14.14 | 0.5292 |
| 55 | 1265 | 9.52 | 57.29 | 12.95 | 0.7064 |
| 56 | 1298 | 7.72 | 58.54 | 14.90 | 0.6732 |
| 57 | 1285 | 4.82 | 52.06 | 13.77 | 0.3456 |
| 58 | 1288 | 7.62 | 56.73 | 13.68 | 0.5913 |
| 59 | 1231 | 8.97 | 62.99 | 15.67 | 0.8853 |
| 60 | 1241 | 9.07 | 65.13 | 14.59 | 0.8616 |
| 61 | 1268 | 4.25 | 60.72 | 14.54 | 0.3753 |
| 62 | 1251 | 8.18 | 45.49 | 16.75 | 0.6233 |
| 63 | 1286 | 4.64 | 60.73 | 14.56 | 0.4102 |
| 64 | 1272 | 4.42 | 61.03 | 14.80 | 0.3991 |
| 65 | 1243 | 8.81 | 64.21 | 15.37 | 0.8695 |
| 66 | 1208 | 6.6  | 41.02 | 17.31 | 0.4686 |
| 67 | 1256 | 4.51 | 55.47 | 14.55 | 0.3640 |
| 68 | 1220 | 7.35 | 53.40 | 14.93 | 0.5858 |
| 69 | 1252 | 7.91 | 55.31 | 11.14 | 0.4873 |
| 70 | 1263 | 9.08 | 60.68 | 14.88 | 0.8199 |
| 71 | 1222 | 3.99 | 54.57 | 15.47 | 0.3368 |
| 72 | 1209 | 3.96 | 54.64 | 15.48 | 0.3350 |
| 73 | 1293 | 4.51 | 47.01 | 15.91 | 0.3373 |
| 74 | 1283 | 4.61 | 57.74 | 14.22 | 0.3785 |
| 75 | 1270 | 9.07 | 59.30 | 15.08 | 0.8109 |
| 76 | 1300 | 7.54 | 60.06 | 13.52 | 0.6122 |
| 77 | 1223 | 8.88 | 59.73 | 15.45 | 0.8196 |
| 78 | 1233 | 7.71 | 52.67 | 15.57 | 0.6322 |
| 79 | 1278 | 4.57 | 58.18 | 14.46 | 0.3843 |
| 80 | 1217 | 7.62 | 58.42 | 13.45 | 0.5989 |
| 81 | 1260 | 9.22 | 56.49 | 14.83 | 0.7726 |
| 82 | 1244 | 7.29 | 58.32 | 14.40 | 0.6124 |
| 83 | 1249 | 4.49 | 62.82 | 13.15 | 0.3709 |
| 84 | 1282 | 4.42 | 57.47 | 14.70 | 0.3735 |
| 85 | 1274 | 8.17 | 60.58 | 13.06 | 0.6462 |
| 86 | 1261 | 7.57 | 53.81 | 14.35 | 0.5844 |
| 87 | 1240 | 7.47 | 56.95 | 13.57 | 0.5774 |
| 88 | 1248 | 6.41 | 40.46 | 17.10 | 0.4436 |
| 89 | 1230 | 8.93 | 60.26 | 14.55 | 0.7832 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 90  | 1247 | 7.14 | 59.32 | 15.09 | 0.6390 |
| 91  | 1266 | 8.74 | 60.78 | 14.18 | 0.7534 |
| 92  | 1296 | 4.27 | 53.06 | 16.70 | 0.3783 |
| 93  | 1221 | 8.92 | 54.09 | 14.03 | 0.6770 |
| 94  | 1275 | 9.5  | 61.24 | 13.15 | 0.7648 |
| 95  | 1292 | 6.8  | 63.91 | 14.72 | 0.6399 |
| 96  | 1219 | 9.18 | 55.74 | 13.17 | 0.6738 |
| 97  | 1229 | 7.37 | 58.12 | 12.28 | 0.5262 |
| 98  | 1277 | 4.76 | 64.59 | 13.25 | 0.4075 |
| 99  | 1211 | 8.96 | 59.92 | 11.97 | 0.6424 |
| 100 | 1267 | 7.57 | 60.17 | 12.00 | 0.5466 |

Date: 13.07.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 07/137**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 621       | 4.75                 | 64.25              | 12.93        | 0.3947                           |
| 2     | 692       | 4.58                 | 53.85              | 13.09        | 0.3229                           |
| 3     | 669       | 7.4                  | 58.77              | 12.54        | 0.5454                           |
| 4     | 667       | 4.52                 | 57.57              | 13.36        | 0.3476                           |
| 5     | 606       | 7.24                 | 58.41              | 14.33        | 0.6060                           |
| 6     | 658       | 9.89                 | 64.90              | 15.12        | 0.9702                           |
| 7     | 630       | 4.63                 | 60.89              | 13.43        | 0.3787                           |
| 8     | 647       | 7.68                 | 59.56              | 13.94        | 0.6374                           |
| 9     | 631       | 7.37                 | 61.25              | 14.42        | 0.6508                           |
| 10    | 666       | 4.98                 | 59.52              | 13.05        | 0.3869                           |
| 11    | 678       | 9.36                 | 52.45              | 13.65        | 0.6702                           |
| 12    | 655       | 4.48                 | 62.26              | 12.79        | 0.3566                           |
| 13    | 639       | 4.12                 | 61.73              | 13.54        | 0.3444                           |
| 14    | 690       | 7.26                 | 52.71              | 13.38        | 0.5118                           |
| 15    | 683       | 7.92                 | 52.48              | 14.77        | 0.6138                           |
| 16    | 632       | 8.57                 | 56.05              | 14.20        | 0.6822                           |
| 17    | 688       | 9.07                 | 62.78              | 13.86        | 0.7891                           |
| 18    | 620       | 8.89                 | 47.78              | 16.60        | 0.7050                           |
| 19    | 693       | 7.81                 | 60.50              | 13.67        | 0.6459                           |
| 20    | 684       | 7.75                 | 58.81              | 13.96        | 0.6363                           |
| 21    | 677       | 3.34                 | 56.43              | 13.82        | 0.2605                           |
| 22    | 636       | 3.71                 | 49.24              | 15.74        | 0.2875                           |
| 23    | 640       | 4.43                 | 55.07              | 15.80        | 0.3854                           |
| 24    | 698       | 8.03                 | 55.11              | 12.28        | 0.5436                           |
| 25    | 663       | 9.84                 | 59.33              | 14.58        | 0.8512                           |
| 26    | 686       | 8.86                 | 56.35              | 14.94        | 0.7460                           |
| 27    | 616       | 3.25                 | 66.71              | 13.93        | 0.3019                           |
| 28    | 672       | 7.49                 | 57.94              | 14.50        | 0.6292                           |
| 29    | 675       | 7.45                 | 45.92              | 15.98        | 0.5468                           |
| 30    | 637       | 3.34                 | 57.65              | 14.95        | 0.2879                           |
| 31    | 625       | 7.65                 | 58.13              | 14.38        | 0.6395                           |
| 32    | 622       | 7.46                 | 60.64              | 14.02        | 0.6341                           |
| 33    | 634       | 7.43                 | 50.88              | 16.65        | 0.6293                           |
| 34    | 601       | 8.52                 | 59.37              | 14.03        | 0.7097                           |
| 35    | 623       | 8.78                 | 53.44              | 14.93        | 0.7006                           |
| 36    | 613       | 3.61                 | 59.40              | 14.48        | 0.3105                           |
| 37    | 665       | 9.8                  | 61.52              | 13.54        | 0.8163                           |
| 38    | 657       | 9.6                  | 67.73              | 12.37        | 0.8045                           |
| 39    | 679       | 9                    | 54.83              | 13.97        | 0.6894                           |
| 40    | 673       | 4.46                 | 39.41              | 15.66        | 0.2752                           |
| 41    | 695       | 8.71                 | 58.66              | 13.04        | 0.6663                           |
| 42    | 699       | 9.59                 | 63.06              | 12.91        | 0.7806                           |

|    |     |      |       |       |        |
|----|-----|------|-------|-------|--------|
| 43 | 660 | 9.78 | 61.22 | 12.99 | 0.7775 |
| 44 | 650 | 7.63 | 58.23 | 14.65 | 0.6508 |
| 45 | 628 | 4.65 | 63.92 | 13.58 | 0.4036 |
| 46 | 689 | 8.57 | 49.36 | 15.52 | 0.6565 |
| 47 | 649 | 9.32 | 54.73 | 16.21 | 0.8267 |
| 48 | 682 | 7.2  | 53.56 | 15.55 | 0.5998 |
| 49 | 646 | 9.79 | 55.04 | 13.94 | 0.7509 |
| 50 | 615 | 7.39 | 67.71 | 13.00 | 0.6503 |
| 51 | 662 | 4.81 | 55.95 | 14.50 | 0.3901 |
| 52 | 602 | 7.51 | 56.56 | 15.22 | 0.6466 |
| 53 | 674 | 8.57 | 44.56 | 14.61 | 0.5579 |
| 54 | 687 | 4.37 | 49.03 | 15.54 | 0.3330 |
| 55 | 603 | 4.27 | 57.12 | 14.65 | 0.3574 |
| 56 | 611 | 7.28 | 59.59 | 13.41 | 0.5817 |
| 57 | 671 | 3.54 | 58.57 | 14.10 | 0.2924 |
| 58 | 633 | 8.84 | 58.45 | 13.50 | 0.6975 |
| 59 | 614 | 3.87 | 62.40 | 14.54 | 0.3510 |
| 60 | 627 | 3.67 | 56.40 | 16.31 | 0.3376 |
| 61 | 610 | 7.63 | 56.70 | 15.52 | 0.6714 |
| 62 | 696 | 4.36 | 53.32 | 15.00 | 0.3488 |
| 63 | 641 | 4.6  | 50.72 | 16.19 | 0.3777 |
| 64 | 626 | 8.48 | 52.12 | 15.73 | 0.6954 |
| 65 | 635 | 9.26 | 43.71 | 17.36 | 0.7028 |
| 66 | 700 | 4.56 | 62.06 | 10.57 | 0.2991 |
| 67 | 685 | 7.48 | 51.88 | 13.38 | 0.5191 |
| 68 | 612 | 7.25 | 66.41 | 12.75 | 0.6141 |
| 69 | 681 | 9.21 | 65.11 | 10.21 | 0.6125 |
| 70 | 604 | 7.91 | 57.10 | 12.36 | 0.5584 |
| 71 | 697 | 9.08 | 60.20 | 10.53 | 0.5757 |
| 72 | 691 | 9.55 | 50.45 | 12.05 | 0.5806 |
| 73 | 605 | 7.4  | 65.27 | 12.78 | 0.6172 |
| 74 | 619 | 6.99 | 52.05 | 11.89 | 0.4327 |
| 75 | 648 | 8.96 | 59.08 | 11.75 | 0.6218 |
| 76 | 624 | 7.24 | 51.42 | 16.02 | 0.5966 |
| 77 | 608 | 6.87 | 64.71 | 11.54 | 0.5132 |
| 78 | 629 | 4.55 | 67.97 | 10.45 | 0.3231 |
| 79 | 659 | 7.64 | 56.83 | 12.41 | 0.5386 |
| 80 | 653 | 7.67 | 64.68 | 11.50 | 0.5706 |
| 81 | 618 | 6.97 | 49.33 | 14.94 | 0.5137 |
| 82 | 609 | 9.12 | 62.85 | 13.75 | 0.7880 |
| 83 | 694 | 7.42 | 59.16 | 12.63 | 0.5543 |
| 84 | 664 | 9.58 | 61.11 | 14.38 | 0.8421 |
| 85 | 607 | 7.58 | 63.44 | 13.98 | 0.6723 |
| 86 | 638 | 7.16 | 55.56 | 13.34 | 0.5306 |
| 87 | 651 | 7.28 | 54.48 | 13.71 | 0.5438 |
| 88 | 661 | 9.39 | 63.77 | 13.39 | 0.8019 |
| 89 | 645 | 8    | 56.55 | 13.16 | 0.5952 |

|     |     |      |       |       |        |
|-----|-----|------|-------|-------|--------|
| 90  | 668 | 8.85 | 52.94 | 12.01 | 0.5629 |
| 91  | 670 | 8.01 | 62.76 | 13.58 | 0.6825 |
| 92  | 617 | 8.53 | 38.77 | 16.56 | 0.5476 |
| 93  | 652 | 4.84 | 56.04 | 13.74 | 0.3727 |
| 94  | 643 | 4.98 | 53.84 | 16.07 | 0.4308 |
| 95  | 644 | 4.62 | 55.14 | 14.94 | 0.3807 |
| 96  | 680 | 3.82 | 53.44 | 15.08 | 0.3079 |
| 97  | 656 | 7.98 | 64.00 | 13.11 | 0.6695 |
| 98  | 676 | 9.45 | 40.87 | 17.98 | 0.6946 |
| 99  | 642 | 4.76 | 48.09 | 14.56 | 0.3332 |
| 100 | 654 | 7.63 | 61.80 | 13.27 | 0.6257 |

Date: 12.07.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।



**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 30/453**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 2950      | 3.87                 | 69.02              | 10.69        | 0.2856                           |
| 2     | 2924      | 7.01                 | 60.65              | 14.15        | 0.6015                           |
| 3     | 2951      | 3.43                 | 65.63              | 13.76        | 0.3097                           |
| 4     | 2945      | 3.85                 | 66.65              | 12.84        | 0.3296                           |
| 5     | 2973      | 5.02                 | 61.48              | 12.46        | 0.3845                           |
| 6     | 2970      | 4.93                 | 59.51              | 13.11        | 0.3845                           |
| 7     | 2915      | 8.09                 | 67.99              | 13.30        | 0.7313                           |
| 8     | 2977      | 7.59                 | 63.41              | 12.92        | 0.6216                           |
| 9     | 2965      | 7.31                 | 62.78              | 13.86        | 0.6360                           |
| 10    | 2998      | 7.87                 | 62.62              | 13.29        | 0.6548                           |
| 11    | 2932      | 3.74                 | 57.57              | 14.19        | 0.3056                           |
| 12    | 2925      | 4.54                 | 62.04              | 13.68        | 0.3854                           |
| 13    | 2986      | 4.21                 | 62.16              | 13.00        | 0.3402                           |
| 14    | 2909      | 7.84                 | 65.72              | 13.07        | 0.6735                           |
| 15    | 2920      | 4.62                 | 72.45              | 11.48        | 0.3844                           |
| 16    | 2905      | 4.88                 | 63.24              | 13.66        | 0.4216                           |
| 17    | 2966      | 7.6                  | 59.61              | 14.63        | 0.6627                           |
| 18    | 2902      | 7.73                 | 61.98              | 13.68        | 0.6555                           |
| 19    | 2957      | 7.77                 | 63.61              | 13.28        | 0.6566                           |
| 20    | 2978      | 4.68                 | 57.70              | 13.50        | 0.3646                           |
| 21    | 2964      | 4.48                 | 65.03              | 13.76        | 0.4010                           |
| 22    | 2985      | 8.81                 | 46.31              | 14.90        | 0.6079                           |
| 23    | 2929      | 4.24                 | 54.74              | 12.35        | 0.2866                           |
| 24    | 2935      | 3.98                 | 60.90              | 13.27        | 0.3216                           |
| 25    | 2979      | 4.78                 | 62.66              | 12.89        | 0.3862                           |
| 26    | 2995      | 7.77                 | 54.69              | 13.71        | 0.5827                           |
| 27    | 2972      | 7.93                 | 59.64              | 13.40        | 0.6336                           |
| 28    | 2967      | 4.17                 | 58.79              | 13.59        | 0.3332                           |
| 29    | 2955      | 7.78                 | 56.61              | 14.33        | 0.6310                           |
| 30    | 2946      | 4.03                 | 65.10              | 13.99        | 0.3671                           |
| 31    | 2922      | 7.47                 | 61.89              | 13.73        | 0.6349                           |
| 32    | 2933      | 7.49                 | 68.04              | 14.89        | 0.7587                           |
| 33    | 2974      | 4.69                 | 56.09              | 14.57        | 0.3832                           |
| 34    | 2961      | 4.73                 | 58.45              | 14.70        | 0.4063                           |
| 35    | 2992      | 4.21                 | 69.08              | 13.69        | 0.3983                           |
| 36    | 2994      | 7.42                 | 61.41              | 13.16        | 0.5995                           |
| 37    | 2916      | 4.61                 | 57.72              | 14.02        | 0.3729                           |
| 38    | 2990      | 4.25                 | 58.91              | 14.16        | 0.3545                           |
| 39    | 2903      | 4.63                 | 60.07              | 13.45        | 0.3741                           |
| 40    | 2969      | 7.53                 | 67.00              | 13.78        | 0.6950                           |
| 41    | 2996      | 3.78                 | 51.65              | 15.88        | 0.3100                           |
| 42    | 2975      | 4.73                 | 59.52              | 13.83        | 0.3893                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 43 | 2941 | 4    | 63.39 | 14.53 | 0.3684 |
| 44 | 2983 | 5.19 | 45.15 | 16.63 | 0.3898 |
| 45 | 2987 | 4.25 | 60.90 | 13.20 | 0.3417 |
| 46 | 2939 | 4.59 | 57.49 | 15.72 | 0.4149 |
| 47 | 3000 | 7.14 | 50.39 | 15.66 | 0.5633 |
| 48 | 2947 | 4.84 | 61.40 | 13.97 | 0.4153 |
| 49 | 2919 | 4.01 | 67.93 | 13.37 | 0.3641 |
| 50 | 2963 | 4.8  | 57.43 | 13.96 | 0.3850 |
| 51 | 2923 | 4.76 | 61.28 | 14.34 | 0.4184 |
| 52 | 2984 | 4.04 | 59.06 | 14.78 | 0.3527 |
| 53 | 2968 | 4.35 | 56.82 | 15.45 | 0.3819 |
| 54 | 2926 | 3.8  | 60.49 | 14.30 | 0.3287 |
| 55 | 2971 | 4.53 | 64.80 | 13.04 | 0.3828 |
| 56 | 2904 | 7.71 | 63.52 | 13.57 | 0.6646 |
| 57 | 2993 | 3.38 | 51.79 | 14.40 | 0.2521 |
| 58 | 2980 | 4.59 | 62.81 | 13.15 | 0.3791 |
| 59 | 2917 | 4.5  | 58.81 | 13.60 | 0.3600 |
| 60 | 2940 | 3.81 | 64.54 | 13.82 | 0.3399 |
| 61 | 2931 | 4.82 | 63.81 | 14.75 | 0.4536 |
| 62 | 2938 | 7.63 | 64.68 | 13.31 | 0.6569 |
| 63 | 2960 | 4.58 | 62.18 | 12.75 | 0.3632 |
| 64 | 2936 | 4.75 | 69.17 | 14.23 | 0.4674 |
| 65 | 2981 | 4.69 | 59.48 | 13.65 | 0.3808 |
| 66 | 2989 | 4.05 | 54.17 | 15.08 | 0.3309 |
| 67 | 2958 | 4.18 | 59.64 | 14.81 | 0.3691 |
| 68 | 2928 | 4.72 | 54.45 | 14.49 | 0.3724 |
| 69 | 2913 | 4.53 | 60.52 | 13.05 | 0.3579 |
| 70 | 2942 | 4.64 | 63.44 | 15.09 | 0.4440 |
| 71 | 2911 | 4.76 | 59.76 | 16.00 | 0.4551 |
| 72 | 2930 | 3.85 | 50.63 | 13.69 | 0.2668 |
| 73 | 2976 | 4.69 | 54.18 | 16.24 | 0.4127 |
| 74 | 2959 | 4.14 | 55.28 | 17.49 | 0.4003 |
| 75 | 2948 | 3.86 | 58.31 | 14.70 | 0.3308 |
| 76 | 2944 | 3.82 | 51.13 | 18.46 | 0.3606 |
| 77 | 2952 | 3.41 | 61.04 | 16.73 | 0.3482 |
| 78 | 2991 | 4.01 | 42.28 | 18.61 | 0.3156 |
| 79 | 2934 | 7.97 | 54.43 | 18.45 | 0.8002 |
| 80 | 2918 | 4.68 | 53.86 | 18.21 | 0.4591 |
| 81 | 2906 | 3.83 | 60.73 | 13.21 | 0.3072 |
| 82 | 2908 | 7.6  | 52.19 | 17.65 | 0.7000 |
| 83 | 2901 | 3.61 | 53.88 | 14.18 | 0.2758 |
| 84 | 2949 | 8.91 | 55.73 | 17.21 | 0.8545 |
| 85 | 2954 | 7.57 | 42.77 | 16.93 | 0.5481 |
| 86 | 2962 | 7.47 | 60.14 | 10.23 | 0.4594 |
| 87 | 2937 | 3.92 | 63.02 | 11.95 | 0.2952 |
| 88 | 2921 | 7.59 | 70.12 | 10.80 | 0.5746 |
| 89 | 2999 | 3.49 | 67.85 | 11.11 | 0.2631 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 90  | 2914 | 3.77 | 60.75 | 10.09 | 0.2311 |
| 91  | 2907 | 4.62 | 66.49 | 10.09 | 0.3100 |
| 92  | 2927 | 4.28 | 56.77 | 10.76 | 0.2615 |
| 93  | 2953 | 6.67 | 44.04 | 9.29  | 0.2728 |
| 94  | 2956 | 3.45 | 54.82 | 11.13 | 0.2105 |
| 95  | 2943 | 4.04 | 64.94 | 9.95  | 0.2610 |
| 96  | 2988 | 4.69 | 62.91 | 11.94 | 0.3522 |
| 97  | 2910 | 4.09 | 71.72 | 9.84  | 0.2888 |
| 98  | 2912 | 4.51 | 65.90 | 12.79 | 0.3802 |
| 99  | 2982 | 7.05 | 51.62 | 14.49 | 0.5273 |
| 100 | 2997 | 7.82 | 57.10 | 14.19 | 0.6334 |

Date: 09.07.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 03/56**

| <b>S.No.</b> | <b>Cont. No.</b> | <b>Factory Wt.<br/>(Kg.)</b> | <b>Consistence<br/>(%)</b> | <b>MS%<br/>(ODB)</b> | <b>MS Content<br/>(In Absolute Term)</b> |
|--------------|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|
| 1            | 263              | 8.29                         | 48.09                      | 17.09                | 0.6814                                   |
| 2            | 300              | 7.8                          | 39.72                      | 16.09                | 0.4984                                   |
| 3            | 250              | 7.56                         | 61.72                      | 14.06                | 0.6562                                   |
| 4            | 287              | 9.78                         | 62.48                      | 13.03                | 0.7961                                   |
| 5            | 245              | 7.56                         | 57.01                      | 14.49                | 0.6245                                   |
| 6            | 243              | 4.65                         | 56.07                      | 14.37                | 0.3748                                   |
| 7            | 257              | 7.33                         | 52.04                      | 15.20                | 0.5798                                   |
| 8            | 284              | 9.64                         | 61.37                      | 14.57                | 0.8618                                   |
| 9            | 208              | 4.43                         | 53.17                      | 13.84                | 0.3260                                   |
| 10           | 228              | 7.53                         | 44.80                      | 16.70                | 0.5632                                   |
| 11           | 217              | 7.54                         | 64.05                      | 13.49                | 0.6515                                   |
| 12           | 202              | 4.73                         | 57.78                      | 13.40                | 0.3661                                   |
| 13           | 206              | 7.53                         | 47.85                      | 15.99                | 0.5760                                   |
| 14           | 285              | 3.89                         | 61.48                      | 15.05                | 0.3598                                   |
| 15           | 260              | 4.78                         | 62.96                      | 11.34                | 0.3413                                   |
| 16           | 222              | 9.41                         | 62.64                      | 13.55                | 0.7989                                   |
| 17           | 253              | 7.35                         | 52.88                      | 14.77                | 0.5740                                   |
| 18           | 211              | 8.11                         | 57.40                      | 14.55                | 0.6772                                   |
| 19           | 248              | 9.31                         | 50.81                      | 14.98                | 0.7085                                   |
| 20           | 209              | 7.67                         | 48.60                      | 15.99                | 0.5960                                   |
| 21           | 293              | 9.41                         | 56.27                      | 13.08                | 0.6926                                   |
| 22           | 230              | 8.46                         | 55.46                      | 14.61                | 0.6853                                   |
| 23           | 229              | 9.29                         | 44.46                      | 14.26                | 0.5890                                   |
| 24           | 238              | 7.4                          | 53.87                      | 15.18                | 0.6053                                   |
| 25           | 233              | 8.14                         | 59.71                      | 13.23                | 0.6431                                   |
| 26           | 283              | 4.11                         | 57.23                      | 11.88                | 0.2795                                   |
| 27           | 236              | 9.17                         | 61.80                      | 12.33                | 0.6988                                   |
| 28           | 266              | 7.3                          | 57.09                      | 14.01                | 0.5840                                   |
| 29           | 210              | 8.06                         | 61.44                      | 12.45                | 0.6166                                   |
| 30           | 249              | 7.63                         | 59.92                      | 13.33                | 0.6096                                   |
| 31           | 204              | 4.59                         | 59.47                      | 12.88                | 0.3516                                   |
| 32           | 235              | 10.18                        | 61.22                      | 13.28                | 0.8276                                   |
| 33           | 261              | 7.89                         | 60.57                      | 13.22                | 0.6320                                   |
| 34           | 215              | 7.68                         | 65.09                      | 13.01                | 0.6505                                   |
| 35           | 295              | 7.65                         | 56.13                      | 12.49                | 0.5363                                   |
| 36           | 205              | 7.94                         | 59.37                      | 11.52                | 0.5431                                   |
| 37           | 237              | 4.63                         | 56.89                      | 13.85                | 0.3648                                   |
| 38           | 216              | 9.56                         | 61.76                      | 11.32                | 0.6682                                   |
| 39           | 219              | 9.39                         | 57.60                      | 13.04                | 0.7052                                   |
| 40           | 232              | 7.96                         | 51.37                      | 13.65                | 0.5580                                   |
| 41           | 231              | 8.48                         | 47.02                      | 14.12                | 0.5631                                   |
| 42           | 234              | 7.7                          | 56.72                      | 12.46                | 0.5444                                   |

|    |     |      |       |       |        |
|----|-----|------|-------|-------|--------|
| 43 | 262 | 9.06 | 61.68 | 13.65 | 0.7629 |
| 44 | 241 | 6.97 | 53.85 | 13.87 | 0.5207 |
| 45 | 291 | 9.67 | 49.30 | 14.60 | 0.6962 |
| 46 | 269 | 9.65 | 58.29 | 13.11 | 0.7373 |
| 47 | 212 | 8.73 | 67.16 | 12.12 | 0.7106 |
| 48 | 240 | 7.73 | 51.33 | 15.39 | 0.6107 |
| 49 | 246 | 7.73 | 55.49 | 13.50 | 0.5790 |
| 50 | 259 | 4.63 | 64.34 | 11.75 | 0.3500 |
| 51 | 214 | 9.51 | 62.10 | 14.06 | 0.8302 |
| 52 | 297 | 9.42 | 45.76 | 16.78 | 0.7235 |
| 53 | 251 | 8.11 | 57.60 | 13.52 | 0.6318 |
| 54 | 292 | 9.07 | 55.64 | 14.61 | 0.7374 |
| 55 | 290 | 9    | 52.14 | 15.34 | 0.7200 |
| 56 | 220 | 9.31 | 59.19 | 14.19 | 0.7820 |
| 57 | 265 | 9.34 | 53.66 | 16.68 | 0.8359 |
| 58 | 264 | 4.78 | 52.97 | 15.24 | 0.3857 |
| 59 | 223 | 4.82 | 64.44 | 13.21 | 0.4102 |
| 60 | 268 | 4.87 | 60.07 | 13.98 | 0.4091 |
| 61 | 224 | 4.5  | 46.02 | 16.01 | 0.3317 |
| 62 | 221 | 9.2  | 57.00 | 13.30 | 0.6974 |
| 63 | 242 | 9.05 | 49.42 | 15.26 | 0.6824 |
| 64 | 201 | 9.48 | 54.60 | 15.15 | 0.7840 |
| 65 | 275 | 9.8  | 61.24 | 13.86 | 0.8320 |
| 66 | 294 | 8.99 | 44.31 | 15.32 | 0.6104 |
| 67 | 252 | 7.09 | 55.89 | 14.01 | 0.5551 |
| 68 | 255 | 3.85 | 59.60 | 14.04 | 0.3222 |
| 69 | 277 | 9.16 | 66.36 | 14.09 | 0.8565 |
| 70 | 286 | 7.92 | 61.90 | 12.84 | 0.6296 |
| 71 | 296 | 9.32 | 44.62 | 15.73 | 0.6543 |
| 72 | 267 | 4.76 | 58.57 | 13.32 | 0.3713 |
| 73 | 244 | 9.68 | 61.11 | 14.47 | 0.8557 |
| 74 | 289 | 3.89 | 55.33 | 14.01 | 0.3015 |
| 75 | 207 | 8.52 | 56.13 | 14.97 | 0.7157 |
| 76 | 218 | 9.32 | 60.59 | 13.12 | 0.7409 |
| 77 | 227 | 8.96 | 55.22 | 13.76 | 0.6810 |
| 78 | 213 | 9.28 | 62.55 | 12.90 | 0.7489 |
| 79 | 278 | 7.91 | 58.35 | 13.52 | 0.6241 |
| 80 | 288 | 9.32 | 62.75 | 13.48 | 0.7885 |
| 81 | 273 | 4.09 | 64.10 | 13.31 | 0.3489 |
| 82 | 226 | 8.29 | 54.90 | 13.01 | 0.5919 |
| 83 | 282 | 8.25 | 54.96 | 13.83 | 0.6270 |
| 84 | 281 | 7.55 | 60.21 | 13.37 | 0.6078 |
| 85 | 299 | 7.81 | 57.44 | 14.87 | 0.6670 |
| 86 | 258 | 7.6  | 57.21 | 14.16 | 0.6156 |
| 87 | 270 | 7.99 | 60.82 | 12.78 | 0.6208 |
| 88 | 225 | 4.87 | 55.39 | 13.96 | 0.3765 |
| 89 | 279 | 8.19 | 65.97 | 13.38 | 0.7232 |

|     |     |      |       |       |        |
|-----|-----|------|-------|-------|--------|
| 90  | 272 | 9.32 | 55.87 | 13.66 | 0.7111 |
| 91  | 203 | 7.3  | 54.69 | 14.65 | 0.5847 |
| 92  | 280 | 4.89 | 67.32 | 12.64 | 0.4161 |
| 93  | 247 | 9.07 | 55.71 | 13.37 | 0.6757 |
| 94  | 276 | 4.95 | 63.86 | 13.95 | 0.4410 |
| 95  | 256 | 9.38 | 57.17 | 14.36 | 0.7701 |
| 96  | 298 | 6.85 | 46.71 | 15.61 | 0.4994 |
| 97  | 254 | 7.87 | 60.14 | 13.02 | 0.6162 |
| 98  | 271 | 9.49 | 58.13 | 13.68 | 0.7545 |
| 99  | 274 | 8.42 | 52.79 | 15.87 | 0.7056 |
| 100 | 239 | 7.4  | 53.66 | 15.67 | 0.6223 |

Date: 06.07.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 32/455**

| <b>S.No.</b> | <b>Cont. No.</b> | <b>Factory Wt.<br/>(Kg.)</b> | <b>Consistence<br/>(%)</b> | <b>MS%<br/>(ODB)</b> | <b>MS Content<br/>(In Absolute Term)</b> |
|--------------|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|
| 1            | 3146             | 8.02                         | 66.19                      | 12.98                | 0.6889                                   |
| 2            | 3189             | 9.65                         | 65.60                      | 14.62                | 0.9254                                   |
| 3            | 3184             | 7.53                         | 61.06                      | 14.15                | 0.6506                                   |
| 4            | 3149             | 8.03                         | 60.92                      | 14.10                | 0.6898                                   |
| 5            | 3200             | 9.78                         | 63.95                      | 14.93                | 0.9340                                   |
| 6            | 3198             | 7.87                         | 63.97                      | 13.65                | 0.6871                                   |
| 7            | 3177             | 4.88                         | 69.45                      | 12.05                | 0.4085                                   |
| 8            | 3144             | 8.08                         | 64.77                      | 13.82                | 0.7232                                   |
| 9            | 3187             | 7.74                         | 60.01                      | 13.00                | 0.6037                                   |
| 10           | 3190             | 7.89                         | 64.13                      | 13.55                | 0.6856                                   |
| 11           | 3158             | 3.97                         | 65.33                      | 13.32                | 0.3454                                   |
| 12           | 3151             | 9.5                          | 65.97                      | 13.45                | 0.8426                                   |
| 13           | 3150             | 7.6                          | 61.52                      | 13.75                | 0.6430                                   |
| 14           | 3195             | 9.59                         | 68.24                      | 13.95                | 0.9130                                   |
| 15           | 3115             | 4.87                         | 56.92                      | 13.19                | 0.3657                                   |
| 16           | 3197             | 5.05                         | 69.79                      | 8.97                 | 0.3161                                   |
| 17           | 3161             | 4.64                         | 60.36                      | 11.07                | 0.3100                                   |
| 18           | 3132             | 4.36                         | 56.33                      | 12.73                | 0.3126                                   |
| 19           | 3127             | 4.58                         | 63.48                      | 10.98                | 0.3192                                   |
| 20           | 3154             | 5.03                         | 63.35                      | 12.09                | 0.3853                                   |
| 21           | 3166             | 5.01                         | 63.64                      | 11.61                | 0.3702                                   |
| 22           | 3113             | 4.3                          | 57.10                      | 11.84                | 0.2907                                   |
| 23           | 3110             | 7.39                         | 58.64                      | 11.43                | 0.4951                                   |
| 24           | 3165             | 2.6                          | 68.21                      | 9.94                 | 0.1763                                   |
| 25           | 3136             | 7.24                         | 62.15                      | 11.34                | 0.5104                                   |
| 26           | 3107             | 4.62                         | 59.12                      | 12.40                | 0.3386                                   |
| 27           | 3180             | 4.76                         | 53.35                      | 13.01                | 0.3303                                   |
| 28           | 3199             | 5.04                         | 62.73                      | 11.49                | 0.3634                                   |
| 29           | 3133             | 4.45                         | 53.18                      | 12.58                | 0.2977                                   |
| 30           | 3109             | 7.91                         | 62.22                      | 13.10                | 0.6447                                   |
| 31           | 3172             | 4.51                         | 62.83                      | 12.75                | 0.3613                                   |
| 32           | 3137             | 7.42                         | 60.82                      | 13.96                | 0.6300                                   |
| 33           | 3111             | 7.51                         | 57.50                      | 13.11                | 0.5663                                   |
| 34           | 3155             | 4.82                         | 58.45                      | 13.00                | 0.3663                                   |
| 35           | 3188             | 4.54                         | 55.41                      | 14.85                | 0.3736                                   |
| 36           | 3174             | 4.97                         | 63.51                      | 12.85                | 0.4056                                   |
| 37           | 3182             | 4.98                         | 63.77                      | 13.72                | 0.4358                                   |
| 38           | 3140             | 5.02                         | 54.34                      | 12.27                | 0.3348                                   |
| 39           | 3186             | 4.69                         | 65.05                      | 11.84                | 0.3611                                   |
| 40           | 3152             | 4.53                         | 56.85                      | 14.16                | 0.3647                                   |
| 41           | 3168             | 7.96                         | 72.17                      | 10.24                | 0.5882                                   |
| 42           | 3193             | 4.56                         | 69.67                      | 11.99                | 0.3808                                   |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 43 | 3164 | 3.78 | 78.15 | 11.26 | 0.3326 |
| 44 | 3192 | 5.08 | 76.22 | 11.83 | 0.4582 |
| 45 | 3106 | 7.31 | 61.23 | 12.22 | 0.5468 |
| 46 | 3171 | 4.87 | 69.80 | 10.85 | 0.3687 |
| 47 | 3129 | 4.39 | 69.82 | 12.17 | 0.3731 |
| 48 | 3169 | 4.61 | 68.06 | 9.55  | 0.2997 |
| 49 | 3101 | 4.74 | 57.88 | 7.15  | 0.1962 |
| 50 | 3157 | 5    | 65.45 | 11.34 | 0.3710 |
| 51 | 3163 | 8.14 | 62.83 | 11.81 | 0.6040 |
| 52 | 3119 | 4.65 | 62.31 | 12.92 | 0.3743 |
| 53 | 3138 | 4.22 | 59.66 | 13.54 | 0.3410 |
| 54 | 3131 | 4.48 | 57.66 | 13.63 | 0.3521 |
| 55 | 3124 | 4.47 | 59.80 | 14.65 | 0.3916 |
| 56 | 3196 | 4.95 | 63.05 | 13.96 | 0.4356 |
| 57 | 3123 | 4.5  | 54.47 | 14.37 | 0.3524 |
| 58 | 3162 | 4.9  | 63.39 | 12.51 | 0.3886 |
| 59 | 3153 | 4.22 | 64.57 | 12.51 | 0.3410 |
| 60 | 3183 | 9.65 | 56.60 | 12.42 | 0.6784 |
| 61 | 3114 | 4.37 | 59.71 | 13.80 | 0.3601 |
| 62 | 3126 | 4.04 | 56.21 | 13.89 | 0.3155 |
| 63 | 3170 | 4.08 | 63.27 | 11.60 | 0.2995 |
| 64 | 3122 | 4.59 | 62.89 | 12.67 | 0.3658 |
| 65 | 3142 | 4.01 | 68.00 | 11.87 | 0.3236 |
| 66 | 3112 | 4.43 | 63.26 | 14.13 | 0.3960 |
| 67 | 3181 | 4.82 | 68.21 | 14.50 | 0.4767 |
| 68 | 3128 | 4.73 | 59.93 | 12.87 | 0.3647 |
| 69 | 3145 | 8.1  | 63.00 | 13.10 | 0.6683 |
| 70 | 3108 | 7.14 | 57.16 | 13.84 | 0.5648 |
| 71 | 3135 | 4.69 | 59.18 | 10.22 | 0.2837 |
| 72 | 3147 | 3.96 | 60.75 | 12.67 | 0.3049 |
| 73 | 3120 | 4.86 | 57.17 | 12.52 | 0.3480 |
| 74 | 3185 | 7.87 | 63.97 | 13.57 | 0.6831 |
| 75 | 3102 | 4.65 | 58.98 | 12.75 | 0.3497 |
| 76 | 3178 | 5.2  | 69.00 | 11.51 | 0.4129 |
| 77 | 3159 | 4.91 | 55.41 | 12.71 | 0.3457 |
| 78 | 3141 | 4.94 | 63.20 | 11.44 | 0.3572 |
| 79 | 3125 | 4.4  | 53.24 | 14.50 | 0.3397 |
| 80 | 3160 | 4.89 | 57.78 | 12.95 | 0.3658 |
| 81 | 3148 | 4.93 | 62.30 | 13.56 | 0.4166 |
| 82 | 3176 | 4.84 | 65.94 | 13.66 | 0.4361 |
| 83 | 3134 | 4.69 | 65.78 | 6.58  | 0.2031 |
| 84 | 3104 | 4.67 | 64.78 | 6.56  | 0.1985 |
| 85 | 3105 | 4.31 | 55.56 | 14.54 | 0.3482 |
| 86 | 3173 | 8.08 | 61.20 | 14.28 | 0.7062 |
| 87 | 3139 | 9.56 | 57.33 | 14.32 | 0.7849 |
| 88 | 3175 | 4.61 | 60.75 | 13.27 | 0.3716 |
| 89 | 3167 | 4.87 | 55.90 | 14.31 | 0.3896 |



|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 90  | 3121 | 6.98 | 60.20 | 14.39 | 0.6045 |
| 91  | 3143 | 3.85 | 58.25 | 12.94 | 0.2903 |
| 92  | 3194 | 4.86 | 60.86 | 15.05 | 0.4452 |
| 93  | 3117 | 7.16 | 61.94 | 14.21 | 0.6301 |
| 94  | 3179 | 4.68 | 52.99 | 16.19 | 0.4015 |
| 95  | 3130 | 4.79 | 57.06 | 14.04 | 0.3837 |
| 96  | 3116 | 4.86 | 55.69 | 13.88 | 0.3757 |
| 97  | 3103 | 4.83 | 59.71 | 13.67 | 0.3941 |
| 98  | 3118 | 4.53 | 59.21 | 12.92 | 0.3465 |
| 99  | 3191 | 7.8  | 66.16 | 14.98 | 0.7730 |
| 100 | 3156 | 4.86 | 58.77 | 13.08 | 0.3737 |

Date: 01.07.2022

**अस्वीकरण:-**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 08/138**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 748       | 7.58                 | 56.02              | 11.19        | 0.4753                           |
| 2     | 764       | 8.9                  | 51.38              | 12.67        | 0.5794                           |
| 3     | 714       | 7.83                 | 57.31              | 12.65        | 0.5677                           |
| 4     | 704       | 8.72                 | 49.71              | 13.04        | 0.5651                           |
| 5     | 724       | 4.82                 | 57.43              | 13.46        | 0.3726                           |
| 6     | 785       | 8.69                 | 61.99              | 14.18        | 0.7639                           |
| 7     | 733       | 7.51                 | 60.42              | 11.25        | 0.5107                           |
| 8     | 766       | 4.77                 | 61.09              | 11.36        | 0.3310                           |
| 9     | 781       | 8.97                 | 67.27              | 13.87        | 0.8369                           |
| 10    | 728       | 9.36                 | 61.52              | 12.68        | 0.7301                           |
| 11    | 765       | 4.62                 | 64.01              | 11.75        | 0.3474                           |
| 12    | 771       | 4.65                 | 60.05              | 13.26        | 0.3701                           |
| 13    | 723       | 7.77                 | 62.31              | 13.05        | 0.6317                           |
| 14    | 742       | 9.23                 | 56.50              | 12.85        | 0.6701                           |
| 15    | 772       | 7.85                 | 60.47              | 15.21        | 0.7222                           |
| 16    | 702       | 7.59                 | 61.69              | 11.75        | 0.5503                           |
| 17    | 755       | 9.48                 | 56.25              | 12.55        | 0.6693                           |
| 18    | 743       | 7.38                 | 55.60              | 11.67        | 0.4790                           |
| 19    | 774       | 7.48                 | 62.67              | 14.33        | 0.6717                           |
| 20    | 794       | 8.92                 | 62.48              | 13.73        | 0.7653                           |
| 21    | 722       | 7.57                 | 59.39              | 13.27        | 0.5965                           |
| 22    | 798       | 4.44                 | 65.06              | 14.56        | 0.4205                           |
| 23    | 760       | 9.85                 | 56.67              | 12.12        | 0.6767                           |
| 24    | 752       | 4.56                 | 59.52              | 12.72        | 0.3452                           |
| 25    | 762       | 7.26                 | 58.24              | 11.09        | 0.4690                           |
| 26    | 749       | 9.17                 | 56.47              | 12.56        | 0.6502                           |
| 27    | 717       | 8.04                 | 59.48              | 14.68        | 0.7019                           |
| 28    | 790       | 7.16                 | 63.98              | 14.79        | 0.6773                           |
| 29    | 767       | 7.49                 | 54.87              | 16.02        | 0.6584                           |
| 30    | 721       | 4.88                 | 64.04              | 14.37        | 0.4490                           |
| 31    | 759       | 7.81                 | 51.65              | 15.47        | 0.6240                           |
| 32    | 799       | 7.57                 | 60.51              | 15.22        | 0.6972                           |
| 33    | 738       | 4.58                 | 61.53              | 13.81        | 0.3893                           |
| 34    | 769       | 4.54                 | 53.45              | 15.98        | 0.3877                           |
| 35    | 727       | 4.88                 | 55.72              | 14.07        | 0.3826                           |
| 36    | 775       | 4.26                 | 65.43              | 14.40        | 0.4013                           |
| 37    | 761       | 4.56                 | 59.28              | 13.97        | 0.3776                           |
| 38    | 753       | 4.73                 | 59.15              | 13.78        | 0.3855                           |
| 39    | 707       | 7.85                 | 58.49              | 12.34        | 0.5668                           |
| 40    | 720       | 7.01                 | 55.27              | 14.28        | 0.5531                           |
| 41    | 788       | 4.55                 | 61.56              | 14.07        | 0.3940                           |
| 42    | 731       | 9.66                 | 66.90              | 15.05        | 0.9728                           |

|    |     |      |       |       |        |
|----|-----|------|-------|-------|--------|
| 43 | 706 | 7.55 | 58.13 | 13.95 | 0.6123 |
| 44 | 795 | 7.41 | 66.69 | 14.16 | 0.6995 |
| 45 | 701 | 4.62 | 64.72 | 12.19 | 0.3645 |
| 46 | 784 | 4.47 | 67.27 | 14.21 | 0.4273 |
| 47 | 770 | 9.09 | 62.91 | 14.47 | 0.8272 |
| 48 | 787 | 7.34 | 65.75 | 13.76 | 0.6643 |
| 49 | 729 | 4.82 | 70.53 | 13.38 | 0.4550 |
| 50 | 789 | 4.4  | 65.91 | 14.49 | 0.4202 |
| 51 | 777 | 9.44 | 60.57 | 14.20 | 0.8118 |
| 52 | 783 | 8.83 | 69.50 | 14.22 | 0.8724 |
| 53 | 737 | 4.61 | 63.62 | 12.28 | 0.3600 |
| 54 | 741 | 4.42 | 42.65 | 14.28 | 0.2692 |
| 55 | 745 | 4.47 | 55.39 | 13.97 | 0.3460 |
| 56 | 719 | 4.58 | 57.22 | 13.84 | 0.3627 |
| 57 | 776 | 7.23 | 63.14 | 14.06 | 0.6420 |
| 58 | 711 | 7.46 | 57.38 | 14.62 | 0.6259 |
| 59 | 754 | 2.19 | 54.34 | 15.42 | 0.1835 |
| 60 | 708 | 4.54 | 53.34 | 15.07 | 0.3650 |
| 61 | 740 | 9.75 | 64.61 | 15.51 | 0.9770 |
| 62 | 751 | 4.86 | 62.64 | 12.98 | 0.3951 |
| 63 | 757 | 4.72 | 52.44 | 13.56 | 0.3356 |
| 64 | 782 | 4.53 | 70.29 | 12.89 | 0.4104 |
| 65 | 780 | 7.52 | 61.65 | 15.56 | 0.7212 |
| 66 | 750 | 7.55 | 52.13 | 13.18 | 0.5187 |
| 67 | 746 | 9.44 | 51.69 | 12.69 | 0.6193 |
| 68 | 705 | 7.83 | 56.70 | 14.87 | 0.6601 |
| 69 | 797 | 4.56 | 69.90 | 13.55 | 0.4318 |
| 70 | 725 | 7.84 | 63.69 | 13.46 | 0.6719 |
| 71 | 736 | 7.66 | 60.24 | 13.08 | 0.6036 |
| 72 | 726 | 9.46 | 58.50 | 12.96 | 0.7171 |
| 73 | 800 | 4.38 | 67.89 | 14.86 | 0.4419 |
| 74 | 768 | 7.28 | 58.82 | 14.01 | 0.5999 |
| 75 | 793 | 9.09 | 68.87 | 13.31 | 0.8336 |
| 76 | 703 | 8.45 | 50.58 | 14.71 | 0.6287 |
| 77 | 712 | 4.85 | 58.32 | 13.44 | 0.3802 |
| 78 | 747 | 7.45 | 53.94 | 11.90 | 0.4783 |
| 79 | 796 | 7.91 | 61.53 | 14.17 | 0.6898 |
| 80 | 792 | 4.22 | 68.43 | 13.94 | 0.4026 |
| 81 | 791 | 7.36 | 68.89 | 13.62 | 0.6904 |
| 82 | 786 | 8.94 | 66.37 | 13.53 | 0.8028 |
| 83 | 779 | 7.47 | 64.17 | 11.02 | 0.5281 |
| 84 | 739 | 8.07 | 65.97 | 14.73 | 0.7844 |
| 85 | 744 | 4.68 | 59.58 | 13.44 | 0.3749 |
| 86 | 735 | 7.52 | 63.43 | 14.03 | 0.6693 |
| 87 | 758 | 9.62 | 55.05 | 11.64 | 0.6166 |
| 88 | 773 | 7.21 | 67.47 | 13.31 | 0.6475 |
| 89 | 710 | 7.49 | 64.10 | 12.61 | 0.6052 |

|     |     |      |       |       |        |
|-----|-----|------|-------|-------|--------|
| 90  | 713 | 7.51 | 65.37 | 12.15 | 0.5963 |
| 91  | 763 | 4.79 | 64.50 | 12.06 | 0.3727 |
| 92  | 718 | 9.65 | 62.63 | 13.28 | 0.8029 |
| 93  | 716 | 7.59 | 64.63 | 12.33 | 0.6049 |
| 94  | 732 | 7.31 | 65.84 | 12.03 | 0.5790 |
| 95  | 778 | 4.52 | 63.67 | 13.33 | 0.3837 |
| 96  | 709 | 9.17 | 55.84 | 14.34 | 0.7345 |
| 97  | 715 | 9.62 | 64.25 | 13.70 | 0.8466 |
| 98  | 730 | 4.26 | 56.82 | 13.41 | 0.3246 |
| 99  | 734 | 7.98 | 66.83 | 11.85 | 0.6320 |
| 100 | 756 | 4.56 | 55.30 | 14.36 | 0.3621 |

Date: 24.06.2022

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

**Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)****Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-II****Challan No. : 28/419**

| S.No. | Cont. No. | Factory Wt.<br>(Kg.) | Consistence<br>(%) | MS%<br>(ODB) | MS Content<br>(In Absolute Term) |
|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 1     | 2747      | 4.42                 | 63.18              | 13.66        | 0.3814                           |
| 2     | 2706      | 8.26                 | 60.44              | 12.62        | 0.6302                           |
| 3     | 2712      | 4.53                 | 66.87              | 11.92        | 0.3610                           |
| 4     | 2767      | 4.26                 | 66.51              | 12.54        | 0.3553                           |
| 5     | 2776      | 7.4                  | 67.90              | 12.44        | 0.6253                           |
| 6     | 2734      | 4.4                  | 59.44              | 13.51        | 0.3533                           |
| 7     | 2750      | 2.85                 | 53.47              | 13.22        | 0.2015                           |
| 8     | 2743      | 8.58                 | 64.30              | 12.78        | 0.7053                           |
| 9     | 2723      | 4.65                 | 58.83              | 12.94        | 0.3539                           |
| 10    | 2746      | 7.69                 | 61.65              | 12.68        | 0.6014                           |
| 11    | 2711      | 7.38                 | 65.94              | 12.95        | 0.6303                           |
| 12    | 2797      | 8.48                 | 67.85              | 13.60        | 0.7827                           |
| 13    | 2708      | 4.56                 | 68.58              | 13.39        | 0.4186                           |
| 14    | 2774      | 4.35                 | 69.37              | 12.50        | 0.3771                           |
| 15    | 2798      | 7.57                 | 65.74              | 11.90        | 0.5920                           |
| 16    | 2716      | 8.52                 | 61.57              | 12.33        | 0.6467                           |
| 17    | 2758      | 4.42                 | 62.93              | 12.86        | 0.3576                           |
| 18    | 2756      | 4.19                 | 67.26              | 13.10        | 0.3691                           |
| 19    | 2787      | 4.49                 | 59.32              | 12.91        | 0.3439                           |
| 20    | 2736      | 4.12                 | 57.37              | 13.47        | 0.3185                           |
| 21    | 2731      | 8.93                 | 62.62              | 13.25        | 0.7412                           |
| 22    | 2745      | 4.57                 | 63.92              | 13.77        | 0.4022                           |
| 23    | 2704      | 4.63                 | 57.90              | 13.71        | 0.3676                           |
| 24    | 2799      | 7.41                 | 57.50              | 14.43        | 0.6150                           |
| 25    | 2791      | 4.36                 | 58.61              | 14.66        | 0.3745                           |
| 26    | 2709      | 8.07                 | 68.56              | 11.80        | 0.6529                           |
| 27    | 2710      | 3.68                 | 65.02              | 12.43        | 0.2973                           |
| 28    | 2757      | 4.42                 | 66.15              | 12.79        | 0.3739                           |
| 29    | 2795      | 8.43                 | 59.16              | 13.25        | 0.6609                           |
| 30    | 2717      | 7.6                  | 66.82              | 12.78        | 0.6490                           |
| 31    | 2773      | 6.91                 | 65.16              | 13.29        | 0.5984                           |
| 32    | 2800      | 7.32                 | 64.61              | 11.93        | 0.5644                           |
| 33    | 2765      | 4.44                 | 69.28              | 10.97        | 0.3374                           |
| 34    | 2793      | 7.61                 | 62.05              | 14.38        | 0.6788                           |
| 35    | 2705      | 7.37                 | 60.46              | 14.60        | 0.6508                           |
| 36    | 2759      | 4.38                 | 68.33              | 12.04        | 0.3605                           |
| 37    | 2763      | 4.39                 | 58.48              | 13.90        | 0.3569                           |
| 38    | 2737      | 3.7                  | 61.30              | 13.88        | 0.3149                           |
| 39    | 2742      | 7.5                  | 65.88              | 13.57        | 0.6705                           |
| 40    | 2720      | 4.39                 | 65.82              | 13.63        | 0.3938                           |
| 41    | 2733      | 7.27                 | 63.09              | 13.25        | 0.6078                           |
| 42    | 2725      | 8.23                 | 61.49              | 12.41        | 0.6279                           |

|    |      |      |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|--------|
| 43 | 2702 | 7.56 | 65.61 | 12.45 | 0.6177 |
| 44 | 2792 | 7.23 | 55.79 | 13.71 | 0.5531 |
| 45 | 2772 | 4.46 | 65.57 | 12.80 | 0.3742 |
| 46 | 2724 | 7.55 | 67.80 | 13.64 | 0.6984 |
| 47 | 2738 | 4.29 | 64.94 | 12.06 | 0.3359 |
| 48 | 2707 | 7.74 | 62.64 | 13.38 | 0.6486 |
| 49 | 2752 | 4.41 | 62.72 | 12.79 | 0.3537 |
| 50 | 2790 | 4.51 | 63.00 | 12.33 | 0.3504 |
| 51 | 2778 | 7.27 | 59.42 | 14.19 | 0.6129 |
| 52 | 2761 | 4.44 | 56.75 | 13.67 | 0.3445 |
| 53 | 2777 | 7.31 | 69.10 | 12.62 | 0.6374 |
| 54 | 2722 | 3.71 | 62.89 | 13.72 | 0.3202 |
| 55 | 2732 | 4.57 | 59.93 | 13.23 | 0.3624 |
| 56 | 2784 | 7.34 | 57.82 | 13.04 | 0.5534 |
| 57 | 2754 | 4.16 | 57.75 | 13.85 | 0.3328 |
| 58 | 2788 | 4.47 | 54.57 | 13.41 | 0.3272 |
| 59 | 2703 | 8.34 | 62.36 | 12.65 | 0.6580 |
| 60 | 2753 | 4.66 | 66.79 | 12.58 | 0.3914 |
| 61 | 2760 | 7.52 | 62.87 | 13.42 | 0.6347 |
| 62 | 2775 | 6.94 | 59.47 | 13.72 | 0.5663 |
| 63 | 2727 | 3.75 | 63.22 | 13.43 | 0.3184 |
| 64 | 2744 | 4.55 | 67.81 | 12.36 | 0.3813 |
| 65 | 2771 | 4.31 | 66.27 | 13.44 | 0.3840 |
| 66 | 2740 | 3.64 | 60.58 | 12.69 | 0.2799 |
| 67 | 2721 | 7.27 | 67.13 | 12.81 | 0.6252 |
| 68 | 2762 | 7.22 | 66.57 | 12.77 | 0.6137 |
| 69 | 2783 | 7.31 | 58.96 | 13.47 | 0.5804 |
| 70 | 2796 | 8.74 | 61.22 | 13.20 | 0.7062 |
| 71 | 2768 | 6.96 | 61.28 | 14.05 | 0.5993 |
| 72 | 2786 | 4.32 | 63.55 | 12.65 | 0.3473 |
| 73 | 2729 | 4.4  | 58.37 | 14.48 | 0.3718 |
| 74 | 2794 | 7.35 | 63.81 | 12.60 | 0.5909 |
| 75 | 2764 | 7.35 | 59.40 | 11.72 | 0.5116 |
| 76 | 2739 | 4.16 | 58.62 | 13.85 | 0.3378 |
| 77 | 2748 | 7.23 | 61.89 | 12.85 | 0.5748 |
| 78 | 2701 | 4.5  | 65.64 | 12.84 | 0.3794 |
| 79 | 2755 | 4.45 | 68.92 | 11.39 | 0.3493 |
| 80 | 2781 | 4.33 | 68.20 | 11.52 | 0.3403 |
| 81 | 2769 | 7.23 | 67.94 | 11.64 | 0.5719 |
| 82 | 2780 | 4.49 | 71.68 | 12.14 | 0.3906 |
| 83 | 2741 | 4.52 | 62.28 | 13.20 | 0.3715 |
| 84 | 2770 | 4.24 | 68.63 | 12.75 | 0.3710 |
| 85 | 2785 | 4.56 | 62.53 | 12.15 | 0.3466 |
| 86 | 2779 | 7.39 | 70.12 | 12.05 | 0.6245 |
| 87 | 2714 | 9.57 | 66.45 | 12.29 | 0.7819 |
| 88 | 2735 | 3.7  | 65.16 | 13.72 | 0.3308 |
| 89 | 2718 | 4.57 | 62.96 | 13.21 | 0.3802 |

|     |      |      |       |       |        |
|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 90  | 2728 | 4.51 | 62.10 | 13.51 | 0.3784 |
| 91  | 2715 | 7.48 | 61.46 | 14.01 | 0.6440 |
| 92  | 2749 | 7.26 | 65.76 | 12.30 | 0.5873 |
| 93  | 2766 | 7.16 | 65.52 | 12.97 | 0.6086 |
| 94  | 2730 | 4.64 | 65.77 | 12.21 | 0.3726 |
| 95  | 2782 | 7.21 | 57.42 | 13.25 | 0.5487 |
| 96  | 2719 | 7.83 | 71.08 | 7.74  | 0.4306 |
| 97  | 2713 | 7.73 | 64.08 | 13.00 | 0.6439 |
| 98  | 2726 | 4.45 | 61.45 | 13.73 | 0.3756 |
| 99  | 2789 | 4.17 | 64.55 | 13.21 | 0.3557 |
| 100 | 2751 | 4.23 | 58.75 | 13.33 | 0.3312 |

Date: 23.06.2022

**अस्वीकरण:—**

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।